



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 17—मार्च 23, 2007 (फाल्गुन 26, 1928)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17—MARCH 23, 2007 (PHALGUNA 26, 1928)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of
the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

परीक्षा नोटिस सं. 08/2007-एनडीए-II

नई दिल्ली-110069, दिनांक 17 मार्च 2007

(आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 16.04.2007)

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2007

(आयोग की वेबसाइट <http://www.upsc.gov.in>)

सं. 7/7/2006 प. I (ख)--राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए जुलाई, 2008 में शुरू होने वाले 120वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 40वें पाठ्यक्रम 10+2 (कार्यपालक शाखा) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 19 अगस्त, 2007 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 335 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 195, नौ सेना के लिए 39, वायु सेना के लिए 66 और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के लिए यह संख्या 35 होगी)। रिक्तियां अनंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) उम्मीदवार को आवेदन प्रपत्र के कालम 17(1) में यह स्पष्ट रूप से बतलाना होगा कि वह किन सेवाओं के लिए वरीयता क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह अपनी इच्छानुसार जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें ताकि योग्यता क्रम में उसके रैंक को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति करते समय उसकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निद्रिष्ट वरीयता में वृद्धि/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) विभिन्न कोर्सों में अपनी वरीयताओं को निद्रिष्ट करने से पहले उम्मीदवार दोनों अकादमियों, अर्थात् राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) के लिए अपनी वरीयता सुनिश्चित कर लें। यदि कोई उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है, तो उसे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों अर्थात् थल सेना, नौ सेना तथा वायु सेना में अपनी पहली वरीयता निद्रिष्ट कर देनी चाहिए तथा नौ सेना अकादमी

(कार्यपालक शाखा) को उसके बाद वरीयता देनी चाहिए। इसी प्रकार, यदि कोई उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले विकल्प के रूप में चुनता है तो उसे नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपनी पहली वरीयता निद्रिष्ट कर देनी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के विभिन्न स्कंधों के लिए अपनी वरीयताएं देनी चाहिए। अतः जो उम्मीदवार नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) कोस के साथ-साथ राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के अन्य कोसों का भी चयन करते हैं उन्हें नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को अपने पहले या अंतिम वरीयता के रूप में विकल्प देना चाहिए। नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता नहीं दी जा सकती है। यदि उम्मीदवार द्वारा नौ सेना अकादमी (कार्यपालक शाखा) को दूसरी या तीसरी वरीयता भी दी गई तो उसे उम्मीदवार की अंतिम वरीयता समझा जाएगा।

(iv) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोस में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र : परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐजल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, ईयनगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, चण्डीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड, दिसपुर, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मद्रुरै, मुंबई, नागपुर, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 16 मई, 2007 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता

उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा, या

3. भूयन की प्रजा, या

4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या

5. भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंजानिया, संयुक्त गणराज्य, जाम्बिया, मलावी, जैरे, तथा इथोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जुलाई, 1989 से पहले न हुआ हो तथा पहली जनवरी, 1992 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाण पत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाण पत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्धरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्धरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाण पत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र या समकक्ष प्रमाण पत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को आवेदन प्रपत्र के कॉलम 8 में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है वह सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा 10+2 के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एस एस बी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेते हैं लेकिन एस एस बी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10+2 या समकक्ष प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें प्रमाणपत्र, उनकी फोटोप्रति सहित "अपर महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066" को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में "नौसेना मुख्यालय, डी एम पी आर (आर एवं आर) अनुभाग, कमरा सं. 206, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को 10 जून, 2008 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10+2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एस एस बी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एस एस बी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वाारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जायेंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विचार से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहराता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह

विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 10 जून, 2008 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबंध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (II), 2007 हेतु परिशिष्ट-V में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क:

(i) परीक्षा में प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार को आयोग को 50/- रु. (केवल पचास रुपये) के शुल्क का भुगतान करना होगा जो कि समुचित मूल्य की एक केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के रूप में हो। केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट (डाक टिकट नहीं) डाकघर से प्राप्त करें और आवेदन प्रपत्र पर इसके लिए निर्धारित स्थान पर चिपका दें। जारी करने वाले डाकघर की तारीख की मोहर सहित उस टिकट को इस तरह से रद्द किया जाए कि रद्द करने की मोहर की छाप आंशिक रूप से आवेदन प्रपत्र पर भी किंतु आवेदन प्रपत्र में दिए गए स्थान के अंदर, अपने आप आ जाए। रद्द किए गए टिकट पर छाप स्पष्ट होनी चाहिए ताकि तारीख तथा जारी करने वाले डाकघर की पहचान स्पष्ट रूप से हो सके।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क भारत के उच्च आयुक्त, राजदूत या विदेश में स्थित प्रतिनिधि के कार्यालय में, जैसी भी स्थिति हो इस अनुरोध के साथ जमा करना होगा ताकि वह "051-लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के लेखा शीर्ष में जमा हो जाए और आवेदन प्रपत्र के साथ उसकी रसीद लगा कर भेजनी चाहिए।

जिन आवेदन पत्रों में इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, उन्हें एकदम अस्वीकार कर दिया जायेगा। यह उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो निम्नांकित पैराग्राफ के अंतर्गत निर्धारित शुल्क में छूट का दावा करते हैं। अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

किसी भी हालत में केन्द्रीय भर्ती शुल्क टिकट के स्थान पर डाक टिकट स्वीकार नहीं की जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय पोस्टल आर्डर, बैंक ड्राफ्ट, मनीआर्डर, रेखांकित चेक, चलमुद्रा नोट या ट्रेजरी चालान आदि आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा ऐसे आवेदन प्रपत्रों को शुल्क रहित माना जाएगा तथा उन्हें एकदम अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ii) थल सेना के जूनियर कमीशन्ड अफसरों, नान कमीशन्ड अफसरों तथा अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों और थल सेना के भूतपूर्व जूनियर कमीशन्ड अफसरों, भूतपूर्व नान कमीशन्ड अफसरों तथा भूतपूर्व अन्य रैंकों और भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना के समकक्ष रैंकों के बच्चों को उस स्थिति में निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी जब वे निम्नलिखित शर्तें पूरी कर देते हैं। अर्थात् :

(क) वे मिलिट्री स्कूल (पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से ज्ञात)/सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं और,

(ख) उनके आवेदन संबद्ध स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा अग्रेषित किये जाते हैं।

टिप्पणी : मिलिट्री स्कूल/सैनिक स्कूलों के उम्मीदवारों के संबद्ध स्कूलों के प्रधानाचार्य द्वारा अपेक्षित आवेदन प्रपत्रों की संवीक्षा आयोग के कार्यालय में यह निश्चय करने के लिए की जाएगी कि क्या ऐसे उम्मीदवार उपर्युक्त, नोटिस के पैरा 4 (ii) के अंतर्गत शुल्क के छूट के हकदार हैं। किन्तु मिलिट्री स्कूलों/सैनिक स्कूलों के प्रधानाचार्यों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों के आवेदन प्रपत्र आयोग को अग्रेषित करने से पहले संतुष्ट होना चाहिए कि वे नोटिस की उक्त व्यवस्था की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। अग्रेषण पत्र भेजते समय आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख भी करना चाहिए। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग अथवा पिन नहीं करना चाहिए। आयोग प्रधानाचार्य के कृताकृतों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

आवेदन के साथ आयोग को अदा किये गये शुल्क को वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

(क) संघ लोक सेवा आयोग ने अपनी सभी परीक्षाओं के लिए सामान्यतः एक आवेदन प्रपत्र तैयार किया है जिसे कम्प्यूटीकृत मशीनों द्वारा जांचा जा सकता है। आवेदन प्रपत्र के साथ सूचना विवरणिका जिसमें प्रपत्र भरने के लिए सामान्य अनुदेश, पावती कार्ड एवं आवेदन पत्र भेजने के लिए एक लिफाफा शामिल है, नोटिस के परिशिष्ट-III में सूचीबद्ध देश भर के निद्रिष्ट किए प्रधान डाकघरों/डाकघरों से 20 रु. (केवल बीस रुपये) नकद भुगतान करके प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रपत्र केवल निद्रिष्ट किए डाकघरों से ही खरीदने चाहिए किसी अन्य एजेंसी से नहीं। यह प्रपत्र एक परीक्षा के लिए केवल एक बार प्रयोग में लाया जा सकता है। उम्मीदवार केवल सूचना विवरणिका के साथ दिए गए प्रपत्र का प्रयोग करें तथा उन्हें किसी भी स्थिति में प्रपत्र की छायाप्रति/प्रतिलिपि/अप्रामाणिक मुद्रित प्रति का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

चूंकि इस प्रपत्र की इलेक्ट्रॉनिक मशीन द्वारा बारीकी से जांच की जाती है, आवेदन प्रपत्र को सही ढंग से भरने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आवेदन प्रपत्र को भरते समय, कृपया नोटिस के परिशिष्ट-II में दिए गए विस्तृत अनुदेशों को देखें। उम्मीदवार को पावती कार्ड के संगत स्थानों पर अपना आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय) और परीक्षा का नाम भी भरना चाहिए। आवेदक को आवेदन प्रपत्र के साथ पावती कार्ड पर रु. 6/- (छः रुपये मात्र) का डाक टिकट लगाकर उसे संघ लोक सेवा आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक वांछित मूल्य का डाक टिकट नहीं लगाता है, तो उसका पावती कार्ड प्रेषित नहीं किया जाएगा तथा कार्ड को आवेदक द्वारा प्राप्त न किए जाने के लिये आयोग जिम्मेवार नहीं होगा। विधिवत भरा गया आवेदन प्रपत्र एवं पावती कार्ड तब सूचना विवरणिका के साथ दिए विशेष लिफाफे में भेजे जाने चाहिए। लिफाफा 'सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110 069' को भेजने से पहले आपको उसके ऊपर परीक्षा का नाम अर्थात् 'राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी परीक्षा (II), 2007' भी लिखना चाहिए। उम्मीदवार को अपना टेलीफोन/फैक्स नं. लिखना चाहिए।

(ख) सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर-सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, अपने आवेदन प्रपत्र आयोग को सीधे भेजने चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन प्रपत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंचा हो तो उस आवेदन प्रपत्र पर विचार नहीं किया जायेगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहे हों या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हों, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्ति शामिल नहीं है, या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, उनको यह परिवचन (अण्डरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने/परीक्षा में बैठने से सम्बद्ध अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जा सकता है/उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जा सकती है।

जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में सेवारत हैं उन्हें अपने आवेदन प्रपत्र अपने कमांडिंग अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वे अग्रेषण पत्र के साथ आवेदक का नाम तथा आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए, आयोग को अग्रेषित करेंगे।

भारतीय नौ सेना में नौ सैनिकों (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित) के आवेदन पत्रों को, तभी स्वीकार किया जायेगा जब उन्हें उनके कमांडिंग अधिकारियों द्वारा विधिवत् अनुशंसित किया गया हो। राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कालेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल कहा जाता था) देहरादून, मिलिटरी स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसाइटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने आवेदन पत्र संबद्ध कालेज/स्कूलों के प्रिंसिपल

के माध्यम से प्रस्तुत करने चाहिए, जिन्हें वह अग्रेषण पत्र पर आवेदन का नाम तथा उसका आवेदन प्रपत्र क्रमांक (8 अंकीय) का उल्लेख करते हुए आयोग को अग्रेषित करेंगे। अग्रेषण पत्र को आवेदन प्रपत्र के साथ टैग या पिन न किया जाये।

टिप्पणी 1 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। एक ही उम्मीदवार के अलग-अलग केन्द्र देते हुए एक से अधिक आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक पूरे भरे हुए आवेदन पत्र भेजे तो भी आयोग अपने विवेक से केवल एक ही आवेदन पत्र स्वीकार करेगा तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी 2 : जिन आवेदन पत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपयुक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे या गलत भरे हुए हों, उनको एक दम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के नवम्बर, 2007 में घोषित होने की संभावना है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाण-पत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है :

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या

- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान कोई मोबाइल फोन/पेज़र या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो; या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाण पत्र के साथ जारी किसी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निद्रिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और
- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

- (i) पूरी तरह से भरा हुआ आवेदन पत्र सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 को 16 अप्रैल, 2007 को अथवा इससे पहले पहुंच जाना चाहिए।

(ii) असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले और चम्बा जिले के पांगी उपमंडल तथा अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप और विदेशों में रह रहे उम्मीदवारों के मामले में केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 23 अप्रैल, 2007 है। उपर्युक्त क्षेत्रों/प्रदेशों में रहने वाले उम्मीदवारों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए दिया गया अतिरिक्त समय-सीमा का लाभ केवल डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के मामले में ही दिया जाएगा।

वैयक्तिक रूप से अथवा कूरियर सेवा से प्राप्त आवेदन पत्रों के मामलों में आवेदकों के निवास स्थान को ध्यान में न रखते हुए, अतिरिक्त समय सीमा का लाभ नहीं मिलेगा।

अतिरिक्त समय सीमा के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र में दिए गए कालम 13(II) में उस विशेष क्षेत्र अथवा प्रदेश, (अर्थात् असम, मेघालय, जम्मू एवं कश्मीर आदि) जहां उनका निवास हो, के एरिया कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना चाहिए। यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें अतिरिक्त समय का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-I : उम्मीदवार स्पष्ट रूप से यह समझ ले कि आयोग उसके आवेदन प्रपत्र के प्राप्त न होने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से विलम्ब से प्राप्त होने के लिए किसी भी परिस्थिति में उत्तरदायी नहीं होगा। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन प्रपत्र पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा और विलम्ब से प्राप्त होने वाले सभी आवेदन प्रपत्रों को तुरन्त अस्वीकृत कर दिया जाएगा। अतः वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके आवेदन प्रपत्र निर्धारित अंतिम तिथि तक आयोग के कार्यालय में पहुंच जाएं।

टिप्पणी-II : उम्मीदवार अपने आवेदन प्रपत्र आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से भी जमा करके उसकी समुचित रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आयोग के अन्य किसी पदाधिकारी को जमा करने के लिए दिए गए आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में आयोग उत्तरदायी नहीं होगा।

टिप्पणी-III : कूरियर सेवा अथवा कूरियर जैसी अन्य सेवा के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्रपत्रों को आयोग के काउन्टर पर “दस्ती रूप से” जमा किए गए आवेदन पत्रों के रूप में माना जाएगा।

7. आवेदन प्रपत्रों की पावती :

उम्मीदवार से आवेदन प्रपत्र प्राप्त होते ही उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा कराए गए पावती कार्ड पर उसका आवेदन प्रपत्र प्राप्त होने के प्रमाण के तौर पर मुहर लगाकर आयोग के कार्यालय द्वारा उसे भेज दिया जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार को 30 दिन के भीतर पावती कार्ड प्राप्त नहीं होता है तो उसे आवेदन प्रपत्र सं. (8 अंकों में), नाम तथा परीक्षा का वर्ष दर्शाते हुए तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए। आयोग के काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से आवेदन पत्र जमा कराने वाले उम्मीदवारों को काउन्टर पर ही पावती कार्ड दे दिया जाएगा।

केवल इस तथ्य से कि उम्मीदवार का आवेदन प्रपत्र आयोग द्वारा प्राप्त कर लिया गया है इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी को स्वीकार कर लिया गया है। उम्मीदवारों को उनके परीक्षा में

प्रवेश अथवा उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जाने के बारे में शीघ्रातिशीघ्र सूचित कर दिया जाएगा।

8. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा:

(i) उन उम्मीदवारों को जिन्हें परीक्षा में प्रवेश दिया गया है, अनुक्रमांक, केन्द्र तथा कोर्स जिसके लिए प्रवेश दिया गया है आदि दर्शाते हुए प्रवेश प्रमाणपत्र प्रेषित किया जाएगा। प्रवेश प्रमाणपत्र में उम्मीदवार के फोटोग्राफ का समावेश होगा। यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से तीन सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाणपत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाण पत्र अथवा उसकी अनुप्रति/अनुलिपि भेज दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउन्टर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125, 011-23098543 से प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाण पत्र न प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम तीन सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त न होने के लिए स्वयं ही जिम्मेदार होगा। यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रवेश प्रमाण पत्र उम्मीदवार द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिए गए पते की फोटो कापी करके प्रेषित किए जाएंगे। अतः उम्मीदवार ये सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दिया गया पता पिन कोड सहित पूर्ण होना चाहिए।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र के बिना बैठने नहीं दिया जाएगा। प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

(ii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हों तो वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाण पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें।

(iii) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दें तथा सही प्रवेश प्रमाण पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाण पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(iv) उम्मीदवार के आवेदन पत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

(v) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाण पत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

(vi) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए :—

1. परीक्षा का नाम तथा वर्ष
2. आवेदन प्रपत्र संख्या (आठ अंकीय)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन पत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुसंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, रामकृष्ण पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473।

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, सी स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23011213।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17 'जे' ब्लाक, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुसंसित हैं उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी

पूछताछ और अनुरोध सीधे—सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए.जी.ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473 नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23011213।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए) कमरा नं. 17, "जे" ब्लाक, नई दिल्ली-110011 दूरभाष सं. 23010231 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबंधित अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार दिसंबर, 2007-मार्च, 2008 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

9. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षाओं के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे, जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना/नौ सेना अकादमी 10+2 (कार्यपालक शाखा) के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाइलट एप्टीच्यूट परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का निर्धारण किया जाएगा।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया :

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्डों पर प्रारंभ की गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन केन्द्रों पर पहुंचने के प्रथम दिवस पर प्रथम चरण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षाओं के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया हो। वे उम्मीदवार जिन्होंने चरण-II उत्तीर्ण कर लिया है उन्हें (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाण पत्र की फोटो प्रति और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण मूल प्रमाण पत्र जमा करने होंगे।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपने ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण

से हो। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना और नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा तथा (2) अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे और वायु सेना के उम्मीदवारों को (1) लिखित परीक्षा, (2) अधिकारी क्षमता परीक्षा, (3) पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुसार निश्चित किए जाएंगे।

इन शर्तों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर योग्यता के अन्तिम क्रम में तीन अलग-अलग सूचियों में एक थल सेना तथा नौ सेना के लिए, दूसरी वायु सेना के लिए और तीसरी नौ सेना के अकादमी कोर्स के लिए रखा जाएगा। जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सभी अंगों के लिए और नौ सेना अकादमी के लिए अर्हता प्राप्त कर लेते हैं उनका नाम तीनों योग्यता सूचियों में होगा, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना और नौ सेना विंगों में प्रवेश के लिए अंतिम चयन थल सेना तथा नौ सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम में से किया जाएगा। वायु सेना विंग में प्रवेश के लिए अंतिम चयन वायु सेना की योग्यता सूची में से रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा और नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा में प्रवेश के लिये अंतिम चयन नौ सेना की योग्यता सूची में रिक्तियों की संख्या को देखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा। जो कि शारीरिक स्वस्थता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के आधार पर होगा। जिन उम्मीदवारों के नाम तीनों योग्यता सूचियों में हैं उन पर तीनों सूचियों में चयन हेतु विचार उनके वरीयता क्रम को देखते हुए होगा और उनके एक सूची से अन्तिम रूप से चुन लिए जाने पर शेष सूचियों से उनका नाम रद्द कर दिया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो।

अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

10. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, अथवा नौ सेना अकादमी की कार्यपालक शाखा के किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

11. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबद्ध उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

12. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

विनय प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना :

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2-1/2 घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2-1/2 घंटे	600
		कुल	900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के लिये केलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां

प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित :

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख। दू-मार्गन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। संमिश्र संख्याएं-आधारभूत गुणधर्म, मापांक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांकों सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिक :

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग-दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमिति :

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग-ऊंचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामिति :

आयतीय कार्तीय निर्देशांक पद्धति; दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं को मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शोकव की उत्क्रेन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणित :

वास्तविक मान फलन की अवधारणा-फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत-उदाहरण। फलनों के सांतत्य-उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया, एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन-अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान

तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकल समीकरण :

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रातस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अविपरवलयिक फलन। निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण-अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकल समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल-उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणित :

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथः शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग-बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी : आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन-उदाहरण। ग्राफीय निरूपण-आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज-उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन-माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन-निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता : यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्चेष घटनाएं-असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय-साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समष्टि पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी (अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान
(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आर्येंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां। ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का ऋतुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में। स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, वैद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और गौणसेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, साइफन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाइड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्सूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन। अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्नरूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्पाही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड-ग (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियां और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव, संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रसायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और वर्षण,

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति--भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निद्रिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-II

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

नीचे दर्शायी गई बीमारियां सामान्य छुट-पुट बीमारियों के अंतर्गत आती हैं :--

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवीएटेड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टॉसिल
- (झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे--वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि--

(क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा

(ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल कराना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जाएगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैनिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी. (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूँ के व्यक्तियों का 5 सेंमी. कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी. की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक-थल सेना/वायु सेना के लिए
सारणी-I

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	(18-19 वर्ष
1	2	3	4
152	42.5	44	45
155	43.5	45.5	47
157	45	47	48

1	2	3	4
160	46.5	48	49
162	48	50	51
165	50	52	53
167	51	53	54
170	52.5	55	56
173	54.5	57	58
175	56	59	60
178	58	61	62
180	60	63	64.5
183	62.5	65	66.5

कद और वजन के मानक-नौसेना के लिए
सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

उपर्युक्त सारणी-I में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक तक

हो सकता है कद में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी :--

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी.	120.00 सेंमी.
जांघ की लंबाई	--	64.00 सेंमी.
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेंमी.	96.00 सेंमी.

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी तक ऊंचाई में 2.5 सेंमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बढोत्तरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी. से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए। वायु सेना के अतिरिक्त उम्मीदवारों की रीढ़ की हड्डी का एक्स-रे नेमी तौर पर नहीं किया जाएगा। किंतु नैदानिक संकेत मिलने पर सर्जरी विशेषज्ञ की सलाह पर किया जाएगा, ऐसे जन्मजात दोष गुणवत्ता पर स्वीकार किए जा सकते हैं जिनमें सेवा कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा पड़ने की संभवना न हो।

मेरुदण्ड की हालत

(च) नीचे लिखा पिछला स्वास्थ्य वृत्त वायुसेना के लिए अयोग्य ठहराने वाला है :

- (1) मेरुदण्ड या तिरछे जोड़ों की ऐसी बीमारी चाहे उसके वास्तविक लक्षण हों या न हों--जिसकी वजह से उम्मीदवार शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक न बिता सकता हो।
- (2) प्रोलैप्स अंतरा-कशेरुक बिंदु तथा उस अवस्था के लिए शल्य चिकित्सा।

(छ) मेरुदण्ड की पूरी नैदानिक जांच की जानी है जिसमें उसकी आकृति स्थानिक कोमलता, यदि कोई है, मेरुदण्ड की हरकत आदि शामिल है। केवल हवाई कर्मों के कार्य के वास्ते उम्मीदवारों के लिए किटक्रिक कशेरुक का एक्स-रे (ए.पी.) तथा पार्श्विक दृश्यता किया जाना है।

(ज) हल्का कार्डफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां द्र की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(झ) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो—संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(ञ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण मानी जाएगी :-

1. मेरुदण्ड की ग्रैन्यूलोमेट्स बीमारी
2. आर्थराइटिस/स्पोन्डिलोसिस
3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15° से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)
4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस
5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलोसिस
6. हरनिएटिड न्यूक्लियस, पलपोसिस
7. कशेरुक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रेव पशुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति।
11. शीर्षघरानुकपाल (अटलांटो-आक्सीपीटल) तथा अटलांटो अक्षीय असंगतियां।
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.बी. 1 तथा एल.बी. 5 के इतर स्पाईनाबाइफिडा।
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता।

(ट) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ठ) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामितिक परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 4000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितिक कमी +20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ड) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ढ) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ण) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो। पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गया हो।

(त) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(थ) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(द) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ध) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि से पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी. तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिगमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार को दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों की पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमि करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/6
चश्मे के साथ संशोधित	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	-0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5
दूरबीन दृष्टि	111
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1

दृष्टि संबंधी पेशी संतुलन मेडाक्स रॉड टेस्ट के साथ हैट्रोफोरिया निम्न से अधिक बिल्कुल न हो :

(i) 6 मीटर पर	
एक्सोफोरिया	8 प्रिज्म डायोप्टर्स
एसोफोरिया	8 प्रिज्म डायोप्टर्स
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्टर्स
(ii) 33 से.मी. पर	
एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म डायोप्टर्स
एसोफोरिया	6 प्रिज्म डायोप्टर्स
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म डायोप्टर्स

वायु सेना के लिए निम्नलिखित मानदण्ड हैं :

परिशिष्ट-III

जो उम्मीदवार प्रायः चश्मा पहनते हैं वायु सेना हेतु योग्य नहीं हैं।

(सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण)

दूर की दृष्टि	6/6, 6/9 और केवल दूर दृष्टि के लिए 6/6 तक संशोधित प्रकट निकट दृष्टि की अनुमति नहीं है।
पास की दृष्टि	प्रत्येक आंख की एन-5
वर्ण दृष्टि	सीपीआई (एमएलटी)
मनीफैस्ट हायपरमेट्रोपिया	+2.00 डीसी से अधिक नहीं
एस्टिगमेटिज्म	+0.75 डीसी
मायोपिया	कुछ नहीं

मेडोक्स रॉड टेस्ट के साथ हैटरोफोरिया निम्नलिखित में अधिक न हो :

- (1) 6 मीटर पर
- | | |
|-------------------|-----------------------|
| एक्सोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपर/हाइपोफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
- (2) 33 से.मी. पर
- | | |
|-------------------|------------------------|
| एक्सोफोरिया | 16 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| एसोफोरिया | 6 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
| हाइपर/हाइपोफोरिया | 1 प्रिज्म डायोप्ट्रेस |
- (3) द्विनेत्री दृष्टि
- अच्छी द्विनेत्री दृष्टि का होना अनिवार्य है (फ्यूजन तथा स्टियरियोप्सिस) तथा साथ में अच्छा आयाम व गहनता।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रूटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी हैं।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

- (क) 15 मिनट में 2.4 कि.मी. की तेज दौड़।
- (ख) उछल-कूद।
- (ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)।
- (घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)।
- (ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना।

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे :

(क) इस आशय का प्रमाण-पत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निद्रिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-पत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होंगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन करेंगे-सामान्यता इन खर्चों के 175 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 175 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 175 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 175 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रतिमाह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे-411023 के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी।

	रुपये
(क) प्रतिमाह रु. 175 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	875
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	3200
(ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय योग	425 4500

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी।

	रुपये
(क) 175 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	875
(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मदों के लिए लगभग	475

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350 तथा रु. 500 प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कैडिल फ्रेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कालिज तथा नौ सेना अकादमी, कोचीन में जहाँ कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ : दो छात्रवृत्तियाँ 30 रु. प्रति मास की तथा 400 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं. लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कालिज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियाँ : तीन छात्रवृत्तियाँ—एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियाँ कैडेटों की योग्यता तथा आय साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियाँ : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

योजना-I

छात्रवृत्तियों की संख्या	: प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियाँ।
छात्रवृत्तियों का विवरण	: प्रत्येक वर्ष में आरंभ होने वाले दोनों सत्रों में थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिये एक-एक छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिये वित्तीय अनुदान:

पहले वर्ष	: कपड़े खरीदने हेतु 2500/- रु. का एक मुक्त वित्तीय अनुदान तथा जेब खर्च के लिये 125/- रु. प्रति माह।
-----------	---

दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष : 129/- रु. प्रति माह का जेब खर्च।

योजना-II

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियां।

छात्रवृत्तियों का वितरण : योजना I में दिये अनुसार।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को वित्तीय : पहले/दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष -- एक अनुदान मुश्त 100/- रु. प्रति वर्ष का अनुदान।

(10) पाइलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : रु. 420 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैंडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैंडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। (पांचवें और छठे सत्र के दौरान) यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो। जो कैंडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैंडेटों को 4 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियां 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेंगी। यह छात्रवृत्ति उन कैंडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैंडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ में रु. 400 सच्चा भत्ता (कैंडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैंडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैंडेट अपना आवेदन कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां, जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9, कर्नाटक राज्य के उन कैंडेटों को दी हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 रुपये प्रति वर्ष है। रु. 480 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रति सत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैंडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैंडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) फ्लाईंग ऑफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैंडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैंडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैंडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता-- महाराष्ट्र राज्य : महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों को, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैंडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

भूतपूर्व अधिकारी : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत।

भूतपूर्व जूनियर कमीशन : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल प्राप्त अधिकारी जेब खर्च का 75 प्रतिशत।

अन्य रैंकों के भूतपूर्व : प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल सैन्य कर्मी जेब खर्च का 100 प्रतिशत।

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाण-पत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदकों के माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे- 411023 से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:--

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा। (घ) पर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का

प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले छह वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जबाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी(कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में नौ सेना कैडेट, कैडेटों के प्रशिक्षण पोत में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमेन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फेन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैडेटों को उनके शेप-एक (SHAPE-ONE) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना का कार्यपालक इंजीनियरी और बिजली शाखाओं के लिए चुना जाता है, उन्हें छः महीने के लिए कैडेट प्रशिक्षण पोत पर समुद्री प्रशिक्षण दिया जाता है। जिसे सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें मिडसिपमैन रैंक में पदोन्नत किया जाता है। संबद्ध शाखा में 6 महीने तक आगे प्रशिक्षण पाने के बाद उन्हें कार्यकारी लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहत कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण के लिए छात्रवृत्ति

जेन्टलमेन कैडेट सैन्य अकादमियाँ, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 8000/- रु. प्रतिमाह की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात् भुगतान की गई वृत्तिका को सभी उद्देश्यों हेतु वेतन में परिवर्तित कर दिया जाएगा। तथापि प्रशिक्षण की अवधि को कमीशन प्राप्त सेवा के रूप में नहीं माना जाएगा।

(ii) वेतन

(क) रैंक	वेतनमान
लेफ्टिनेंट	रु. 8250-300-10050/-
कैप्टेन	रु. 9600-300-11400/-
मेजर	रु. 11600-325-14850/-*

मेजर एवं समान क्षमता में समतुल्य पद के लिये प्रोन्नति होने पर प्रारम्भ में वेतन को, रैंक वेतन के अतिरिक्त, रु. 11600-325-14850/- के वेतनमान में रु. 11925/- की अवस्था पर निर्धारित किया जाएगा।

रैंक	वेतनमान
लेफ्टिनेंट कर्नल	रु. 13500-400-17100/-
कर्नल	रु. 15100-450-17350/-
ब्रिगेडियर	रु. 16700-450-18050/-

(ख) वेतन के अतिरिक्त नीचे दिए गए अनुसार रैंक वेतन भी दिया जाएगा :

कैप्टेन	रु. 400/-
मेजर	रु. 1200/-

अधिकारी संवर्ग की पुनर्संरचना के कारण, ए.बी.एस. समिति की संस्तुतियों पर, प्रोन्नति काल को घटाया गया है तथा समयमान प्रोन्नति को कर्नल रैंक तक बढ़ाया गया है तथा लेफ्टिनेंट कर्नल (टी.एस.) का पद उन्मूलित कर दिया गया है। कर्नल (टी.एस.), लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक वेतन के लिये पात्र है जोकि वर्तमान में रु. 1600/- प्रतिमाह है।

कर्नल	रु. 2000/-
ब्रिगेडियर	रु. 2400/-
(ग) रैंक	वेतनमान
मेजर जनरल	रु. 18400-500-22400/-
लेफ्टिनेंट जनरल	रु. 22400-525-24500/-
सेना स्टाफ व सेना संघर्ष के उप प्रमुख	रु. 26,000/- (नियत)
सेना स्टाफ के प्रमुख	रु. 30,000/- (नियत)

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 3000/-, 4500/-, 7500/- या 10,000/- रु. का एकमुस्त योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुमान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- मास्टर उड़ान अनुदेशक—रु. 250/- प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I—रु. 200/- प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II—रु. 140/- प्रतिमाह
- मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—रु. 200/- प्रतिमाह
- ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—रु. 140/- प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है—

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर रु. 5250/-

(ख) मेजर से कर्नल रु. 7000/-

(ग) कैप्टन रु. 5500/-

(घ) लैफ्टिनेंट रु. 4500/-

(iv) भत्ते

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) प्रतिपूरक (नगर) भत्ता तथा महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) रु. 200/- प्रति माह की दर से किट रखरखाव भत्ता

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 3390/- रु. से 4200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता, 2100/- रु. से 2600/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 800/- रु. से 1000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) 9000 फुट से 15000 फुट की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों तथा 15000 फुट/अधिक ऊंचाई श्रेणी/(9000 फीट से 15000 फीट, 9000 फीट से कम दुर्गम क्षेत्र) अधिक ऊंचाई श्रेणी, (15000 फीट से अधिक) के लिए क्रमशः रु. 530 से 1060 तथा रु. 800 से 1600/- रु. की दर से प्रतिमाह देय होंगे।

(ङ) सभी रैंकों के अधिकारियों को प्रतिपूरक फील्ड एरिया भत्ते के अतिरिक्त रु. 7000/- प्रतिमाह की दर से सियाचीन भत्ता देय होगा। सियाचीन भत्ता और उड़ान भत्ते के लिए प्राधिकृत कर्मचारी दोनों में से एक ले सकते हैं लेकिन एक साथ दोनों भत्ते नहीं ले सकते हैं।

(च) परिधान भत्ता : प्रारंभिक परिधान भत्ता रु. 6000/- तथा प्रत्येक 7 वर्ष की कारगर सेवा के बाद नवीकरण परिधान भत्ता 6000/- रु. है।

(छ) सभी अधिकारियों को निःशुल्क राशन दिया जाएगा।

(ज) परिवहन भत्ता : ए-1 एवं ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता रु. 800/- प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर रु. 400/- प्रतिमाह उन अधिकारियों को, दिया जायेगा जिन्हें उनके कार्य स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी के भीतर

सरकारी आवास नहीं दिया गया है अथवा कार्यस्थल के कैम्पस हाउसिंग तथा आवास में रहने की सुविधा नहीं दी गई है।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा निधि 1 जनवरी, 2003 से नौ सेना तथा वायु सेना कैडेटों सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के कैडेटों का कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के कार्यभार ग्रहण तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने तक 8 लाख रुपये की बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है जिसमें 3 वर्ष के लिए अग्रिम रूप में रुपये 4250/- की एकमुश्त राशि की बीमा किश्त का एक बार में भुगतान करना होगा। पदावनति के मामले में, प्रति पदावनति अवधि के लिए रुपये 770/- का अतिरिक्त प्रीमियम पदावनति होते ही अदा किया जाएगा। वे उम्मीदवार जिन्हें अक्षमता के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से चिकित्सीय रूप से अलग किया जाता है उन्हें 100 प्रतिशत अक्षमता के लिए बीमित राशि का 50 प्रतिशत बीमा सुरक्षा दी जाती है, इसी अनुपात में कम होते हुए 20 प्रतिशत अक्षमता के लिए रु. 80,000/- कर दिया गया है। मद्यपान तथा मादक द्रव्य व्यसन के कारण अक्षमता होने पर अक्षमता लाभ तथा किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) भारतीय सैनिक अकादमी में जेन्टलमेन कैडेट जब 8,000/- रुपये प्रतिमाह वजीफा पाते हैं तो उन्हें 15 लाख की बीमा राशि प्रदान की जाती है। वे कैडेट जो अपंगता के कारण चिकित्सीय रूप से भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर हो जाते हैं, उन्हें शतप्रतिशत अपंगता के लिए बीमित राशि का 50 प्रतिशत राशि प्रदान की जाती है अर्थात् शतप्रतिशत अपंगता के लिए 7.5 लाख जो 20 प्रतिशत अपंगता के लिए समानुपातिक रूप से घट कर 1.5 लाख हो जाती है। वे बाहर निकाले गए जेन्टलमेन कैडेट, जिनकी अपंगता 20 प्रतिशत से कम है, उन्हें 20000/- रु. की राशि अनुग्रह अनुदान के रूप में दी जाएगी। मद्य एवं औषधि व्यसन के कारण हुई अपंगता होने से अपंगता लाभ तथा अन्य किसी प्रकार के अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए अर्हक नहीं होंगे। कमीशन प्राप्त करने पर जेन्टलमेन कैडेट नियमित सैन्य अधिकारियों पर लागू मुख्य सेना समूह बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे।

13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

विनय प्रकाश सिंह
संयुक्त सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 31 जनवरी 2007

सं. ए-38012/4/06-प्रशा.1--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा की अवर सचिव सुश्री सरोज को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप दिनांक 31.01.2007 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति की अनुमति प्रदान करते हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 07 फरवरी 2007

सं. ए. 38012/5/07-प्रशा.1--दिनांक 22 जनवरी, 2007 को श्री पी.के. बोस, के.सचि.से. अवर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग का देहांत हो जाने के परिणामस्वरूप उनका नाम संघ लोक सेवा आयोग की नामावली से हटा दिया गया है।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. ए. 38014/10/2006-प्रशा.11--संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में कार्यरत श्री फूल सिंह, प्रबन्धक (ई डी पी) (तदर्थ) अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर दिनांक 28.02.2007 (अष्टमि फरवरी, दो हजार सात) की अपराह्न को सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

दिनेश कुमार
अवर सचिव (प्रशा.)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली-110 003, दिनांक 06 मार्च 2007

सं. डीपी/पर्स.1/2007/054/3/43/93--श्री सभा चंद ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर 28 फरवरी, 2007 अपराह्न से कार्यालय अधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया।

सुरेन्द्र मोहन
प्रशासन अधिकारी (कार्मिक)

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 21 फरवरी 2007

संख्या डी.एक.12/2003-कार्मिक-1--श्री के. सेन्धील नाथन, सहायक कमाण्डेंट (इरला-5894) 83 बटालियन, के.रि.पु.बल, का सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (आ.प्र.) में मुख्य ड्रिल इन्स्ट्रक्टर के रूप में प्रतिनियुक्ति के आधार पर 3 वर्षों के लिए चयन हो जाने के परिणाम स्वरूप दिनांक 30.12.2006 पूर्वाह्न से इनकी सेवाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद को सौंपी जाती हैं।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-1)

दिनांक 26 फरवरी 2007

संख्या ओ-दो-3729/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर जहाँगीर अहमद को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 10.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु.बल, रामपुर (उ.प्र.) में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

संख्या ओ-दो-3730/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर जितेन्द्र कुमार साहू को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 10.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 46 बटालियन, के.रि.पु.बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

दिनांक 7 फरवरी 2007

संख्या ओ-दो-3731/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर संजय रजक को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 12.2.07 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें 02 बटालियन, के.रि.पु.बल में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

दिनांक 3 मार्च 2007

संख्या ओ-दो-3732/07-सी.आर.सी.(चिकित्सा)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर श्रवण कुमार को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी (सहायक कमाण्डेंट) के पद पर वेतनमान रु. 8,000-275-13,500 में अस्थायी रूप से दिनांक 10.2.07 (पूर्वाह्न) से अग्रिम आदेश तक सहर्ष नियुक्त करते हैं। उन्हें संयुक्त अस्पताल, के.रि.पु.बल, हैदराबाद (आ.प्र.) में तैनात किया जाता है।

रणजीत सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-1)

महानिदेशालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. ई-28017/06/नोटि/2007/कार्मिक-2/542--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एम. तवसी मुत्तु सरकारी सेवा से दिनांक 31.01.2007

(अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उन्होंने सहायक कमांडेंट के औसुब निसा हैदराबाद का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के औसुब

सं. ई-28017/06/नोटि/2007/कार्मिक-2/543--अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर श्री एम लाल सरकारी सेवा से दिनांक 31.01.2007 (अपराह) को सेवानिवृत्त हो गये हैं तथा उन्होंने उप कमांडेंट के औसुब इकाई भेल हरिद्वार का पदभार छोड़ दिया है।

ह./- अपठनीय
महानिदेशक/के औसुब

वित्त मंत्रालय

चलार्थ पत्र मुद्रणालय, नासिक रोड

(भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई)

नई दिल्ली, दिनांक 06 मार्च 2007

क्रमांक: 24/ईएससी-1-11--विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ग 'ख') की सिफारिशों के अनुसार श्री एस.डी. चौधरी, अनुभागीय अधिकारी, चलार्थ पत्र मुद्रणालय को प्रशासनिक अधिकारी (वर्ग 'ख', राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न आधार पर रु. 7,450-225-11,500/- के वेतनमान में दिनांक 01-03-2007 से पदोन्नत किया जाता है।

वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

इसे महाप्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त है।

आर.जी. भोईटे
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

क्रमांक: 25/ईएससी-1-10--विभागीय पदोन्नति समिति (वर्ग 'ख') की सिफारिशों के अनुसार श्री यू.डी. वसावे (अ.ज.जा.), निरीक्षक नियंत्रण, चलार्थ पत्र मुद्रणालय को उप नियंत्रण अधिकारी (वर्ग 'ख', राजपत्रित) के पद पर स्थानापन्न आधार पर रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 23-02-2007 से पदोन्नत किया जाता है।

वे दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

इसे महाप्रबंधक का अनुमोदन प्राप्त है।

आर.जी. भोईटे
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

कार्यालय : महानिदेशक लेखापरीक्षक, केन्द्रीय राजस्व,

नई दिल्ली-110002, दिनांक 6 मार्च 2007

प्रशा.1/का.आ.सं.-310--इस कार्यालय के श्री के.एन. जौहर, लेखापरीक्षा अधिकारी वार्धक्य की आयु प्राप्त करने के परिणामस्वरूप 31.3.2007 (अपराह) को सरकारी सेवा से सेवा निवृत्त हो जाएंगे।

उनकी जन्म तिथि दिनांक 22.3.1947 है और उनकी सरकारी सेवा आरम्भ की तिथि दिनांक 15.7.1969 है।

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा

आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय

नई दिल्ली-110002, दिनांक 2 मार्च 2007

संख्या ए.एम.जी.-1/प्र.-1/2(8)/स.ले.प.अ./2002-07/1907--प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली, निम्नलिखित अनुभाग अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाई गई तिथि से रुपये 7,450-225-11,500 के वेतनमान में अंतिम आधार पर अस्थायी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (ग्रुप 'बी' राजपत्रित) के रूप में पदोन्नति होने के आदेश देते हैं :--

क्रम संख्या	नाम	पदोन्नति की तिथि
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री	
1.	मेघा कौशिक	02.01.2006
2.	शैलेन्द्र सिंह नेगी	02.01.2006
3.	अतुल नैयर	02.01.2006
4.	संजीव कुमार सज्जन	02.01.2006
5.	रशमी वर्मा	02.01.2006
6.	अनीता बहल	02.01.2006
7.	कुलदीप नेगी	02.01.2007
8.	युमन ग्रोवर	02.01.2007
9.	अहमद फेरोज	02.01.2007
10.	रमेश कुमार	02.01.2007

संतोष कुमार
उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखा एवं हक.), गुजरात

अहमदाबाद, दिनांक, 2007

सं. --महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने सर्व श्री जे. एम. राठौड़, मंडल लेखा अधिकारी-I और एच. आर. प्रजापति, मंडल लेखा अधिकारी-I को दिनांक 14.9.2006 और 2.1.2007 क्रमशः से प्रभावी रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी ग्रुप "बी" राजपत्रित के रूप में पदोन्नत करने की कृपा की है।

महालेखाकार (लेखा एवं हक.) ने निम्नलिखित पांच मंडल लेखा अधिकारी-II को भी उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीखों से प्रभावी रु. 7,450-225-11,500 के वेतनमान में मंडल लेखा अधिकारी-I ग्रुप "बी" राजपत्रित के रूप में पदोन्नत करने की कृपा की है :--

(1) श्री एच. आर. मकवाणा	मं.ले.अ.-II	14.9.2006 से
	मं.ले.अ.-I के रूप में	
(2) श्री के. आर. शाह	मं.ले.अ.-II	14.9.2006 से
	मं.ले.अ.-I के रूप में	
(3) श्री जे. ए. पटेल	मं.ले.अ.-II	02.1.2007 से
	मं.ले.अ.-I के रूप में	

- (4) श्री डी. डी. डंगर मं.ले.अ.-II 02.1.2007 से
मं.ले.अ.-I के
रूप में
- (5) श्री आर. सी. मीना मं.ले.अ.-II 02.1.2007 से
मं.ले.अ.-I के
रूप में

विजय कोठरी
उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा लेखा विभाग

कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक

नई दिल्ली-110066, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. प्रशा.-1/1402/1/XII:--निम्नलिखित परीक्षार्थियों की, प्रत्येक के समक्ष दर्शाई गई तारीख से, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के कनिष्ठ समयमान में पुष्टि की जाती है:--

क्र. सं.	नाम	बैच	पुष्टि की तारीख
	सर्व/श्री		
1.	प्रवीन कुमार राय	2003	22.12.2005
2.	सत्य प्रताप सिंह	2003	22.12.2005
3.	राकेश कुमार पांडेय	2003	08.08.2006
4.	नीरज कुमार गुप्ता	2003	22.12.2005
5.	(डॉ.) भारतेन्दु कुमार सिंह	2003	01.09.2005
6.	(डॉ.) खुमकर महेश सुरेश	2003	22.12.2005
7.	राजेश चंद्र	2003	01.09.2005
8.	जयाशीलन टी	2003	09.09.2005

विश्वजीत सहाय

रक्षा लेखा वरिष्ठ उप महानियंत्रक (प्रशा.)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

शिमला-171004, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. 5/1/2007-एन.सी.पी.आई.--जनवरी, 2007 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001 = 100) 127 (एक सौ सत्ताईस) के अंक स्तर पर स्थिर रहा।

जिरेन्द्र सिंह
उप निदेशक

लघु उद्योग मंत्रालय

कार्यालय : विकास आयुक्त (लघु उद्योग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 फरवरी 2007

सं. ए-20011(10)/94-प्रशासन (मु. स्था.)--सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लेने पर श्रीमती रेखा बक्शी, सहायक निदेशक (ग्रेड-2) (आर्थिक अन्वेषण) लघु उद्योग विकास संगठन के अन्तर्गत विकास

आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय, नई दिल्ली से दिनांक 31-1-2007 (अपराह्न) को सेवा निवृत्त हो गई है।

महिन्द्र सिंह
उपनिदेशक (प्रशासन)

खान मंत्रालय

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. 448ए/ए-32013/4-निदे.(वेधन) (च.श्रे.)/98/19-बी--विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित निदेशक (वेधन) को इसी विभाग में 14,300-400-18,300/- रुपए के वेतनमान के वेतन में आगामी आदेशों तक प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित निदेशक (वेधन), अकार्यात्मक चयन श्रेणी के पद पर नियुक्त करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	अकार्यात्मक चयन श्रेणी की स्वीकृति की तिथि	वर्तमान तैनाती स्थान
01.	श्री दिनेश कुमार	01.01.2004	कोयला स्कंध, भा.भू.स., कोलकाता
02.	श्री पी. एन. सिन्हा	01.02.2006	दक्षिणी क्षेत्र, भा.भू.स., हैदराबाद

- (i) निदेशक (वेधन) अकार्यात्मक चयन की श्रेणी में उनका वेतन नियमानुसार नियत किया जाएगा। अपितु, अधिकारी उपरोक्त प्रत्येक के सामने यथा उल्लिखित अकार्यात्मक चयन श्रेणी के पद पर नियुक्ति की तिथि से अथवा निदेशक (वेधन) के पद पर की वेतनवृद्धि की तिथि से प्रभावित मूलभूत नियम (एफ. आर.)-22 (i)(ए)(2) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वेतन निर्धारण का प्रयोग इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।
- (ii) चयन श्रेणी में नियुक्ति के फलस्वरूप निदेशक (वेधन) की श्रेणी में उनकी परस्पर वरिष्ठता परिवर्तित नहीं होगी।

एस. के. सिन्हा
क्षेत्रीय प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, दिनांक 01 मार्च 2007

सं. 10/2/2005-एम.--प्रचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम 1968 के नियम 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. गेहलोत, निदेशक (स्मारक) एतद्वारा निदेश देता हूँ कि कांगड़ा स्थित नगरकोट किलास में भगवान आदिनाथ जी के मन्दिर में प्रवेश के लिए लिया जाने वाला प्रवेश शुल्क दिनांक 1 से 3 मार्च 2007 को वार्षिक समारोह के अवसर पर नहीं लिया जाएगा।

डी. आर. गेहलोत
निदेशक (स्मारक)
कृते महानिदेशक

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 22 फरवरी 2007

संदर्भ पीडी/11(1)/2006-आर-III/2007/1948--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्रीमती एस. कोमलावल्ली, सहायक, बीएआरसीएफ, कल्पाक्कम को दिनांक 15.11.2006 (पूर्वाह्न) से 15.12.2006 (अपराह्न) तक रु. 6,500-200-10,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

डी. दशरथन,
उप स्थापना अधिकारी

रमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400 001, दिनांक 23 फरवरी 2007

सं. 20/3(6)2006-सीसीएस/6--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री कन्हूनी बाला गंगाधरा तिलकन, प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-15,200), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, रेअर मटेरियल्स परियोजना, मैसूर को दिनांक 06.02.2007 के पूर्वाह्न से भावी आदेश होने तक उसी परियोजना, मैसूर में मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-16,500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन
अवर सचिव

दिनांक 27 फरवरी 2007

सं. 20/3(6)/2006-सीसीएस/7--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री टी.एन. नायर, प्रशासन अधिकारी-III (वेतनमान रु. 10,000-325-15,200), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई को दिनांक 31.01.2007 के अपराह्न से भावी आदेश होने तक राजा रामन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर में मुख्य प्रशासन अधिकारी (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन
अवर सचिव

दिनांक 05 मार्च 2007

सं. 1/6(3)/2005-पावर/172--राष्ट्रपति, इस विभाग के श्री वी. के. वर्मा, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-सी, जो न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (एनपीसीआईएल) में स्थायी प्रतिनियुक्ति पर हैं, को दिनांक 01.02.2006 (पूर्वाह्न) से भावी आदेश होने तक स्थानापन्न आधार पर रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर-डी के ग्रेड में नियुक्त करते हैं।

श्री वी. के. वर्मा ने दिनांक 01.02.2006 (पूर्वाह्न) से उनके द्वारा धारित निचले पद का कार्यभार त्याग दिया है।

शोभा देवी एन
अवर सचिव

मुंबई-400001, दिनांक 23 फरवरी 2007

सं. 6(2178)/95-प्रशा./1287--इस विभाग के दिनांक 10.03.2003 के समसंख्यक अधिसूचना 356 के क्रम में राष्ट्रपति, परमाणु ऊर्जा विभाग के उप सचिव (वेतनमान रु. 12,000-375-16,500), श्री के. रवीन्द्रन, के कार्यकाल में दिनांक 26.02.2007 से 31.05.2007 तक की अवधि के लिए विस्तार करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

दिनांक 26 फरवरी 2007

सं. 6(2453)/2007-प्रशा./1365--विशेष सचिव, भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग एतद्वारा भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुंबई के सहायक लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 7450-225-11500) श्री आर. चन्द्रशेखरन को दिनांक 09 फरवरी, 2007 को पूर्वाह्न से परमाणु ऊर्जा विभाग सचिवालय, मुंबई में रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

पी. पी. माधवन कुट्टी
अवर सचिव

कल्पाक्कम-603 102, दिनांक 27 फरवरी 2007

सं. सासेसं./17(27)/2007-भ/165--इस कार्यालय के पूर्व अधिसूचना संदर्भ संख्या सासेसं/17(27)/2005-भ/78 दिनांकित 22.01.2007 की अनुवर्ती में निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम श्री एन सुब्रमणि, सहायक लेखा अधिकारी, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम को दिनांक 28.02.2007 तक रु. 7,500-250-12,000 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उसी इकाई में लेखा अधिकारी के रूप में उनकी स्थानापन्न नियुक्ति अवधि बढ़ाते हैं।

टी.वाई. प्रहलाद राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

सं. सासेसं./17(27)/2007-भ/166--इस कार्यालय के पूर्व अधिसूचना संदर्भ संख्या सासेसं/17(27)/2005-भ/79 दिनांकित 22.01.2007 की अनुवर्ती में निदेशक, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम श्री आर. चक्रपाणि, सहायक लेखाकार, सामान्य सेवा संगठन, कल्पाक्कम को दिनांक 28.02.2007 तक रु. 7,450-225-11,500 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर उसी इकाई में लेखा अधिकारी के रूप में उनकी स्थानापन्न नियुक्ति अवधि बढ़ाते हैं।

टी.वाई. प्रहलाद राव
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय

मुंबई-400094, दिनांक 7 फरवरी 2007

सं. निसेसंप्रनि/1(95)/2005-सतर्कता/1337--“जबकि यह आरोप है कि निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय के सुरक्षा गार्ड के रूप

में कार्यरत श्री डी.पी. राणे छुट्टी मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से कोई भी छुट्टी मंजूर कराए बिना निम्नलिखित अवधि के दौरान अप्राधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे हैं :-

क्र. सं.	अवधि	दिनों की संख्या
1.	17.04.2005 से 20.04.2005	04 दिन
2.	28.04.2005 से 10.05.2005	13 दिन
3.	19.05.2005 से 20.09.2005	125 दिन
		कुल 142 दिन

इससे पहले इसी प्रकार के कदाचार के लिए श्री राणे पर दंड लगाया गया था। पहले अवसर पर दिनांक 4.4.2001 के आदेश सं. निसेसंप्रनि/54/99-सतर्कता/510 द्वारा श्री राणे की वेतनवृद्धि को 3 वर्षों के लिए बिना संचयी प्रभाव के रोक दी गई थी। दूसरे अवसर पर दिनांक 30.11.2004 के आदेश सं. निसेसंप्रनि/91/2001/सतर्कता/659ए द्वारा श्री राणे की अगली वेतनवृद्धि को बिना संचयी प्रभाव के दो वर्षों के लिए रोका गया था।

अपने पूर्वोक्त आचरण के द्वारा उक्त श्री राणे ने ड्यूटी के प्रति समर्पण में कमी दर्शाकर सरकारी कर्मचारी के रूप में अशोभनीय आचरण किया है और इस प्रकार सीसीएस (आचरण) नियमावली, 1964 के नियम 3 के उप नियम 1 (ii) और 1 (iii) के उपबंधों का उल्लंघन किया है:-

और जबकि उक्त श्री राणे को उनके विरुद्ध केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 के अंतर्गत प्रस्तावित आरोप पर की गई कार्रवाई की सूचना दिनांकित 24.11.2005 के ज्ञापन सं. निसेसंप्रनि/1(95)/2005-सतर्कता/980 द्वारा दी गई थी।

और जबकि उक्त श्री राणे ने उक्त ज्ञापन की पृष्ठती दिनांक 30.11.2005 को दी।

और जबकि उक्त श्री राणे ने दिनांक 24.11.2005 के ज्ञापन के खिलाफ अपने बचाव में कोई लिखित बयान प्रस्तुत नहीं किया।

और जबकि उक्त श्री राणे के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच करने हेतु दिनांक 23.12.2005 के आदेश सं. निसेसंप्रनि/1(95)/2005-सतर्कता/1066 द्वारा जाँच प्राधिकारी नियुक्त किया गया।

और जबकि उक्त श्री राणे दिनांक 08.01.2006 से पुनः अप्राधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहे हैं और किसी भी प्रारंभिक या नियमित सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं रहे।

और जबकि जाँच प्राधिकारी ने एक तरफा जाँच की।

जाँच प्राधिकारी ने केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 14 में दी गई कार्यविधि के अनुसार जाँच करने के पश्चात् दिनांक 31.10.2006 को रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोप संदेह से परे हैं।

और जबकि श्री राणे को दिनांक 13.11.2006 के नोट संख्या: निसेसंप्रनि/1(95)/2005-सतर्कता/1136 द्वारा जाँच रिपोर्ट की प्रति अग्रहित की गई थी जिसमें यदि वे चाहें तो इस मामले के संबंध में संप्रेषण की प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर उन्हें अपना अभिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

और जबकि उक्त श्री राणे ने दिनांक 31.10.2006 की जाँच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त नहीं की और डाक प्राधिकारी द्वारा बिना डिलीवरी के वापस आया।

और जबकि अधोहस्ताक्षरी दिनांक 31.10.2006 की जाँच रिपोर्ट और मामले पर आधारित संबंधित रिकार्ड एवं दस्तावेजों के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि श्री राणे पर लगाए गए आरोप सिद्ध हो चुके हैं। श्री राणे को उनकी सर्विस, पारिवारिक समस्या एवं अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सुधारने हेतु काफी अवसर दिए गए, यह नोटिस किया गया कि उक्त श्री राणे उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई पर गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और उन्हें निरंतर ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कदाचार का एहसास नहीं है। यह निष्कर्ष लिया गया कि श्री राणे सरकारी सेवा को जारी रखने में इच्छुक नहीं हैं। अतः यह निर्णय लिया गया कि इस मामले में सरकारी सेवा से "निष्कासन" का दंड लगाये जाने से ही न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होगी।

अतः अधोहस्ताक्षरी, केन्द्रीय सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 1965 के नियम 12 के उप नियम (2) के खंड (बी) के साथ पठित, परमाणु ऊर्जा विभाग की दिनांक 20.10.1997 की अधिसूचना सं. 1/6(2)/96-सतर्कता/791 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा श्री राणे को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से निष्कासित किया जाता है। श्री राणे के सेवा से निष्कासन तक की सभी अप्राधिकृत अनुपस्थिति की अवधियों को "अकार्य दिवस" माना जाएगा।

श्री डी.पी. राणे को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त आदेश के विरुद्ध अपील मुख्य प्रशासन अधिकारी, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, विक्रम साराभाई भवन, द्वितीय तल, अणुशक्तिनगर, मुंबई-94 के पास कर सकते हैं, जो अपील प्राधिकारी भी हैं। अपील, यदि कोई हो तो, इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के अंदर अपील प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

जी. मुरलीधरन
प्रशासन अधिकारी-III एवं
अनुशासनिक अधिकारी

1. श्री डी.पी. राणे
कंप्यू. कोड सं. 253/300
सुरक्षा गार्ड,
निसेसंप्रनि,
द्वारा : उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी,
निसेसंप्रनि
2. श्री डी.पी. राणे
श्रीकृष्ण निवास, तेली गल्ली
वी.जी. पिंगले मार्ग,
विंचिपोकली, मुंबई-400012.
- पंजीकृत डाक ए/डी द्वारा

3. श्री डी.पी. राणे

पोस्ट: सुकालवाडी, तालुका: मालवण - पंजीकृत डाक ए/डी द्वारा
जिला: सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र

पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एन.जे. संयमन
प्रशासन अधिकारी

भारी पानी बोर्ड

मुंबई-400094, दिनांक 15 फरवरी 2007

संदर्भ: भापाबो/भर्ती/1(16)-म/2007/225--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड श्रीमती विब्रमपुरम विजया, प्रवर श्रेणी लिपिक, परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 16 जनवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 7450-225-11500/- के वेतनमान में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक लेखा अधिकारी के

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500062, दिनांक 02 मार्च 2007

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2006/549--राष्ट्रपति, नाभिकीय ईंधन, सम्मिश्र, हैदराबाद के निम्नलिखित वैज्ञानिक अधिकारियों/अभियंताओं और वैज्ञानिक सहायकों को इसी इकाई में उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए ग्रेड में, स्थानापन्न हैसियत में आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	पदोन्नति		पदोन्नति की तारीख
		ग्रेड से	ग्रेड को	
1	2	3	4	5
(सर्वश्री/श्रीमती)				
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/ई-रु. 12,000-375-16,500				
1.	बी. भास्कर राव	वैज्ञ.अधि./डी.	वैज्ञ.अधि./ई.	01.08.2006
2.	सी. नागेश्वर राव	"	"	01.08.2006
3.	एम. भास्करा राव	"	"	01.08.2006
4.	के. वी. अनंताकृष्णा	"	"	01.08.2006
5.	एम.वी.के. शास्त्री	"	"	07.08.2006
6.	जी. प्रकाश	वैज्ञ. सहा./एफ	"	01.08.2006
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/डी-रु. 10,000-325-15,200				
1.	के. सेम्युल रेस्ट	वैज्ञ. अधि./सी.	वैज्ञ.अधि./डी	01.08.2006
2.	बी. जयरामय्या	"	"	01.08.2006
3.	टी. लक्ष्मी रेड्डी	"	"	01.08.2006
4.	वी. विजय कुमार	"	"	10.08.2006
5.	वसंता रामामूर्ति	"	"	01.08.2006
6.	पी. के. मैती	"	"	01.08.2006
7.	तारक देबनाथ	"	"	01.08.2006
8.	जी. किरण कुमार	"	"	01.08.2006
9.	ए. के. नायक	"	"	01.08.2006
10.	अंसार अहमद	"	"	01.08.2006
11.	स्वरूप अचार्या	"	"	01.08.2006
12.	एन.के.एस. दुबे	"	"	01.08.2006
13.	वी.बी. देशमुख	"	"	01.08.2006
14.	प्रकाश	"	"	01.08.2006

1	2	3	4	5
	(सर्वश्री/श्रीमती)			
15.	जे.वी. रमणा मूर्ति	वैज्ञा. अधि./सी.	वैज्ञा.अधि./डी	01.08.2006
16.	डी. रवि	"	"	01.08.2006
17.	के. पतीत पावन	"	"	01.08.2006
18.	बी.वी. रमणा मूर्ति	"	"	02.08.2006
वेतनमान वैज्ञानिक अधिकारी/सी-रु. 8,000-275-13,500				
1.	एस. नागेश्वर राव	वैज्ञा. अधि./एस.बी.	वैज्ञा.अधि./सी.	01.08.2006
2.	पी. गुरुनाथ प्रसाद	"	"	01.08.2006
3.	के. श्याम सुन्दर	वैज्ञा.सहा./डी.	"	01.08.2006
4.	खाजा मजहरुद्दीन	"	"	01.08.2006
5.	जी. राजेश्वर	वैज्ञा.सहा./सी.	"	01.08.2006

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2006/550—मुख्य कार्यपालक, एनएफसी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के ग्रेड 'सी' के निम्नलिखित वैज्ञानिक सहायकों को इसी-इकाई में 01.08.2006 से वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता "एसबी" (वेतनमान रु. 7450-225-11,500) के ग्रेड में, स्थानापन्न हैसियत में, भावी आदेश होने तक नियुक्त करते हैं:—

क्र. सं.	नाम
	(सर्वश्री/श्रीमती)
01.	बी. विजय लक्ष्मी
02.	पी.एस. माधवी
03.	टी. शोभा
04.	डी. हेमासुन्दर
05.	एन. लक्ष्मी सत्यमूर्ति
06.	टी. एस. बी. आर. नागेश्वर राव
07.	ए. रामाकृष्णा
08.	के. रमेश बाबू

जी. कोटेश्वर राव
प्रशासनिक अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग में दर्शायी गयी तारीख से आगामी आदेशों तक रु. 8000-275-13500/- के वेतनमान पर वैज्ञानिक अधिकारी-सी (भूविज्ञान) के पद पर अस्थाई क्षमता में नियुक्त करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री आर. शिवसुब्रामणियम	01-02-2007 (पूर्वाह्न)

डा. अंजन चाकी
निदेशक

जल संसाधन मंत्रालय

केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड

एन.एच.4, फरीदाबाद, दिनांक 6 फरवरी 2007

संख्या 3-1587/2007 वै. स्था. 723— विभागीय प्रोन्नति समिति (वर्ग ख, राजपत्रित) की सिफारिश एवं सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर निम्नलिखित प्रधान सर्वेक्षकों को वेतनमान रुपये 6500-200-10500/- के अधिकारी सर्वेक्षकों के पद पर उनके नाम के सामने दर्शाई गई तिथि से अस्थाई आधार पर नियुक्त किया जाता है:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	तैनाती का स्थान	कार्यग्रहण की तिथि
1.	श्री एस.के. सेनी	के.भू.ज.बो., उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्र, जम्मू	15.11.2006 (पूर्वाह्न)
2.	श्री ए.के. घोष	के.भू.ज.बो., पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता	17.01.2006 (पूर्वाह्न)

वे कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वेच्छा निर्णय पर आवश्यकतानुसार बढ़ाया जा सकता है।

एस.के. सिन्हा
निदेशक (प्रशासन)

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500016, दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. पखनि-1/9/2004-भर्ती (खंड III)/1821—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित व्यक्ति को परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय,

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स एम. आर. के. मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड

कानपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

सं. एल.सी./560/एस.ई.एस./19135/3397-- कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि मै. एम. आर. के. मिल्क प्रोडक्ट्स लिमिटेड का नाम रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

के.एल. कम्बोज
कम्पनी रजिस्ट्रार
उ.प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स ए.एस.एम. सेल्स प्रा. लि.

कानपुर, दिनांक 27 फरवरी 2007

सं. एल.सी./560(3)/25735/3399--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स ए.एस.एम. सेल्स प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथाकथित कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

के.एल. कम्बोज
कम्पनियों के रजिस्ट्रार
उ. प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स बी.के. बियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि.

कानपुर, दिनांक 1 मार्च 2007

सं. एल.सी./560(3)/16033/3440--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स बी.के. बियरिंग इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथाकथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के.एल. कम्बोज
कम्पनी के रजिस्ट्रार
उ.प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स सन साइन फुटवियर प्रा. लि.

कानपुर, दिनांक 01 मार्च 2007

संख्या: एल.सी./560(3)/12154/3433--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स सन साइन फुटवियर प्रा. लि. का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथाकथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

के.एल. कम्बोज
कम्पनी के रजिस्ट्रार
उ.प्र. एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144003, दिनांक 2007

सं. 560(5)/एसईएस/2005/2007--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्र. सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
01.	22267	मै. कैरों कार फाईनांस प्रा. लि.
02.	13989	मै. लोटस फायनान्सियल सर्विसस प्रा. लि.
03.	16100	मै. वैंस फायनान्सियल सर्विसस प्रा. लि.
04.	3035	मै. दिलों फायनासर्स प्रा. लि.
05.	15734	मै. गोल्ड स्टार फिन्कैप प्रा. लि.
06.	15820	मै. शरन फिन्कैप प्रा. लि.
07.	14578	मै. ए. आर. फायनान्सियल कन्सल्टैन्ट्स प्रा. लि.
08.	12186	मै. थापर फायनान्सियल ट्रस्ट प्रा. लि.
09.	13660	मै. वामदा फायनान्सियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी लि.
10.	8432	मै. दाव हायर परचेज प्रा. लि.
11.	21113	मै. सत प्रहालाद फिनवैस्ट कम्पनी प्रा. लि.

1	2	3
12.	9539	मै. युनिक हायर परचेज प्रा. लि.
13.	3006	मै. गुरवक्श फाईनान्स प्रा. लि.
14.	18049	मै. बीरजी फाईनान्स एण्ड लीजिंग लि.
15.	18370	मै. जे. जे. फिन्कैप प्रा. लि.
16.	15337	मै. वहलसन लैंड एण्ड फाईनान्स प्रा. लि.
17.	3976	मै. स्याल वर्दज हायर परचेज प्रा. लि.
18.	14560	मै. माता गुजरी फाईनान्स प्रा. लि.
19.	7147	मै. धनदेवता फाईनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लि.
20.	17964	मै. एस. डी. एस. फाइनान्सियल सर्विसेस लि.
21.	5700	मै. रम्पा फाईनान्स लि.
22.	10907	मै. सरप्रिया डिपोजिट्स इन्डिया लि.
23.	15289	मै. दृष्टी कैपीटल सर्विसेस प्रा. लि.
24.	9750	मै. नकोदर लीजिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
25.	17889	मै. डी. के. फिन्कैप लिमिटेड
26.	16989	मै. एक ओंकार फाईनान्स प्रा. लि.
27.	17997	मै. आई.पी.एस.ए. लीजिंग एण्ड मार्केटिंग सर्विसेस लि.
28.	14757	मै. बल्यू चिप फिजीकल सर्विसेस प्रा. लि.
29.	3984	मै. स्नो. वियु. फाईनान्स कम्पनी प्रा. लि.
30.	2991	मै. किशोर फाईनान्स एण्ड चिट फंड कं. प्रा. लि.
31.	9422	मै. सिकोयाय लीजिंग कम्पनी लिमिटेड
32.	8516	मै. सुखमनी हायर परचेज प्रा. लि.
33.	11969	मै. संगरूर फाईनान्स एण्ड लीजिंग प्रा. लि.
34.	18902	मै. आर. वी. एस. फाईनान्स प्रा. लि.
35.	8689	मै. सुमित फाईनान्सर्ज प्रा. लि.
36.	20301	मै. ए. जे. फिन्कैप प्रा. लि.
37.	2788	मै. मुक्ती चिट फंड एण्ड फाईनान्स प्रा. लि.
38.	20302	मै. बाराईट फिनलीज प्रा. लि.
39.	9489	मै. एक जोत लीजिंग प्रा. लि.
40.	11361	मै. सर्वजोत लीजिंग प्रा. लि.
41.	22313	मै. रोआयल फिनमैन (इन्डिया) प्रा. लि.
42.	12962	मै. सिधार्थ बहल इन्वेस्टमेंट्स फाईनान्स प्रा. लि.
43.	19439	मै. मनोहर फाइनैन्शियल एण्ड इन्वेस्टमेंट सर्विसेस प्रा. लि.
44.	11291	मै. इयूक इन्डस्ट्रियल फाईनान्स प्रा. लि.
45.	13277	मै. मुकदां फाइनैन्शियल सर्विसेस प्रा. लि.

1	2	3
46.	13900	मै. एच. एस. एन. फाईनान्स प्रा. लि.
47.	10567	मै. ऐ. के. टी. लीजिंग लि.
48.	16132	मै. क्यूब लीजिंग एण्ड फाईनान्स प्रा. लि.
49.	9096	मै. बिमल जगरल फाईनान्स प्रा. लि.
50.	15253	मै. लम्बरदार हायर परचेज प्रा. लि.
51.	5549	मै. मनु ट्रेडिंग एण्ड फाईनान्स कम्पनी प्रा. लि.
52.	9799	मै. गोल्डन टैम्पल फाईनान्स प्रा. लि.
53.	16491	मै. के. ऐ. जे. इन्वेस्टमेंट्स एण्ड फाईनान्स प्रा. लि.
54.	21929	मै. शिव ज्योति फिन्वेस्ट प्रा. लि.
55.	13899	मै. किंग फिशर इन्वेस्टमेंट्स लि.
56.	14053	मै. टीम अप इन्वेस्टमेंट्स लि.
57.	22008	मै. गोल्डन मॉडर्न मल्टीलिंग फाइनैन्शियल एण्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
58.	14034	मै. नाथरा हायर परचेज प्रा. लि.
59.	17683	मै. हरमन लीजिंग एण्ड एडवान्स प्रा. लि.
60.	17468	मै. ऐ. डी. फाईनान्सर्ज प्रा. लि.
61.	12462	मै. अमरेन्द्र फाईनान्स एण्ड लीजिंग प्रा. लि.
62.	8984	मै. प्रीत हायर परचेज प्रा. लि.
63.	16793	मै. स्वामी फाईनान्स प्रा. लि.
64.	9952	मै. निकिता हायर परचेज प्रा. लि.
65.	11532	मै. एस एम डी फिन्कैप प्रा. लि.
66.	10046	मै. न्यु लुक फिन्वेस्ट प्रा. लि.
67.	10699	मै. सिधार्थ डिपोजिट्स एण्ड एडवान्स प्रा. लि.
68.	18858	मै. ए. पी. जे. हायर परचेज प्रा. लि.

मन मोहन जुनेजा
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर-144003, दिनांक 2007

सं. 560(3)एसयूडी/एमओ/डी/2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं:--

क्रम सं.	रजि. नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	126	मै. पावर्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	161	मै. नार्दन इंडिया मैचेज प्राइवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
3.	175	मै. अपर इंडिया मेटल्स वर्क्स लि.	35.	2706	मै. नवाँशहर गुड्स ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
4.	292	मै. लक्ष्मी रोजिन एंड टर्पेन्टाइन मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.	36.	2717	मै. मनसा एग्रीकल्चरल एंड मार्केटिंग कं. प्रा. लि.
5.	322	मै. रतन स्पोर्ट्स प्रा. लि.	37.	2718	मै. वेस्टर्न टायर एंड रबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
6.	414	मै. फॉरवर्ड ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	38.	2741	मै. पंजाब स्मॉल स्केल्स सोप मेन्यूफैक्चरर्स फेडरेशन लि.
7.	545	मै. नार्थ लैंड रबर मिल्स लि.	39.	2758	मै. रनबीर टायर्स एंड रबर कं. प्रा. लि.
8.	871	मै. हिमालयारी पौटरज लि.	40.	2776	मै. पटियाला बस एंड जनरल प्रोपर्टीज प्रा. लि.
9.	1275	मै. भगत राम हजारीमल एंड कं. प्रा. लि.	41.	2785	मै. विकास पिकचर्स प्रा. लि.
10.	1442	मै. न्यू ड्रग ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.	42.	2793	मै. नेपच्यून टायर्स प्रा. लि.
11.	1466	मै. डीगल लेबोरेट्रीज प्रा. लि.	43.	2810	मै. स्टी मेन लि.
12.	1915	मै. साहिब सिंह ट्रेडर्स प्रा. लि.	44.	2832	मै. अशोक टाईल्स एंड एलाईड इण्डस्ट्रीज लि.
13.	2106	मै. संगरूर बस सर्विस प्रा. लि.	45.	2835	मै. फेयरडील कॉलोनाइजर्स एंड बिल्डर्स प्रा. लि.
14.	2110	मै. पाखो बस एंड ट्रांसपोर्ट सर्विस लि.	46.	2842	मै. पंजाब फुटवियर्स लि.
15.	2137	मै. न्यू हिथार बस सर्विस लि.	47.	2846	मै. मल्लिक हौस बिल्डर्स प्रा. लि.
16.	2150	मै. कलकत्ता बस सर्विस प्रा. लि.	48.	2896	मै. ईगल मेन्यूफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
17.	2204	मै. परमार कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	49.	2912	मै. तारा एक्सपोर्ट एंटरप्राइजेज प्रा. लि.
18.	2243	मै. भारत केलिको प्रिंटिंग मिल्स प्रा. लि.	50.	2917	मै. प्रैंड्स ऑटो एजेन्सीज प्रा. लि.
19.	2265	मै. पंजाब वूलन्स प्रा. लि.	51.	2928	मै. दसमेश पेपर बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
20.	2282	मै. ऑटो पार्ट्स प्रा. लि.	52.	2936	मै. पंजाब हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर पाईप डीलर्स प्रा. लि.
21.	2288	मै. निट सिल्वीकल्चर प्रा. लि.	53.	2948	मै. निरंकार ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
22.	2304	मै. एरो-रेफ्रिजेशन प्रा. लि.	54.	2956	मै. एसीबीन स्टील प्रा. लि.
23.	2327	मै. परशोत्तमलाल एंड कं. प्रा. लि.	55.	2959	मै. रनधावा गुड्स कैरियर प्रा. लि.
24.	2353	मै. संधू रोडवेज प्रा. लि.	56.	2971	मै. सुपर नेशनल ट्रेवलर्स प्रा. लि.
25.	2358	मै. रॉयल इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	57.	2974	मै. टेक्सटाईल्स एम्पोरियम प्रा. लि.
26.	2391	मै. इस्टर्न डॉन कार्पोरेशन प्रा. लि.	58.	2997	मै. पंजाब न्यूज एजेन्सी कं. प्रा. लि.
27.	2401	मै. एशिया वर्क्स प्रा. लि.	59.	3022	मै. सीमेन्ट फैब्रिक्स इंडिया प्रा. लि.
28.	2438	मै. झोझवाल स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	60.	3025	मै. जिमिन्दारा इक्विपमेन्ट्स प्रा. लि.
29.	2496	मै. हेंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	61.	3029	मै. स्पार्कल बेवरेजेस प्रा. लि.
30.	2528	मै. फ्लो मीटर्स एंड इंजिनियरिंग एप्लायंसेज प्रा. लि.	62.	3032	मै. चंडीगढ़ रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
31.	2542	मै. बीन्यू ट्रेडर्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रा. लि.	63.	3040	मै. विशाल हिमाचल मोहन उद्योग प्रा. लि.
32.	2620	मै. बक्शी दास राज भसीन एंड सन्स प्रा. लि.	64.	3060	मै. हिम वैली ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
33.	2649	मै. गोविन्द राम एंड सन्स लुधियाना प्रा. लि.	65.	3068	मै. फ्रैण्ड्स प्लास्टिक्स प्रा. लि.
34.	2668	मै. पॉलीकेम एंड स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	66.	3074	मै. जल्लेवालिया राइस मिल्स प्रा. लि.
			67.	3083	मै. प्रितम सिंह काका बस सर्विस प्रा. लि.
			68.	3093	मै. सल्जर इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
			69.	3148	मै. एरो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट प्रा. लि.

1	2	3
70.	3151	मै. वेस्ट एण्ड डीलक्स ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
71.	3161	मै. हिमाचल बुडन फैक्टरी प्रा. लि.
72.	3173	मै. गोल्डन ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
73.	3180	मै. तलवारा रोडवेज प्रा. लि.
74.	3197	मै. फिल्लौर बस एंड ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
75.	3198	मै. आर एन वी एस ब्रदर्स प्रा. लि.
76.	3211	मै. वैली टूरिस्ट रोडवेज प्रा. लि.
77.	3215	मै. आरवको इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
78.	3222	मै. शेर गिल बस सर्विस प्रा. लि.
79.	3225	मै. एस आई ब्रिक्स एंड बिल्डर्स प्रा. लि.
80.	3253	मै. रेखा लैंड्स प्रा. लि.
81.	3260	मै. बीस थियेटर प्रा. लि.
82.	3261	मै. हिमाचल पेंट्स प्रा. लि.
83.	3266	मै. सुधा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
84.	3269	मै. मालवा मूवीज प्रा. लि.
85.	3270	मै. रनसन एक्सपोर्ट प्रा. लि.
86.	3273	मै. यूनिक बस सर्विस प्रा. लि.
87.	3278	मै. बी. कोलंबिया टेक्सटाइल मेन्यू कं. प्रा. लि.
88.	3293	मै. रतन चन्द एंड सन्स प्रा. लि.
89.	3323	मै. एक्यूमीजर्स पंजाब प्रा. लि.
90.	3340	मै. परमार इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
91.	3344	मै. जैना ट्रांसफार्मर प्रा. लि.
92.	3348	मै. कारब्युरेशन एंड जनरल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
93.	3349	मै. सुदेश एग्रीकल्चरल फार्म प्रा. लि.
94.	3364	मै. न्यू ईरा प्लास्टिक प्रा. लि.
95.	3368	मै. ओएल पेपर एंड पल्प उद्योग प्रा. लि.
96.	3369	मै. ईका फर्निचर प्रा. लि.
97.	3374	मै. खरार सोल्वेन्ट प्रा. लि.
98.	3380	मै. आरती लैंड्स प्रा. लि.
99.	3381	मै. गीता एक्सपर्ट्स प्रा. लि.
100.	3382	मै. बरनाला रोडवेज प्रा. लि.
101.	3393	मै. कला दर्पण स्टूडियोज प्रा. लि.
102.	3395	मै. खालसा इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.

1	2	3
103.	3403	मै. स्टर्लिंग स्टील्स एंड वायर्स प्रा. लि.
104.	3405	मै. अजय फाउंडरी एंड फोर्ज प्रा. लि.
105.	3408	मै. यूनियन स्पन पाईप्स एंड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
106.	3410	मै. व्हाइटहॉक्स इम्पेक्स प्रा. लि.
107.	3430	मै. एडवॉस ऑयल्स प्रा. लि.
108.	3431	मै. ललित एग्री केमिकल्स प्रा. लि.
109.	3433	मै. राजेन्द्र एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
110.	3434	मै. के मैकेनिक्स प्रा. लि.
111.	3444	मै. प्लीसेन्ट एंटरप्राइजेज (इंडिया) प्रा. लि.
112.	3446	मै. नवजीवन बस सर्विस प्रा. लि.
113.	3448	मै. जी कास्टिंग लि.
114.	3451	मै. गुरु नानक बस सर्विस प्रा. लि.
115.	3456	मै. लार्क टेलीविजन प्रा. लि.
116.	3458	मै. सतलुज टूल्स लि.
117.	3462	मै. प्रकाश सिलिकेट इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
118.	3467	मै. स्वर्ण आक्सीजन प्रा. लि.
119.	3473	मै. नवकेतन बोर्ड्स प्रा. लि.
120.	3475	मै. किसान एंटरप्राइजिस खन्ना प्रा. लि.
121.	3480	मै. डिक्सन इंजिनियरिंग कं. प्रा. लि.
122.	3482	मै. कन्ज्यूमर केयर प्रा. लि.
123.	3483	मै. सोहल ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
124.	3487	मै. गार्डियन एक्सपोर्ट प्रा. लि.
125.	3488	मै. चण्डीगढ़ पब्लिशर्स प्रा. लि.
126.	3489	मै. सरधा ब्रेवरीज एंड डिस्टिलरीज प्रा. लि.
127.	3500	मै. स्टैण्डर्ड इण्डस्ट्रियल एंड पर्सनल कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
128.	3508	मै. शिवालक यार्क इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
129.	3533	मै. खन्ना निटर्स प्रा. लि.
130.	3535	मै. हिमाचल सील्स एंड कंटेनर्स प्रा. लि.
131.	3541	मै. गद्दी केमिकल्स प्रा. लि.
132.	3757	मै. चांद रमन टूल्स प्रा. लि.
133.	3759	मै. अमृतसर कन्सट्रक्शन कं. प्रा. लि.
134.	3760	मै. स्टैण्डर्ड इम्पेक्स प्रा. लि.
135.	3768	मै. पंजाब टाईमर लि.

1	2	3	1	2	3
136.	3779	मै. चीमा आइस फौकरी प्रा. लि.	169.	4175	मै. दोरिस लैबोरेट्रीज प्रा. लि.
137.	3780	मै. स्विफ्ट एयर ट्रेवल्स प्रा. लि.	170.	4178	मै. मुल्तानी सोप प्रा. लि.
138.	3848	मै. दाखा बस सर्विस प्रा. लि.	171.	4180	मै. डिप्लोमेट प्रा. लि.
139.	3871	मै. महादेव केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	172.	4181	मै. कारेन फोरजिंग्स प्रा. लि.
140.	3872	मै. रोमा आर्ट्स प्रा. लि.	173.	4186	मै. दसमेश रोड लाइन्स प्रा. लि.
141.	3875	मै. फ्लैटीज होटल्स प्रा. लि.	174.	4197	मै. फरीद पेपर मिल्स प्रा. लि.
142.	3901	मै. मुल्लानपुर बस सर्विस प्रा. लि.	175.	4201	मै. माउंट शिवालिक पल्प एंड पेपर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
143.	3909	मै. कैलाशपति ट्रेडर्स प्रा. लि.	176.	4202	मै. रोमाना रोडवेज प्रा. लि.
144.	3911	मै. प्लाहा इंजिनियर्स प्रा. लि.	177.	4203	मै. एस जी एच सिग्मा प्रा. लि.
145.	3914	मै. फ्रैंड्स एक्सट्रक्शन प्रा. लि.	178.	4205	मै. खैराती लाल दुआ एंड सन्स प्रा. लि.
146.	3917	मै. वजीर हौजरी मिल्स प्रा. लि.	179.	4207	मै. शिवालिक फोरजिंग्स प्रा. लि.
147.	3919	मै. स्टैनन लेबोरेट्रीज प्रा. लि.	180.	4208	मै. सबका फौजी ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
148.	4030	मै. मालवा सालवेक्स प्रा. लि.	181.	4211	मै. मकलिरा टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि.
149.	4041	मै. अनामिका कॉटन प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	182.	4212	मै. सलेक्शन एप्लापंसेज प्रा. लि.
150.	4042	मै. लिडर ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.	183.	4214	मै. सरस्वती आयल्स प्रा. लि.
151.	4043	मै. बब्बर दोआबा हाइवेज ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	184.	4215	मै. ग्रेवाल बस सर्विस प्रा. लि.
152.	4054	मै. स्वास्तिक पेपर मिल्स प्रा. लि.	185.	4220	मै. नवनीत पेपर प्रा. लि.
153.	4060	मै. संधु थियेटर्स प्रा. लि.	186.	4221	मै. दीनार इंजिनियरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
154.	4061	मै. शान-ए-पंजाब बस सर्विस प्रा. लि.	187.	4230	मै. टी के रैपर्स प्रा. लि.
155.	4062	मै. गिल ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.	188.	4234	मै. आर के एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
156.	4091	मै. बलवन्त फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	189.	4236	मै. मायलव कास्मेटिक्स एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
157.	4098	मै. ब्ल्यू स्टार ट्रांसपोर्ट कं. लि.	190.	4243	मै. दगमर एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
158.	4105	मै. पाओंट्य रबर इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	191.	4245	मै. सर्वत्र ट्रांसपोर्ट्स प्रा. लि.
159.	4108	मै. इंजिनियर्स कन्सट्रक्शन कं. प्रा. लि.	192.	4246	मै. अंडरहिल यूरे काइर्स प्रा. लि.
160.	4116	मै. एंकर कास्टिंग्स एंड फोरजिंग प्रा. लि.	193.	4248	मै. परवीन कास्टिंग्स प्रा. लि.
161.	4129	मै. अरोरा वनस्पति प्रा. लि.	194.	4254	मै. नोरी कास्मोफार्मा प्रा. लि.
162.	4130	मै. वे-वैल स्कैल्स प्रा. लि.	195.	4255	मै. एस ए केमिकल्स एंड एलाइड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
163.	4143	मै. नवदीप रोड लाइन्स प्रा. लि.	196.	4259	मै. लक्ष्मी फोर्जिंग प्रा. लि.
164.	4150	मै. टी के पेपर मिल्स प्रा. लि.	197.	4261	मै. बावा मोटर्स स्प्रिंग प्रा. लि.
165.	4167	मै. डेकोर स्टील्स प्रा. लि.	198.	4264	मै. ग्लोबल रिक्लेक्स एंड एलाइड प्रा. लि.
166.	4168	मै. फार इस्ट स्पोर्टिंग गुड्स प्रा. लि.	199.	4266	मै. एन एस स्टील प्रा. लि.
167.	4169	मै. सरताज पेपर्स प्रा. लि.	200.	4270	मै. शैल पेपर प्रा. लि.
168.	4171	मै. ट्वेन्टीएथ सेन्चुरी एक्सपो प्रा. लि.	201.	4273	मै. केमो प्लास्टिक्स प्रा. लि.
			202.	4277	मै. बरडो मेटिक्स प्रा. लि.

1	2	3
203.	4281	मै. बक्शी ऑटोस प्रा. लि.
204.	4286	मै. वुड वर्ल्ड प्रा. लि.
205.	4288	मै. सरविर रांटर प्राइजेज प्रा. लि.
206.	4297	मै. स्वास्तिक एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स लि.
207.	4298	मै. आहूजा लाइसन सर्विसेज प्रा. लि.
208.	4300	मै. अल्पाइन इलेक्ट्रॉनिक्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
209.	4305	मै. प्रीमियर फोर्जिंग एंड हैंड टूल्स प्रा. लि.
210.	4306	मै. शैल्लिक इंडिया प्रा. लि.
211.	4310	मै. अजनाला बस सर्विस प्रा. लि.
212.	4317	मै. बस्सी सोलवेक्स प्रा. लि.
213.	4328	मै. डीलक्स वुलन्स प्रा. लि.
214.	4330	मै. अमर इंडिया पेपर मैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.
215.	4332	मै. कैपफेम फूड्स प्रा. लि.
216.	4334	मै. दिवान सिंह इंजीनियर्स प्रा. लि.
217.	4337	मै. त्रिवेणी एल्यूमिनियम रोलर्स प्रा. लि.
218.	4338	मै. सुंदर निर्माण प्रोपर्टी डीलर्स प्रा. लि.
219.	4349	मै. तरनतारन बस सर्विस प्रा. लि.
220.	4350	मै. युनाइटेड ब्रदर्स ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
221.	4351	मै. टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड मैनेजमेन्ट्स कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
222.	4352	मै. वरून प्रा. लि.
223.	4356	मै. आरती पालीमर्स प्रा. लि.
224.	4358	मै. सुंदर निर्माण कलगीधर सिंह ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
225.	4360	मै. हिमको रबर्स प्रा. लि.
226.	4364	मै. हैनसन्स (इंडिया) प्रा. लि.
227.	4366	मै. डाटा कैम्प इंडिया प्रा. लि.
228.	4367	मै. सुपर पेपर मिल्स प्रा. लि.
229.	4371	मै. सोना निटर्स प्रा. लि.
230.	4374	मै. ए बी इण्डस्ट्रीयल रिक्वायरमेन्ट्स प्रा. लि.
231.	4375	मै. प्लान-वैल कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
232.	4377	मै. कंवर पेपर्स प्रा. लि.
233.	4378	मै. अरविंद कंटेनर्स प्रा. लि.
234.	4385	मै. फतेह पेपर मिल्स प्रा. लि.

1	2	3
235.	4386	मै. के जी बी कार्स्टिंग्स प्रा. लि.
236.	4390	मै. हिम वेल्स प्रा. लि.
237.	4391	मै. सुमन स्टील एंड एलायज प्रा. लि.
238.	4392	मै. अग्रवाल मल्टी स्टील्स प्रा. लि.
239.	4394	मै. खारा बस सर्विस प्रा. लि.
240.	4397	मै. अपोलो ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
241.	4398	मै. विक बस सर्विस प्रा. लि.
242.	4399	मै. रूंट बस सर्विस प्रा. लि.
243.	4404	मै. आरटेक्स वूलन्स प्रा. लि.
244.	4407	मै. गौतम पेपर मिल्स प्रा. लि.
245.	4408	मै. सिने आइज प्रा. लि.
246.	4409	मै. न्यू एम्पायर स्टील्स प्रा. लि.
247.	4410	मै. विकास इस्पीत प्रा. लि.
248.	4412	मै. बुलेट रोडवेज प्रा. लि.
249.	4415	मै. खोसा ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
250.	4426	मै. मलेरकोटला रबर प्रा. लि.
251.	4431	मै. कन्सर्ट कन्सल्टेशन प्रा. लि.
252.	4433	मै. हाइप्रेस कार्स्टिंग्स एंड एलायज प्रा. लि.
253.	4438	मै. आइडियल पेपर एंड इण्डस्ट्रियल मशीन्स प्रा. लि.
254.	4442	मै. शांति पेपर मिल्स प्रा. लि.
255.	4443	मै. नव भारत निटवियर्स प्रा. लि.
256.	4450	मै. मेडिकेप्स प्रा. लि.
257.	4451	मै. रॉयल बिस्किट्स प्रा. लि.
258.	4453	मै. जैन टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
259.	4454	मै. रेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
260.	4456	मै. चावला इलेक्ट्रिक कं. प्रा. लि.
261.	4457	मै. अजन्ता डेलीनीड प्रोविजन स्टोर्स लि.
262.	4462	मै. साक्षी इंजिनियर्स प्रा. लि.
263.	4463	मै. आराधना पेपर प्रा. लि.
264.	4464	मै. हिन्दुस्तानी मसाला ट्रेडर्स प्रा. लि.
265.	4465	मै. मटवानी ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
266.	4477	मै. कास्ट मास्टर (इंडिया) प्रा. लि.
267.	4481	मै. डाटा चैनल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
268.	4487	मै. वाइपर मित्र प्रा. लि.	301.	4600	मै. अनुदीप इंजिनियर्स प्रा. लि.
269.	4503	मै. जनरल इलेक्ट्रिक केबल्स प्रा. लि.	302.	4603	मै. स्विस्को इंजिनियर्स प्रा. लि.
270.	4509	मै. जेडी एलायज स्टील प्रा. लि.	303.	4605	मै. एपोटेक कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.
271.	4512	मै. दुर्गाजी पेपर्स प्रा. लि.	304.	4607	मै. एलिशा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
272.	4516	मै. यूनिटी इंजिनियर्स प्रा. लि.	305.	4610	मै. पाहवा वाईन्स प्रा. लि.
273.	4519	मै. कुमार सिलिडर्स प्रा. लि.	306.	4613	मै. हिमगिरि पालीबान्ड्स प्रा. लि.
274.	4525	मै. कालिमा एंटर प्राइजेज प्रा. लि.	307.	4623	मै. पूजा प्रोसेसर्स प्रा. लि.
275.	4527	मै. रिलायंस बिल्डर्स प्रा. लि.	308.	4627	मै. फिरोज पेपर्स प्रा. लि.
276.	4528	मै. सनग्लो लैम्प्स प्रा. लि.	309.	4632	मै. ऑफसेट प्रा. लि.
277.	4529	मै. चीमा टूर्स एंड ट्रेवल्स प्रा. लि.	310.	4633	मै. जेमिनी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
278.	4533	मै. इंटरकॉम सर्विसेज प्रा. लि.	311.	4635	मै. ग्रोफास्ट फाइबर्स लि.
279.	4534	मै. नायरसन्स प्रिंटेर्स प्रा. लि.	312.	4636	मै. अद्दी इम्पेक्स प्रा. लि.
280.	4537	मै. नवदुर्गा पेपर बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	313.	4642	मै. रूपानगर एशोसियेट्स प्रा. लि.
281.	4539	मै. हिमाचल लैडर बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	314.	4643	मै. राजा विक्की प्रा. लि.
282.	4540	मै. हिमाचल लैडर फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.	315.	4646	मै. अमृतसर, वुलन्स स्पिनिंग मिल्स लि.
283.	4543	मै. दिनेश पेपर्स प्रा. लि.	316.	4648	मै. सुकृत प्रा. लि.
284.	4551	मै. गनेश कास्टिंग्स एंड एलाडड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	317.	4649	मै. क्यूरिड प्रा. लि.
285.	4558	मै. चौधरी मोटर एजेन्सी प्रा. लि.	318.	4652	मै. ओरिएन्टल डिवाइसेज प्रा. लि.
286.	4560	मै. हिमाचल एलाय स्टील्स लि.	319.	4653	मै. फरिदकोट स्ट्रॉ बोर्ड प्रा. लि.
287.	4562	मै. रवि पेपर एंड बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	320.	4659	मै. एस एस स्टील एण्ड एलायज प्रा. लि.
288.	4563	मै. ज्योति इस्पात अमृतसर प्रा. लि.	321.	4662	मै. सैफ्रॉन फायर्स प्रा. लि.
289.	4566	मै. रकम्मन इंजिनियर्स प्रा. लि.	322.	4664	मै. युनाइटेड मोल्डिंग्स प्रा. लि.
290.	4567	मै. वोवपैक इंटरनेशनल प्रा. लि.	323.	4665	मै. सरीन स्विचगियर्स प्रा. लि.
291.	4568	मै. सेवा एजेन्सीज प्रा. लि.	324.	4670	मै. पंजाब इलैक्ट्राइस एण्ड मेटल्स प्रा. लि.
292.	4572	मै. राजनवाच कं. प्रा. लि.	325.	4673	मै. हिमगिरि फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
293.	4574	मै. इण्डस्ट्रियल वाच एंड वार्ड प्रा. लि.	326.	4679	मै. जनरल हार्डवेयर प्रा. लि.
294.	4577	मै. यूरिक उर्वशी इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	327.	4682	मै. सिमरान एंटरप्राइजेज प्रा. लि.
295.	4580	मै. शर्मा विवेक कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	328.	4685	मै. डागरा पेपर्स प्रा. लि.
296.	4583	मै. कोरा कागज प्रा. लि.	329.	4686	मै. नूतन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
297.	4587	मै. एम पी होटल्स प्रा. लि.	330.	4687	मै. लिली पेपर एंड पेपर बोर्ड प्रा. लि.
298.	4590	मै. मेहतपुर पेपर मिल्स प्रा. लि.	331.	4688	मै. एक्वादत्त इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
299.	4595	मै. दुरा पैक प्रा. लि.	332.	4689	मै. यूनिस्कॉन एण्ड सूनिक्स लि.
300.	4599	मै. सलवान बस सर्विस प्रा. लि.	333.	4691	मै. डाटा आटोमेशन लि.

1	2	3	1	2	3
334.	4692	मै. रीता फार्मासीइस प्रा. लि.	367.	4812	मै. फौरो ट्रेड इण्डिया प्रा. लि.
335.	4695	मै. भटिन्डा ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.	368.	4814	मै. रनदेव एम्पायर एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रा. लि.
336.	4703	मै. सावन इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.	369.	4818	मै. वजीर सिंह टेक्सटाईल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
337.	4721	मै. चंडीगढ़ रबर वर्क्स प्रा. लि.	370.	4819	मै. महल फ्राजिंग्स प्रा. लि.
338.	4722	मै. पदमा कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	371.	4820	मै. बी.डी. एंटरप्राइजेज प्रा. लि.
339.	4723	मै. रक्षा रोड ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	372.	4821	मै. शीतल पैकर्स प्रा. लि.
340.	4735	मै. स्टेण्डर्ड बिस्किट्स प्रा. लि.	373.	4823	मै. करमसर ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
341.	4737	मै. जलाल केमिकल्स एंड पालीमर्स प्रा. लि.	374.	4824	मै. शास्त्री बिल्डर्स प्रा. लि.
342.	4738	मै. हेमा स्टील्स प्रा. लि.	375.	4825	मै. नेचुरल गम्स प्रा. लि.
343.	4739	मै. संधु प्लानर्स एंड डबलपर्स प्रा. लि.	376.	4826	मै. एडीसन लाइटक्राफ्ट्स प्रा. लि.
344.	4741	मै. सोलन स्ट्रीट प्रा. लि.	377.	4828	मै. युनाइटेड जिपर्स प्रा. लि.
345.	4757	मै. सनराइज ट्रेडमार्क कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.	378.	4830	मै. भोगास्टील उद्योग प्रा. लि.
346.	4758	मै. अग्रवाल एलम इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	379.	4831	मै. रॉयल पेपर मोल्डिंग्स प्रा. लि.
347.	4760	मै. गिडा इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	380.	4834	मै. डोगरा पेपर बोर्ड्स प्रा. लि.
348.	4761	मै. शाहाबाद पेपर्स प्रा. लि.	381.	4836	मै. कवर फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.
349.	4763	मै. इन्डो इन्टरनेशनल कॉरपोरेट्स एंड एलाइड इण्डस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लि.	382.	4838	मै. विजयन्ता पेपर कन्वरजन्स (इण्डिया) प्रा. लि.
350.	4765	मै. यूनिस्टाईल इण्डिया प्रा. लि.	383.	4843	मै. शिवालिक आयल एण्ड फर्टिलाइजर्स प्रा. लि.
351.	4766	मै. ड्यूरेबल प्लास्टिक्स प्रा. लि.	384.	4844	मै. मनसन इण्डिया प्रा. लि.
352.	4767	मै. बादशाह केमिकल्स प्रा. लि.	385.	4845	मै. एंडविस्ता प्रा. लि.
353.	4768	मै. वी वी इंटर्नेशनल प्रा. लि.	386.	4852	मै. कंटीनेन्टल कैनिंग कं. प्रा. लि.
354.	4770	मै. यूनिस्टाईल कन्टेनर्स प्रा. लि.	387.	4856	मै. मिटसन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
355.	4771	मै. लालजी ब्रेवरीज प्रा. लि.	388.	4858	मै. धुरी स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
356.	4773	मै. वशिष्ठ एंटरप्राइजेज प्रा. लि.	389.	4859	मै. गीता फार्मा प्रा. लि.
357.	4775	मै. कोचर साइकिल्स प्रा. लि.	390.	4861	मै. फाल्कन टूरिज्म प्रा. लि.
358.	4777	मै. प्रेस्को रबर एण्ड केमिकल्स इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	391.	4862	मै. एनडी थर्मोमीटर्स प्रा. लि.
359.	4779	मै. शिवालिक फाउंड्रीज प्रा. लि.	392.	4867	मै. वीडियोटेक प्रा. लि.
360.	4780	मै. सिद्धार्थ सीमेंट प्रा. लि.	393.	4869	मै. मॉडल स्मिनिंग एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
361.	4782	मै. मनकू इंटर्नेशनल प्रा. लि.	394.	4871	मै. युनाइटेड क्राउन्स एंड क्रिस्टल्स प्रा. लि.
362.	4786	मै. युनाइटेड वात्र केसेज लि.	395.	4872	मै. एस के पैकिंग एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
363.	4790	मै. कटारिया सर्जिकल डिस्पोजेबल एम एफ आर एस प्रा. लि.	396.	4873	मै. हिम बिस्किट्स प्रा. लि.
364.	4800	मै. नायर एण्ड वर्मा निटवियर्स प्रा. लि.	397.	4874	मै. फौरो इम्पेक्स प्रा. लि.
365.	4809	मै. नायर एण्ड सरीनवर्मा होजरी मिल्स प्रा. लि.	398.	4877	मै. अरुणाचल प्रोपर्टीज एंड इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा. लि.
366.	4811	मै. दशनेश इंटरप्राइजेज प्रा. लि.	399.	4879	मै. रिलायंस ट्रेवल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
400.	4880	मै. निटमेन प्रा. लि.	432.	4997	मै. सम्राट थियेटर्स प्रा. लि.
401.	4881	मै. बरुनाला स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	433.	4999	मै. स्वास्तिक वूल स्पीनर्स प्रा. लि.
402.	4883	मै. एक्सपोर्ट इंजीनियरिंग एंड कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.	434.	5000	मै. मोहन ऑयल एंड सोप मिल्स प्रा. लि.
403.	4885	मै. कार्स डी एन साइंटिफिक इन्स्ट्रुमेंटेशन एंड पब्लिशर्स प्रा. लि.	435.	5001	मै. दोआबा स्ट्रा बोर्ड एण्ड पेपर मिल्स प्रा. लि.
404.	4886	मै. केवा फार्मा प्रा. लि.	436.	5005	मै. हिमाचल सिनटैक्स प्रा. लि.
405.	4887	मै. के के सीमेन्ट्स इंडिया प्रा. लि.	437.	5016	मै. टोटल एक्सपोर्ट प्रा. लि.
406.	4889	मै. कूगर एथलेटिक्स इक्विपमेन्ट मेन्यू. प्रा. लि.	438.	5017	मै. सतलुज कैमिकल प्रा. लि.
407.	4893	मै. चंडीगढ़ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	439.	5023	मै. रघुनाथ एक्सट्रैक्शन प्रा. लि.
408.	4896	मै. सूर्या साइकिल उद्योग प्रा. लि.	440.	5027	मै. सिंगला सिमेन्ट्स इंडिया प्रा. लि.
409.	4898	मै. कौन्टकी हेचरीज प्रा. लि.	441.	5029	मै. सनराज प्रॉपर्टीस प्रा. लि.
410.	4900	मै. सेठ साइकिल्स प्रा. लि.	442.	5032	मै. ग्रेस वूलन मिल्स प्रा. लि.
411.	4902	मै. नगीना सेवक फूड प्रोसेसर्स प्रा. लि.	443.	5034	मै. नॉरदर्न इंडिया गेलायडन प्रा. लि.
412.	4905	मै. ईएमएम एशोसियेट्स प्रा. लि.	444.	5037	मै. सनबीम कारबाईड एंड कैमीकल्स प्रा. लि.
413.	4910	मै. चंडीगढ़ डाटा प्रोसेसिंग प्रा. लि.	445.	5039	मै. टी निट्स प्रा. लि.
414.	4915	मै. सूरज आटोमोबाईल्स प्रा. लि.	446.	5045	मै. हरीन्द्र सिंह एंड एसोसियेट्स प्रा. लि.
415.	4916	मै. इम्परमीएबल इंडिया प्रा. लि.	447.	5048	मै. बिज क्लीकल प्रा. लि.
416.	4924	मै. आर्षिट केमिकल्स प्रा. लि.	448.	5049	मै. डाइनमिक इन्स्ट्रुमेंटेशन प्रा. लि.
417.	4926	मै. आर के इंटरनेशनल प्रा. लि.	449.	5054	मै. जतिन्द्रा इंजीनियरिंग प्रा. लि.
418.	4928	मै. डायमंड प्रेसाइजिंग टूल्स प्रा. लि.	450.	5062	मै. एवरेस्ट आयुर्वेदिक मैडीसिन एंड इंक मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
419.	4932	मै. अंकुर स्पिनर्स प्रा. लि.	451.	5063	मै. ट्यूब टैक्स लि.
420.	4933	मै. अंलकर इलेक्ट्रिक मोटर्स प्रा. लि.	452.	5070	मै. रतन फूड्स प्रा. लि.
421.	4938	मै. सिंपलैक्स ऑटो इंडस्ट्रीज 1960 प्रा. लि.	453.	5072	मै. मल्लेकोटला पल्प एंड पेपर मिल्स लि.
422.	4939	मै. पंजाब एग्रीकल्चरल इमपुट्स प्रा. लि.	454.	5076	मै. फरमा लेब्स प्रा. लि.
423.	4944	मै. भारत ओवरसिस कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	455.	5077	मै. चिरोन फार्मास्युटिकल (इंडिया) प्रा. लि.
424.	4946	मै. फिरोज इंडस्ट्रियल मैन्यूफैक्चरींग एंड इंजीनियरिंग कं. प्रा. लि.	456.	5078	मै. अमन एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
425.	4947	मै. अप्पू एसोसियेट्स प्रा. लि.	457.	5081	मै. चंडीगढ़ सीमेंट उद्योग प्रा. लि.
426.	4948	मै. सुनील होटल्स प्रा. लि.	458.	5089	मै. जी.ए. सीविर पाईप एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
427.	4954	मै. बोनहियर प्रा. लि.	459.	5090	मै. कनसोर्ट इंजीनियर एंड ट्रेडर्स प्रा. लि.
428.	4957	मै. लाइव स्टॉक एंटरप्राइसेज प्रा. लि.	460.	5091	मै. श्री बालाजी स्ट्रा बोर्ड प्रा. लि.
429.	4968	मै. हरसन्स स्पीनिंग एंड विविंग मिल्स प्रा. लि.	461.	5093	मै. ऑटो कामानिस प्रा. लि.
430.	4973	मै. करम होटल्स प्रा. लि.	462.	5097	मै. थाइज ऑयल इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
431.	4987	मै. ब्रुडनो वैल्वस प्रा. लि.	463.	5098	मै. एसकान इंडिया प्रा. लि.
			464.	5099	मै. बी एस पैकर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
			465.	5101	मै. बायोरैक्स फार्मास्युटिकल प्रा. लि.

1	2	3
466.	5104	मै. नाना कैमीकल्स प्रा. लि.
467.	5108	मै. शिवालिक सीमेन्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
468.	5111	मै. इन्टेल कम्प्यूटर सर्विस प्रा. लि.
469.	5113	मै. दीप कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
470.	5117	मै. एम. ए. इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
471.	5121	मै. गागल कैरिबर्स लि.
472.	5124	मै. बी एक्स आर (एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स) प्रा. लि.
473.	5129	मै. सलीयालिवी बिल्डर्स प्रा. लि.
474.	5131	मै. गुरूआसरा इंटरनेशनल प्रा. लि.
475.	5135	मै. पंजाब एनर्जी डेवाइसेस लि.
476.	5140	मै. सुभराज सिनेमा प्रा. लि.
477.	5144	मै. मैक्स स्पोर्ट्स प्रा. लि.
478.	5145	मै. पी जी एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
479.	5150	मै. हिमाचल प्रदेश स्टेट फ्रूट पैकेजिंग कं. प्रा. लि.
480.	5155	मै. पंजाब गुलकोनेट्स लि.
481.	5157	मै. एम आई कनवर्टर्स प्रा. लि.
482.	5159	मै. पंजाब डायमंड टूल्स लि.
483.	5160	मै. डेमटल ब्रिक्स टाईल्स प्रा. लि.
484.	5165	मै. पंकज एलायस स्टील प्रा. लि.
485.	5167	मै. पी के वर्सटैड स्प्रीन्स प्रा. लि.
486.	5168	मै. कुनु इलेक्ट्रॉनिक इंडिया प्रा. लि.
487.	5169	मै. टंगरी पेपर मिल्स प्रा. लि.
488.	5170	मै. काथुरिया डाईंग एंड फिनिशिंग मिल्स प्रा. लि.
489.	5174	मै. ए डी जे डीमलैड बिल्डर्स एंड इंजीनियर प्रा. लि.
490.	5176	मै. श्री भारत प्रोसेसर्स प्रा. लि.
491.	5179	मै. अमृतसर शोडी स्पिनर्स प्रा. लि.
492.	5181	मै. पंजाब शोडी स्प्रीन्स प्रा. लि.
493.	5190	मै. थाय फार्मास्यूटिकल प्रा. लि.
494.	5193	मै. संजीव फाइबर प्रा. लि.
495.	5196	मै. भारती मोटर एंड कन्क्र्रीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
496.	5197	मै. शांति निकेतन प्रा. लि.
497.	5200	मै. सिमला ट्रेवल्स इंडिया प्रा. लि.
498.	5201	मै. फौरचून प्लास्ट प्रा. लि.

1	2	3
499.	5203	मै. डोनारा हाअसिंग एंड कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.
500.	5205	मै. ओमी कैमिकल प्रा. लि.
501.	5210	मै. युनाईटेड स्टेप्स प्रा. लि.
502.	5212	मै. युनाईटेड फार्मा इंटरनेशनल लि.
503.	5213	मै. सिरमोर पोली जूयूट प्रा. लि.
504.	5215	मै. मोवेल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
505.	5220	मै. समित कैमिकल्स प्रा. लि.
506.	5222	मै. स्टीलवेयर मैनुफैक्चरर्स इंडिया प्रा. लि.
507.	5227	मै. बलमिपा पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
508.	5238	मै. चंडीगढ़ फोरजिंग प्रा. लि.
509.	5239	मै. ज्योतिक इलेक्ट्रॉनिक कैपिसाइट्स लि.
510.	5244	मै. बंदिछा सिने आर्ट्स प्रा. लि.
511.	5246	मै. छत्तर कैमिकल्स प्रा. लि.
512.	5247	मै. कथरिया पेपर्स प्रा. लि.
513.	5253	मै. सेहगल फोरजिंग प्रा. लि.
514.	5254	मै. बी.डी. मिचल कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
515.	5255	मै. साहीद सरदार सेवा सिंह प्रा. लि.
516.	5256	मै. लिंक ट्रेवल्स प्रा. लि.
517.	5258	मै. क्राऊन राईस एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
518.	5270	मै. पयूचर इन्फोरमेशन सर्विसेस प्रा. लि.
519.	5272	मै. रशिश ट्रेडिंग कं. लि.
520.	5273	मै. शरद ट्रेडिंग कं. लि.
521.	5274	मै. विशाल फिनिशर्स प्रा. लि.
522.	5282	मै. कंठ इंडिया प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्रा. लि.
523.	5285	मै. मुक्ति कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
524.	5288	मै. एवन सीमेंट इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
525.	5290	मै. शक्ति रोलर फ्लोर एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
526.	5291	मै. मेडीसर्ज प्रा. लि.
527.	5292	मै. फिनिटी एपरेल्स प्रा. लि.
528.	5295	मै. एरा कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.
529.	5302	मै. पंजकैन फास्टेनर्स लि.
530.	5304	मै. शशि सीमेंट प्रा. लि.
531.	5308	मै. इंडियन डाईंग एंड फिनिशिंग मिल्स लि.

1	2	3	1	2	3
532.	5310.	मै. एकीडाईटिड डिटेक्टिवस प्रा. लि.	565.	5412	मै. भारद्वाज मशीनस एंड इलैक्ट्रीकलस प्रा. लि.
533.	5316	मै. जे पी एसोसियेट्स (इंडिया) प्रा. लि.	566.	5413	मै. बी मेहरा एपलायंस एंड इलैक्ट्रीकलस प्रा. लि.
534.	5322	मै. मैन्यूफैक्चरिंग टेक्नोलोजिस (इंडिया) लि.	567.	5415	मै. बी के एंटर प्राइसिस प्रा. लि.
535.	5323	मै. सुरेंद्रा सीमेंट प्रा. लि.	568.	5418	मै. ओ मेक्स ऑटो लि.
536.	5334	मै. जित इंडिया प्रा. लि.	569.	5419	मै. संघु इस्टीच्यूट ऑफ फिसोचायटरी प्रा. लि.
537.	5335	मै. बागा फार्मस्युटिकलस प्रा. लि.	570.	5422	मै. ट्रिपल्स टैक्सटाइल प्रा. लि.
538.	5342	मै. इंगल फीड्स प्रा. लि.	571.	5423	मै. एम एच फोरजिंगस प्रा. लि.
539.	5345	मै. क्वालिटी सीड्स कम्पनी प्रा. लि.	572.	5434	मै. तुली कनस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.
540.	5347	मै. किरन टैक्सटाइल इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	573.	5435	मै. साई-बा फाऊंडरी प्रा. लि.
541.	5352	मै. पंजाब ग्लास वर्क्स प्रा. लि.	574.	5436	मै. बसी लैबोरीस प्रा. लि.
542.	5354	मै. कोस एंड वैबरौनी फार्मस्युटिकल प्रा. लि.	575.	5439	मै. अनील वैवरस प्रा. लि.
543.	5355	मै. गरेवाल इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	576.	5442	मै. वाई पी एसोसियेट्स प्रा. लि.
544.	5356	मै. मंडर मैकेनिकल वर्क्स प्रा. लि.	577.	5450	मै. डायमिक डैट सर्विस प्रा. लि.
545.	5357	मै. हर-जैस प्रा. लि.	578.	5455	मै. इम्बरोशिया आयलस प्रा. लि.
546.	5360	मै. युनाइसिन टैकस्टाइल प्रा. लि.	579.	5456	मै. सीकोए मार्केटियरस प्रा. लि.
547.	5361	मै. रितुराज कैमिकलस एंड फर्टीलाइजर प्रा. लि.	580.	5457	मै. डीसनस ऑयल इंडस्ट्रीस प्रा. लि.
548.	5363	मै. स्ट्रेसकोन बिल्डरस इंडिया प्रा. लि.	581.	5460	मै. भागुं कनस्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.
549.	5373	मै. अमृतसर बॉम्बे कैरियरस प्रा. लि.	582.	5461	मै. भागुं एंटर प्राइसिस लि.
550.	5374	मै. सनशाईन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	583.	5470	मै. पंजाब फोस्फेट प्रा. लि.
551.	5382	मै. डायनमिक वेनचर प्रा. लि.	584.	5475	मै. चावला मैकनाइस्ट किलन प्रा. लि.
552.	5383	मै. जनदोरिया ब्रिक्स कलीन इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	585.	5476	मै. मुनक बिल्डरस प्रा. लि.
553.	5386	मै. श्री साई बाबा इंजीनियरस एंड फार्मस प्रा. लि.	586.	5487	मै. सरवन थियेटर प्रा. लि.
554.	5387	मै. क्वालिटी एंटर प्राइसिस प्रा. लि.	587.	5490	मै. आदर्श लोक ट्रेड लिंकस प्रा. लि.
555.	5388	मै. सोना एंटर प्राइसिस प्रा. लि.	588.	5497	मै. दीपस स्पेशल स्टील्स लि.
556.	5390	मै. पंजाब पालाईवुड प्रा. लि.	589.	5500	मै. न्यू वर्ल्ड ट्रेडिंग एंड सर्विसस प्रा. लि.
557.	5391	मै. गौरव मल्टी इनसंटेक्स प्रा. लि.	590.	5511	मै. किटको इंडिया प्रा. लि.
558.	5392	मै. वैद्या एसोसियेट्स प्रा. लि.	591.	5515	मै. इंडियन फार्मस्युटिकलस प्रा. लि.
559.	5396	मै. दीपक एंटर प्राइसिस प्रा. लि.	592.	5517	मै. हवेलीराम बंसीलाल प्रा. लि.
560.	5405	मै. हरवीर ट्रेवल कनसलटेंटस प्रा. लि.	593.	5521	मै. डरबाय एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
561.	5406	मै. के पेपर प्रा. लि.	594.	5522	मै. एच जी अरोरा राईस एंड जनरल मिल्स प्रा. लि.
562.	5407	मै. महारानी पोलीटरी ब्रीडिंग फार्मस प्रा. लि.	595.	5527	मै. बी टी पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
563.	5408	मै. एसोसियेटेड कम्प्युटर प्रा. लि.	596.	5534	मै. पुरेवाल एक्स-आर्मी बस सर्विस प्रा. लि.
564.	5410	मै. कुमार इलैक्ट्रो स्टेमिंगस प्रा. लि.	597.	5538	मै. सुमेक इंजीनियरिंग प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
598.	5540	मै. जगत इलेक्ट्रॉनिकस कैमिकलस प्रा. लि.	631.	5654	मै. जीवन सिलैडरस प्रा. लि.
599.	5543	मै. मीको प्रा. लि.	632.	5656	मै. सरदार थोटल्स प्रा. लि.
600.	5544	मै. रॉकलैंड रबरस एंड कैमिकलस लि.	633.	5659	मै. अरहित सीमेंट प्रा. लि.
601.	5545	मै. नामा डिसटिलरी प्रा. लि.	634.	5667	मै. दीवान मोटर्स प्रा. लि.
602.	5548	मै. राज इलेक्ट्रॉनिकस प्रा. लि.	635.	5669	मै. यू एस इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
603.	5550	मै. शिवालिक फलोर मिल्स प्रा. लि.	636.	5671	मै. हिम आटे मोबाईल्स प्रा. लि.
604.	5554	मै. नक्क्योति इंजीनियरिंग प्रा. लि.	637.	5672	मै. खेरा ओवरसिस प्रा. लि.
605.	5558	मै. कौनल वियू नर्सिंग होम प्रा. लि.	638.	5673	मै. मॉर्डनस सोल वैक्स प्रा. लि.
606.	5559	मै. कुलदीप इंडस्ट्रियल कं. प्रा. लि.	639.	5674	मै. के. डी. जियस प्रा. लि.
607.	5561	मै. गोविंदगढ़ स्टील प्रा. लि.	640.	5675	मै. नयर चूलन इंडिया प्रा. लि.
608.	5572	मै. अजीत इंटरनैशनलस प्रा. लि.	641.	5676	मै. महावीर ब्रिक्स प्रा. लि.
609.	5577	मै. सिल्वर सपोर्ट्स प्रा. लि.	642.	5683	मै. हिमाचल रबर्स मिल्स प्रा. लि.
610.	5580	मै. मैगनम फास्टीवरस प्रा. लि.	643.	5685	मै. सी एस ए एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
611.	5581	मै. भाजौली एंटर प्राइसिस प्रा. लि.	644.	5689	मै. चंडीगढ़ इस्टेट्स डिवेलपमेंट कं. प्रा. लि.
612.	5582	मै. गलोप गैलाटाईनस प्रा. लि.	645.	5691	मै. आदित्य एसोसिएट्स प्रा. लि.
613.	5585	मै. आर एम कनटेनरस प्रा. लि.	646.	5696	मै. विजेता एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
614.	5586	मै. एस आर स्टीलस प्रा. लि.	647.	5715	मै. विक्रान्त सर्जिकल कॉटन प्रा. लि.
615.	5587	मै. टी. एस इंजीनियरिंग प्रा. लि.	648.	5723	मै. भंडारी कैमिकल्स प्रा. लि.
616.	5588	मै. कैपरी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लि.	649.	5728	मै. मोनटरी कैमिकल्स प्रा. लि.
617.	5599	मै. पंजाब फार्मा इम्युनिटी प्रा. लि.	650.	5731	मै. श्री गोविंद (इंडिया) प्रा. लि.
618.	5602	मै. राजेन्द्रा सीमेंट इंडस्ट्रीस प्रा. लि.	651.	5734	मै. हिम माईन्स प्रा. लि.
619.	5608	मै. क्यूरेक्स लैबोरेटरीस प्रा. लि.	652.	5735	मै. हिमालयन फूटहिल्स सीमेंट प्रा. लि.
620.	5615	मै. कुमार सेलस एंड सर्विस प्रा. लि.	653.	5738	मै. रामसन सैरेमिक्स प्रा. लि.
621.	5616	मै. वर्धमान एलोयस एंड स्टील प्रा. लि.	654.	5745	मै. बी. वी. आर. फूड प्रोडक्स प्रा. लि.
622.	5617	मै. पी एस टी ब्रूलवैस प्रा. लि.	655.	5747	मै. हिमाचल सेल्स प्रा. लि.
623.	5624	मै. शिराज एक्सपोर्ट प्रा. लि.	656.	5748	मै. मोनक्यू एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
624.	5633	मै. हिमानी ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकलस प्रा. लि.	657.	5750	मै. राजपाल एंड सन्स प्रा. लि.
625.	5634	मै. परम कम्यूयटरस प्रा. लि.	658.	5752	मै. आर. के. मार्केटिंग प्रा. लि.
626.	5635	मै. बी एंड बी सीमेंट वर्क्स प्रा. लि.	659.	5754	मै. विमला पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
627.	5638	मै. हिमाचल बोटल लि.	660.	5758	मै. यूनाइटेड एल पी जी गीलैडर्स प्रा. लि.
628.	5640	मै. उपकार होटल एंड एपार्टमेंट प्रा. लि.	661.	5760	मै. प्रगति इंडस्ट्रीयल मोटर्स प्रा. लि.
629.	5649	मै. जोधपुर ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.	662.	5770	मै. हिम एक्सट्रेक्शन प्रा. लि.
630.	5653	मै. होटल हिल्स इट्स प्रा. लि.	663.	5771	मै. कल्याणी कार्बन्स प्रा. लि.

1	2	3
664.	5772	मै. हिमाचल रिभिडिस प्रा. लि.
665.	5774	मै. लालजी इमपैक्स प्रा. लि.
666.	5779	मै. बीरिस कन्स्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रा. लि.
667.	5782	मै. हाईलैंड फूड्स प्रा. लि.
668.	5785	मै. बी. पी. इंटरनेशनल प्रा. लि.
669.	5790	मै. त्रिवेणी टूल्स प्रा. लि.
670.	5791	मै. बेलट्रान एपलाईस प्रा. लि.
671.	5797	मै. गोल्डन स्टार इंटरनेशनल प्रा. लि.
672.	5805	मै. लक्ष्मी लैदर्स प्रा. लि.
673.	5807	मै. तेग कैमिकल्स प्रा. लि.
674.	5808	मै. परव कैमिकल्स प्रा. लि.
675.	5809	मै. अंबर ट्रेवल सर्विस प्रा. लि.
676.	5811	मै. लक्ष्मी कलार प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
677.	5816	मै. एस के बी बिल्डर्स एंड फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
678.	5830	मै. लुधियाना कम्प्यूटर एंड मैनेजमेंट कन्सल्टेंट प्रा. लि.
679.	5832	मै. कनवेयर चेंस कं. प्रा. लि.
680.	5835	मै. सतलुज ब्रिक्स प्रा. लि.
681.	5838	मै. सैड्स अवेशन इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि.
682.	5840	मै. दुर्गा ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
683.	5843	मै. आइएफको फीड मिल्स प्रा. लि.
684.	5846	मै. यूनाईटेड मिडिया इंडिया प्रा. लि.
685.	5847	मै. हिमाचल फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
686.	5857	मै. श्री गौतम स्पीनिंग एंड बिबिंग मिल्स प्रा. लि.
687.	5858	मै. ब्रलूम कैप जैल इंडिया लि.
688.	5863	मै. वर्धमान इंजीनियर्स प्रा. लि.
689.	5869	मै. करतार एग्नो मिल्स प्रा. लि.
690.	5871	मै. रेनुका फुटवेयरस प्रा. लि.
691.	5872	मै. मीरज़ कन्डक्टर्स प्रा. लि.
692.	5874	मै. हिंदमूर्ति फरनेसाईट प्रा. लि.
693.	5876	मै. अमर कम्प्यूकेशन्स प्रा. लि.
694.	5880	मै. संधू ऑटोस प्रा. लि.
695.	5881	मै. सर्वी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
696.	5884	मै. रबकैम इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
697.	5887	मै. मैक्स मैगनेट्स प्रा. लि.
698.	5890	मै. हिमकैम सिनटैक्स प्रा. लि.
699.	5891	मै. एक्वा चुमैंड प्रा. लि.
700.	5892	मै. हिम स्टार टयूरिस्म प्रा. लि.
701.	5895	मै. के. एल. स्टील्स प्रा. लि.
702.	5900	मै. विशाल फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
703.	5908	मै. कल्पना एसोसिएट्स प्रा. लि.
704.	5917	मै. पैनासिया ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
705.	5924	मै. ओंकार बिल्डर्स प्रा. लि.
706.	5931	मै. फार्म टेक्नीक्स (इंडिया) प्रा. लि.
707.	5935	मै. ओंकार सिस्टम्स प्रा. लि.
708.	5936	मै. ट्रांस ओरियंट ट्रेवल्स प्रा. लि.
709.	5937	मै. ट्रिपल लाईफ कॉर्पोरेशन प्रा. लि.
710.	5940	मै. पाल सीमेंट प्रा. लि.
711.	5941	मै. आर के एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
712.	5942	मै. प्रिया कैमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र प्रा. लि.
713.	5945	मै. एवेरेस्ट गैलायईन्स प्रा. लि.
714.	5947	मै. वरींद्र बस सर्विस प्रा. लि.
715.	5956	मै. पंजाब फोटो सर्किट प्रा. लि.
716.	5958	मै. पुष्प एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
717.	5964	मै. ईस्टमैन रबर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
718.	5974	मै. एस आर डी ट्रेवल एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
719.	5977	मै. कपूर सन्स प्रा. लि.
720.	5982	मै. श्री विष्णु पेपर एंड बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
721.	5983	मै. आर. बी. मेटल्स प्रा. लि.
722.	5985	मै. रिशी लग्स प्रा. लि.
723.	5990	मै. एलाईड फेब इंजीनियर प्रा. लि.
724.	5995	मै. संसारपुर वूलन टेक्स्टाइल मिल्स प्रा. लि.
725.	6000	मै. जोशी होटल प्रा. लि.
726.	6008	मै. हिमाचल कौल एडुकिंग प्रा. लि.
727.	6012	मै. एन. के. एलायस एंड स्टील्स प्रा. लि.
728.	6016	मै. मैरी एंड क्यो ड्रग्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
729.	6018	मै. शिवालिक स्प्रिंग्स प्रा. लि.	762.	6155	मै. मारकंडा कैमिकल्स प्रा. लि.
730.	6021	मै. ग्रैजुएट बस सर्विस प्रा. लि.	763.	6157	मै. लुधियाना रबर एण्ड हार्ड बोर्ड मिल्स प्रा. लि.
731.	6022	मै. मैग्नम इंडिया प्रा. लि.	764.	6158	मै. हरभजन प्रोपर्टी डीलर्स प्रा. लि.
732.	6026	मै. वाधवा फार्माकैम प्रा. लि.	765.	6177	मै. पूना पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
733.	6027	मै. हिमालय ग्लास इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	766.	6178	मै. आनन्द शिंदर प्रा. लि.
734.	6030	मै. एस के एस फ्यूल्स प्रा. लि.	767.	6179	मै. हेमकुण्ड मैटल्स प्रा. लि.
735.	6036	मै. अमृतसर राईस मिल्स प्रा. लि.	768.	6182	मै. शक्ति पैट्रोकेम प्रा. लि.
736.	6040	मै. त्रिमूर्ति कन्स्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग कं. प्रा. लि.	769.	6183	मै. मात्रा प्रा. लि.
737.	6048	मै. सरूप बिल्डर्स प्रा. लि.	770.	6185	मै. राम बाबू सिंगल इन्टरप्राइजेज़ प्रा. लि.
738.	6049	मै. वी यंत्राकर प्रा. लि.	771.	6187	मै. चड्ढा एसोसिएट्स प्रा. लि.
739.	6053	मै. सोहनलाल शेखर कुमार प्रा. लि.	772.	6192	मै. वरिन्द्र एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
740.	6054	मै. पीडीको वैल्विंग एंड इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	773.	6196	मै. आरबिड्स इंस प्रा. लि.
741.	6062	मै. सिंह इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	774.	6201	मै. आशोका गालवोयर्स प्रा. लि.
742.	6068	मै. चेतक इंडिया प्रा. लि.	775.	6209	मै. शिवालिक पाईप इंजीनियरिंग प्रा. लि.
743.	6069	मै. बोह ट्रान्सपोर्ट कं. प्रा. लि.	776.	6211	मै. कमला प्लास्टिकस प्रा. लि.
744.	6071	मै. टीना रेडियाटर्स प्रा. लि.	777.	6217	मै. एन बी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
745.	6086	मै. पंजाब एल्यूमीनियम कं. प्रा. लि.	778.	6218	मै. डालफीन फॉयर इक्विपमेंट प्रा. लि.
746.	6090	मै. हरबंस सिंह तुली एंड सन्स बिल्डर्स प्रा. लि.	779.	6219	मै. जी. अमर इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
747.	6091	मै. डिनकुम पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	780.	6226	मै. विशाल फोण्डी एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
748.	6092	मै. पंजाब रबर टैक प्रा. लि.	781.	6229	मै. सिवक इंडिया प्रा. लि.
749.	6097	मै. पूनम स्पीनिंग एंड क्विनिंग मिल्स प्रा. लि.	782.	6230	मै. दिल्ली पंजाब गंगा नगर कैरियर्स प्रा. लि.
750.	6098	मै. गुरदीप पोली पैक्स प्रा. लि.	783.	6231	मै. अल्ट्रा मैक्स बायो-मेडीकल्स प्रा. लि.
751.	6101	मै. फैनटम स्टेशनरी एंड्स प्रा. लि.	784.	6233	मै. जर्मनी फेब्रिक्स प्रा. लि.
752.	6107	मै. कुनाल प्रैसिडियन्स प्रा. लि.	785.	6234	मै. क्रोनक्स फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
753.	6111	मै. बाजवा इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट प्रा. लि.	786.	6240	मै. अंकर रबर्स प्रा. लि.
754.	6114	मै. विजय कलर लेब प्रा. लि.	787.	6248	मै. संतोषा फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
755.	6129	मै. साईम कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.	788.	6249	मै. पंजाब कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रा. लि.
756.	6132	मै. जीवा स्पोर्ट्स प्रा. लि.	789.	6250	मै. वायरस कल्ब प्रा. लि.
757.	6135	मै. यूनीवर्सल पोलीफेब्रिक्स प्रा. लि.	790.	6256	मै. हिम शिवा प्लास्टिक्स प्रा. लि.
758.	6142	मै. गाता बस सर्विस प्रा. लि.	791.	6259	मै. महालक्ष्मी रिफ्रेक्टर्स प्रा. लि.
759.	6143	मै. चेत राम स्टील्स एण्ड लाइस कास्टिंग प्रा. लि.	792.	6264	मै. पंजाब एनर्जी सर्विसेस प्रा. लि.
760.	6145	मै. निधि पब्लिक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	793.	6271	मै. आनन्द पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
761.	6154	मै. भद्रिया सीमेन्ट इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	794.	6273	मै. तुलिप एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
795.	6274	मैसर्स डीएमबी कम्प्यूटर इंटरफेस टेक्नोलॉजिज़ प्रा. लि.	823.	6397	मैसर्स फ्रेण्ड्स पैक वेल प्रा. लि.
796.	6284	मैसर्स हिमालयन एडवेन्चर्स प्रा. लि.	824.	6399	मैसर्स श्री वृंदावन सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
797.	6300	मैसर्स गोल्डन एग्रोफीड्स प्रा. लि.	825.	6403	मैसर्स हिमाचल ल्यूब्रीकेन्ट्स एण्ड कैमीकल्स प्रा. लि.
798.	6301	मैसर्स जोशी फूड्स प्रा. लि.	826.	6406	मैसर्स हिम इलैक्टोराइस प्रा. लि.
799.	6306	मैसर्स कैलाश फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	827.	6407	मैसर्स गोयल टेलीविज़न प्रा. लि.
800.	6308	मैसर्स बुध एण्ड सुध इंटर प्राइज़िज़ प्रा. लि.	828.	6408	मैसर्स चंदा मुवीज़ा प्रा. लि.
801.	6309	मैसर्स साँहनी बिल्डर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	829.	6427	मैसर्स एशिया स्पिनर्स प्रा. लि.
802.	6311	मैसर्स पंजाब ग्लास एण्ड एलायड इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	830.	6431	मैसर्स स्टॉफ ट्यूब्स प्रा. लि.
803.	6320	मैसर्स अनुपम एजेन्सीज़ प्रा. लि.	831.	6433	मैसर्स गोतम पोली इंटरप्राइज़िज़ लि.
804.	6321	मैसर्स सतलुज हेरीज प्रा. लि.	832.	6449	मैसर्स कैलाश फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
805.	6336	मैसर्स प्रीमीयर फ्लोरिंग टायल्स प्रा. लि.	833.	6453	मैसर्स अमर प्रोसेसर्स प्रा. लि.
806.	6342	मैसर्स मस्त बहार स्पाइसिस प्रा. लि.	834.	6455	मैसर्स पर्ल टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.
807.	6343	मैसर्स किसान फाइबर्स लि.	835.	6457	मैसर्स राधा इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
808.	6348	मैसर्स एम डी निपोन केमीकल्स प्रा. लि.	836.	6462	मैसर्स मौरस टेक्सटाइल्स मिल्स प्रा. लि.
809.	6349	मैसर्स पुष्कर बुलन्स प्रा. लि.	837.	6466	मैसर्स जसवंत इंडस्ट्रीयल्ज़ कम्पनी प्रा. लि.
810.	6350	मैसर्स हरभजन सिंह एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	838.	6468	मैसर्स युनाईटेड पोलीप्लास्ट्स प्रा. लि.
811.	6352	मैसर्स हिमसन्स प्रा. लि.	839.	6469	मैसर्स पंजाब इम्पैक्स प्रा. लि.
812.	6353	मैसर्स पॉ इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	840.	6474	मैसर्स बी.एन. गुप्ता एण्टरप्राइजेज़ लि.
813.	6358	मैसर्स शिवालिक केमीकल्स एण्ड एलायड्स इंडस्ट्रीज़ प्रा. लि.	841.	6475	मैसर्स इन्डार्इन कावीलीर्यस कोपीयर प्रा. लि.
814.	6359	मैसर्स आर.के. गोयल एण्ड सन्स प्रा. लि.	842.	6481	मैसर्स एमटैक ऑटो लि.
815.	6366	मैसर्स बिन्दल एक्सट्रोसियन प्रा. लि.	843.	6487	मैसर्स यूनाईटेड हाईवेज़ प्रा. लि.
816.	6376	मैसर्स पल्वी टाईप फोण्डरी प्रा. लि.	844.	6488	मैसर्स रोकशायर होटल्स प्रा. लि.
817.	6379	मैसर्स मल्होत्रा बिल्डर्स प्रा. लि.	845.	6490	मैसर्स हिन्द एलोएज एण्ड डाई कास्टिंग प्रा. लि.
818.	6382	मैसर्स दीवान एस्टेट एजेन्ट्स प्रा. लि.	846.	6501	मैसर्स किशन सिंह एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
819.	6388	मैसर्स इन्डो एशियन इलैक्ट्रीकल्स प्रा. लि.	847.	6503	मैसर्स साईसहाय इण्डिया लि.
820.	6390	मैसर्स एस्टेट्स ऑटो प्रोजेक्ट्स इंडस्ट्रीयल प्रा. लि.	848.	6504	मैसर्स नाम कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
821.	6391	मैसर्स फ्लोरा फोटोस प्रा. लि.	849.	6505	मैसर्स एवरेस्ट ऑटो रोडवयर्स लि.
822.	6392	मैसर्स पंजाब ग्रासकेट्स प्रा. लि.	850.	6510	मैसर्स फाईव स्टार पोली प्लास्ट प्रा. लि.

1	2	3
851.	6511	मैसर्स अम्बे एलाय एण्ड स्टील्स प्रा. लि.
852.	6512	मैसर्स आयंगर कोसटोरियम प्रा. लि.
853.	6525	मैसर्स अरियन्टल डाइंग प्रा. लि.
854.	6526	मैसर्स ओसनिय कन्स्ट्रक्शन डिवलपमेंट प्रा. लि.
855.	6527	मैसर्स प्रिंस साईकल्स प्रा. लि.
856.	6530	मैसर्स हिमाचल कान-कास्ट प्रा. लि.
857.	6533	मैसर्स इण्डियन कैप्सल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
858.	6535	मैसर्स परमार कार्म प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
859.	6536	मैसर्स रीजेन्सी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
860.	6543	मैसर्स शक्ति पोलीलंब इन्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
861.	6544	मैसर्स ओरियन्ट ग्रोथ फंड प्रा. लि.
862.	6545	मैसर्स वी. के. ग्लास वर्क्स प्रा. लि.
863.	6549	मैसर्स कुलदीप ग्लास प्रा. लि.
864.	6550	मैसर्स राधा प्रिंट्स एण्ड प्रोसेस प्रा. लि.
865.	6555	मैसर्स रामसन्स ग्रामीण उद्योग प्रा. लि.
866.	6557	मैसर्स एम एण्ड एम कन्सल्टेन्सी प्रा. लि.
867.	6559	मैसर्स शिरडी स्पिन्स प्रा. लि.
868.	6562	मैसर्स हिमाचल इंजीनियर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
869.	6566	मैसर्स जूम इलैक्ट्रॉनिक्स इण्डिया प्रा. लि.
870.	6570	मैसर्स शक्ति स्टेशनरी मर्चेन्ट्स प्रा. लि.
871.	6576	मैसर्स यूनाइटेड निटर्स प्रा. लि.
872.	6577	मैसर्स क्यूरिक ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
873.	6578	मैसर्स फरन्टीयर कान्ट्रेक्टर्स एण्ड कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
874.	6579	मैसर्स सुपरीम कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
875.	6581	मैसर्स गुरूनानक इलैक्ट्रीकल इण्डस्ट्रीज़ प्रा. लि.
876.	6582	मैसर्स सिगला कास्टिंग प्रा. लि.
877.	6585	मैसर्स पाईनियर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
878.	6586	मैसर्स राजिन्द्रा पैट्रोफोम प्रा. लि.
879.	6587	मैसर्स कपूरसन्स प्रिंटर्स एण्ड कन्टेनर्स प्रा. लि.
880.	6590	मैसर्स चीनस मेडीकामेन्ट प्रा. लि.

1	2	3
881.	6602	मैसर्स पिकाडली होलीडे रिसोर्ट्स लि.
882.	6603	मैसर्स सी. वी. एनजी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
883.	6609	मैसर्स एच. ऐ. टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
884.	6610	मैसर्स रोहिताशव फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
885.	6612	मैसर्स प्रकाश कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड
886.	6615	मैसर्स ऐक्वेस्ट कार्बनस प्राईवेट लिमिटेड
887.	6616	मैसर्स श्री अम्बिका स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड
888.	6617	मैसर्स तारक वूल कोम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड
889.	6620	मैसर्स पंजाब आयल्स एण्ड जनरल एग्री प्राईवेट लिमिटेड
890.	6631	मैसर्स एच. एस. ट्रेक्लस प्राईवेट लिमिटेड
891.	6632	मैसर्स कमला स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
892.	6634	मैसर्स टी.सी. फौरो कास्ट प्राईवेट लिमिटेड
893.	6639	मैसर्स मलहोत्रा वसेटिड स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
894.	6640	मैसर्स योगेश डाईस कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड
895.	6641	मैसर्स आर के एलोएयज प्राईवेट लिमिटेड
896.	6644	मैसर्स एक्वरीन इलैक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
897.	6646	मैसर्स मालवा ट्रेवल एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड
898.	6650	मैसर्स हिमाचल इन्टरलिंक्स टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड
899.	6651	मैसर्स हिमाचल एसेम्बलीज टेक्नोलोजी प्राईवेट लिमिटेड
900.	6656	मैसर्स कपूरसिपनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
901.	6663	मैसर्स गोबिन्द वाल रेक्सीन प्राईवेट लिमिटेड
902.	6666	मैसर्स शिवा फूड्स प्राईवेट लिमिटेड
903.	6667	मैसर्स यूनीक फोम प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
904.	6670	मैसर्स हमता व्यू रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
905.	6676	मैसर्स यूनीक सेल्स एण्ड सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
906.	6677	मैसर्स बी.एस.एच. ऐसिड्स प्राईवेट लिमिटेड
907.	6682	मैसर्स यूनीक टूब्स प्राईवेट लिमिटेड
908.	6683	मैसर्स महावीर टायर्स प्राईवेट लिमिटेड
909.	6689	मैसर्स खन्ना रोड लाईन्स प्राईवेट लिमिटेड
910.	6690	मैसर्स खन्ना वैक्स प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
911.	6691	मैसर्स महिलपुर रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड	939.	6804	मैसर्स यूनाईटेड इण्डिया लैंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
912.	6693	मैसर्स प्रीत प्रोसेसिंग इन्डस्ट्रीस प्राईवेट लिमिटेड	940.	6806	मैसर्स एसोसिएटेड अमन कारियर्स प्राईवेट लिमिटेड
913.	6695	मैसर्स प्रिया प्रोपर्टीस प्राईवेट लिमिटेड	941.	6808	मैसर्स व्यास रैडीएटर्स प्राईवेट लिमिटेड
914.	6699	मैसर्स लियो फार्मास्यूटिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	942.	6813	मैसर्स सिंह ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
915.	6701	मैसर्स प्रीत पैलेस होटल्स एण्ड रेस्टोरन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	943.	6817	मैसर्स मालवा बोटलिंग प्राईवेट लिमिटेड
916.	6702	मैसर्स एलकोन इन्डिया प्राईवेट लिमिटेड	944.	6821	मैसर्स एम.के. लैदर बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
917.	6714	मैसर्स जॉडियाला वूलन सिपनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	945.	6822	मैसर्स सलेच सेल्फ एक्टिंग डिवाइसिस प्राईवेट लिमिटेड
918.	6717	मैसर्स एडीडोन थर्माप्लास्ट्स लिमिटेड	946.	6825	मैसर्स इन्डियन एग्रो कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
919.	6719	मैसर्स पंजाब जूसी फूट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	947.	6837	मैसर्स चीमा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
920.	6722	मैसर्स सोभाग्या कार्मशियल प्राईवेट लिमिटेड	948.	6838	मैसर्स हिमाचल लेबोरेट्रीस लिमिटेड
921.	6726	मैसर्स कोसमोस सिपनिंग लिमिटेड	949.	6842	मैसर्स सिरमौर पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड
922.	6741	मैसर्स पंजाब पेट्रो फेब्रिक्स लिमिटेड	950.	6845	मैसर्स गेलेक्सी कम्प्यूटर सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड
923.	6742	मैसर्स शुभ रबर प्राईवेट लिमिटेड	951.	6846	मैसर्स हरजी फाईबर्स पंजाब लिमिटेड
924.	6745	मैसर्स सुपर स्टैंडर्ड्स प्रिंटिंग मशीनरीस प्राईवेट लिमिटेड	952.	6847	मैसर्स अमर कास्टिंग्स प्राईवेट लिमिटेड
925.	6746	मैसर्स चन्डीगढ़ फीड मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	953.	6853	मैसर्स रवीन भारती लैंड डेवलपमेंट एण्ड फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड
926.	6747	मैसर्स इण्डियन मल्टीटेक सिस्टमस प्राईवेट लिमिटेड	954.	6867	मैसर्स माओ एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
927.	6755	मैसर्स आर टी एस इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	955.	6869	मैसर्स हाईवे पोलट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड
928.	6761	मैसर्स हाईटेक ब्रिजस प्राईवेट लिमिटेड	956.	6871	मैसर्स विर्क स्टोन क्वैरी प्राईवेट लिमिटेड
929.	6762	मैसर्स रोसीयला प्लासटो प्राईवेट लिमिटेड	957.	6872	मैसर्स मैसर्स सरस्वती एग्री कैम प्लांट्स प्राईवेट लिमिटेड
930.	6763	मैसर्स अटवाल सिपनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	958.	6874	मैसर्स परवीन टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
931.	6765	मैसर्स इन्डियन इन्टेग्रेटेड वाल्वस प्राईवेट लिमिटेड	959.	6875	मैसर्स सन बुड लैमीनेट्स प्राईवेट लिमिटेड
932.	6766	मैसर्स बलवन्त पेपर मोल्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	960.	6876	मैसर्स मोनल सिस्सोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
933.	6768	मैसर्स गनेरीवाला फार्मा रोड्स प्राईवेट लिमिटेड	961.	6878	मैसर्स यूनाईटेड टोय्स प्राईवेट लिमिटेड
934.	6782	मैसर्स सीएलजे पब्लिशर्स लिमिटेड	962.	6879	मैसर्स कोचर कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
935.	6783	मैसर्स बी.वी.एम. डाटा कंट्रोलस प्राईवेट लिमिटेड	963.	6891	मैसर्स के के विक्र टैडर्स प्राईवेट लिमिटेड
936.	6789	मैसर्स सिनसिनवाल्स फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	964.	6892	मैसर्स हिमाचल इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसिस प्राईवेट लिमिटेड
937.	6797	मैसर्स अम्बिका टैलीट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	965.	6894	मैसर्स चिन्तामनी एन्टरप्राइजीज प्राईवेट लिमिटेड
938.	6802	मैसर्स श्री गंगा ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3	1	2	3
966	6895	मैसर्स ओ टी सी कागियो लिमिटेड	998	7000	मैसर्स प्रोग्रेसिव पेपर एण्ड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड
967	6906	मैसर्स एस एस एसिड प्राईवेट लिमिटेड	999	7001	मैसर्स क्लासिक गारमैन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
968	6907	मैसर्स रीजेन्टर बर्स प्राईवेट लिमिटेड	1000	7002	मैसर्स हिम माइक्रो मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड
969	6914	मैसर्स मैक्स पोली पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	1001	7008	मैसर्स पंजाब एग्रो मिल्स स्पेशलिटीस प्राईवेट लिमिटेड
970	6919	मैसर्स ऐ.बी. एलोएज एण्ड स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	1002	7010	मैसर्स भोला कार्बाइड्स प्राईवेट लिमिटेड
971	6921	मैसर्स एस एस फर्टिलाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	1003	7012	मैसर्स स्काईवेज रबर्स प्राईवेट लिमिटेड
972	6925	मैसर्स शिवा सैरामिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1004	7013	मैसर्स खन्ना एग्रो प्राईवेट लिमिटेड
973	6926	मैसर्स डी बी एस कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1005	7018	मैसर्स चाहल फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
974	6928	मैसर्स हिम ग्री स्कवेयर प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1006	7019	मैसर्स ग्लोब मार्केटींग प्राईवेट लिमिटेड
975	6930	मैसर्स होली सिटी ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	1007	7020	मैसर्स भागूसफार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
976	6932	मैसर्स जैमनी एनर्जी प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1008	7022	मैसर्स कमल नाईट्रो सलोलोस प्राईवेट लिमिटेड
977	6937	मैसर्स हिमाचल फूड्स लिमिटेड	1009	7032	मैसर्स रतन ज्योती ओवरसीस प्राईवेट लिमिटेड
978	6939	मैसर्स मोहाली कारपेट्स प्राईवेट लिमिटेड	1010	7033	मैसर्स पालसन्स आटो इन्डस्ट्रीस (पंजाब) प्राईवेट लिमिटेड
979	6942	मैसर्स एलीना फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1011	7035	मैसर्स सुखीजा कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
980	6945	मैसर्स दशमेश वूनस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1012	7036	मैसर्स भोगा एम्प्लिफायर्स प्राईवेट लिमिटेड
981	6947	मैसर्स हिमप्लाश बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	1013	7038	मैसर्स स्वास्तिक रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
982	6954	मैसर्स अकाल गैसिस एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1014	7040	मैसर्स ऐडविड ड्रम्स प्राईवेट लिमिटेड
983	6955	मैसर्स एम.एस. अर्थमूवींग इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	1015	7042	मैसर्स अंग्रेज बस सर्विस प्राईवेट लिमिटेड
984	6956	मैसर्स कैरीस कन्स्ट्रक्शन इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	1016	7044	मैसर्स अजन्ता ग्रैड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
985	6958	मैसर्स रैड रोज फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1017	7046	मैसर्स अरशिव लेनोरेट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
986	6960	मैसर्स फेयर डील स्पार्डिसिस एण्ड फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	1018	7049	मैसर्स दीपसंग फार्मास्यूटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड
987	6963	मैसर्स संदीप होटल प्राईवेट लिमिटेड	1019	7050	मैसर्स जयसिंह इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
988	6971	मैसर्स ओ लाईनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1020	7051	मैसर्स ए.आर. एम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
989	6972	मैसर्स पंजाब एगो टेक्स प्राईवेट लिमिटेड	1021	7056	मैसर्स शूकून इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
990	6977	मैसर्स बंसल इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1022	7059	मैसर्स टकनीका ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
991	6980	मैसर्स संदीप फोर्जिंग प्राईवेट लिमिटेड	1023	7063	मैसर्स प्राईम फ्यूल एन्ड गैस प्राईवेट लिमिटेड
992	6981	मैसर्स हैन्सनज कार्मिगियल प्राईवेट लिमिटेड	1024	7064	समाना रैफ्रेकट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
993	6990	मैसर्स बराड़विक रबर्स प्राईवेट लिमिटेड	1025	7066	मैसर्स एस पी सोबती एण्ड सन्ज प्राईवेट लिमिटेड
994	6991	मैसर्स यूनोक हौजरी सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड	1026	7067	मैसर्स नीलम वनस्पती मिल्स लिमिटेड
995	6993	मैसर्स जूम टवायस प्राईवेट लिमिटेड	1027	7068	मैसर्स सुरेश रोलर एण्ड फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
996	6996	मैसर्स प्रिन्स कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड	1028	7069	मैसर्स हीमैन फोर्जिंगस प्राईवेट लिमिटेड
997	6998	मैसर्स अनिल रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1029	7070	मैसर्स वालिया ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
			1030	7074	मैसर्स हिन्दुस्तान कैक्सकोम रिस्टनस लिमिटेड
			1031	7077	मैसर्स हेमकुन्त प्लास्टिक्स एण्ड कैमीकल्स प्राईवेट लिमिटेड
			1032	7078	मैसर्स संगरूर होटल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
1033	7079	मैसर्स रामसन्स मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	1066	7167	मैसर्स शिवा ट्रांसफार्मर्स प्रा. लि.
1034	7081	मैसर्स एस एस पल्प प्राईवेट लिमिटेड	1067	7176	मैसर्स गोल्डन लेदर्स प्रा. लि.
1035	7086	मैसर्स सगगी स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	1068	7177	मैसर्स गर्ग एयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1036	7087	मैसर्स जगन शूज प्राईवेट लिमिटेड	1069	7188	मैसर्स पार्वती कैमिकल्स प्रा. लि.
1037	7088	मैसर्स टिवाना ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	1070	7189	मैसर्स ए बी पी डाटा मीडिया एसोसीएट्स प्रा. लि.
1038	7091	मैसर्स टार्जन वीडियो कैसेट प्राईवेट लिमिटेड	1071	7190	मैसर्स वर्धमान सनैक फूड्स लि.
1039	7099	मैसर्स प्रगति टावर्स प्राईवेट लिमिटेड	1072	7191	मैसर्स राणा पॉलिमर्स प्रा. लि.
1040	7100	मैसर्स रहीनो केन्टेनर्स प्राईवेट लिमिटेड	1073	7192	मैसर्स शिव सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
1041	7101	मैसर्स हरजिन्द्रा सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	1074	7196	मैसर्स संत रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1042	7108	मैसर्स जाको फेब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1075	7198	मैसर्स इलार्ड स्पिनर्स प्रा. लि.
1043	7112	मैसर्स प्रताप फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1076	7200	मैसर्स जी टी वी इंजिनियर्स प्रा. लि.
1044	7117	मैसर्स जे एण्ड के माईक्रो एलोएज एण्ड कास्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	1077	7201	मैसर्स तेग फूड्स प्रा. लि.
1045	7118	मैसर्स टैलीबैल्स इलैक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	1078	7208	मैसर्स मार्टिन फूड्स प्रा. लि.
1046	7120	मैसर्स केन्टीनैटल एग्रेगो मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1079	7210	मैसर्स एशियन टायर्स प्रा. लि.
1047	7124	मैसर्स सतनाम साईकिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1080	7215	मैसर्स सटेन्डर्ड कन्टेनर्स प्रा. लि.
1048	7125	मैसर्स वूलरिच वूलन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1081	7222	मैसर्स गुप्ता कॉनकास्ट प्रा. लि.
1049	7126	मैसर्स गोइंडवाल डाईंग एण्ड प्रिंटिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	1082	7223	मैसर्स लिंकर्स क्लब प्रा. लि.
1050	7127	मैसर्स वशिष्ठ होटल प्रा. लि.	1083	7224	मैसर्स मैनी हैल्थ केयर प्रा. लि.
1051	7128	मैसर्स विशाल सिर्रीअल्स प्रा. लि.	1084	7225	मैसर्स आनंद रोडवेज प्रा. लि.
1052	7134	मैसर्स कैपिटल कम्प्यूटर फॉर्मर्स प्रा. लि.	1085	7227	मैसर्स चण्डीगढ प्रैसटोलैम इंडिया प्रा. लि.
1053	7138	मैसर्स विकास बायर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1086	7232	मैसर्स इ एंड सी कन्सट्रक्शन प्रा. लि.
1054	7140	मैसर्स मोहरटैक्स सिल्क मिल्स प्रा. लि.	1087	7234	मैसर्स दशहरी फ्यूल कम्पनी लि.
1055	7144	मैसर्स पंजाब सैक्स लि.	1088	7238	मैसर्स गोबिंद रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1056	7146	मैसर्स हिमाचल स्विचगिअर्स प्रा. लि.	1089	7241	मैसर्स पुष्कर रिसोर्ट्स लि.
1057	7149	मैसर्स कपूर पैलेस प्रा. लि.	1090	7243	मैसर्स पुनीत रिसोर्ट्स लि.
1058	7152	मैसर्स थापर प्लास्टिक्स प्रा. लि.	1091	7244	मैसर्स एकमी फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1059	7156	मैसर्स समाचार प्रकाशन प्रा. लि.	1092	7247	मैसर्स हिमाचल आटोमोबाइल वर्क्स प्रा. लि.
1060	7157	मैसर्स मठारू इन्जिनियरिंग सर्विस प्रा. लि.	1093	7248	मैसर्स एस के फास्टनर्स लि.
1061	7160	मैसर्स एस बी गेसेस प्रा. लि.	1094	7249	मैसर्स परमजीत बस सर्विस प्रा. लि.
1062	7161	मैसर्स कोहलीसन्स (इंडिया) प्रा. लि.	1095	7250	मैसर्स इंडिया ओटोटेक प्रा. लि.
1063	7162	मैसर्स हाई हैच प्रा. लि.	1096	7253	मैसर्स गर्ग रिफ्रेक्टरीस प्रा. लि.
1064	7163	मैसर्स प्रमेश्वरी फीड मिल्स प्रा. लि.	1097	7254	मैसर्स दीपक कन्टेनर्स प्रा. लि.
1065	7164	मैसर्स अलीवाल रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	1098	7256	मैसर्स जी एम वूलन एण्ड सिल्क मिल्स प्रा. लि.
			1099	7257	मैसर्स शिवालिक पी वी सी केबल्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1100	7266	मैसर्स मंगला एग्री मिल्स प्रा. लि.	1134	7371	मैसर्स आर पी के स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्रा. लि.
1101	7269	मैसर्स नादर्न फ्रैड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	1135	7375	मैसर्स मंकू प्लाई बोर्ड्स प्रा. लि.
1102	7270	मैसर्स नादर्न ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.	1136	7378	मैसर्स सिंहसन्स मैकेनिकल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1103	7271	मैसर्स जैगस शारपैक्स फोटो फिल्मस लि.	1137	7381	मैसर्स जे जे एपलायंसेस प्रा. लि.
1104	7272	मैसर्स भारती लॉक्स प्रा. लि.	1138	7386	मैसर्स ट्रिपल के एजेंसी प्रा. लि.
1105	7279	मैसर्स नसीब एलूमिनियम रोलर्स प्रा. लि.	1139	7391	मैसर्स गुलमर्ग तम्बाकू प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1106	7284	मैसर्स सूर्या फोरजिंग प्रा. लि.	1140	7400	मैसर्स बैन इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1107	7287	मैसर्स टालग्रे कन्सट्रक्शन्स इंडिया प्रा. लि.	1141	7401	मैसर्स जिन सिन यार्न्स प्रा. लि.
1108	7289	मैसर्स स्ट्रोंग लिंक्स प्रा. लि.	1142	7410	मैसर्स एनीसेन फास्टनर्स प्रा. लि.
1109	7290	मैसर्स इंटरकांटीनैटल डैरी प्राडक्ट्स प्रा. लि.	1143	7412	मैसर्स बी एल एस एन डी कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
1110	7291	मैसर्स चोरटेक्स फार्मास्यूटिकल प्रा. लि.	1144	7413	मैसर्स कृष्णा डेवाइसेस प्रा. लि.
1111	7295	मैसर्स एकता ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	1145	7414	मैसर्स मदर्स रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1112	7296	मैसर्स एक्सपो लैदर्स वेयर्स लि.	1146	7419	मैसर्स ऋषी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1113	7297	मैसर्स एक्सपो लैदर्स लि.	1147	7420	मैसर्स मैमरी साफ्टवेयर लि.
1114	7308	मैसर्स स्टार डाईंग एण्ड फिनिशिंग मिल्स प्रा. लि.	1148	7422	मैसर्स दसकी मैडन रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1115	7316	मैसर्स कमला आपटिक्स प्रा. लि.	1149	7425	मैसर्स जे जे प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1116	7319	मैसर्स अमबीका रबड़ एण्ड सिन्थेटिक मिल्स प्रा. लि.	1150	7429	मैसर्स ग्लोब केबल्स एण्ड कंडक्टर्स प्रा. लि.
1117	7320	मैसर्स इनाम एनर्जी डिवाइसेस प्रा. लि.	1151	7431	मैसर्स माधरा कार्बोस एण्ड रिब्स प्रा. लि.
1118	7322	मैसर्स काम्स लैदर वेयर लि.	1152	7432	मैसर्स काला हैडलूम प्रा. लि.
1119	7323	मैसर्स राजसंस रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	1153	7434	मैसर्स प्रोफेशनल बिल्डर्स प्रा. लि.
1120	7328	मैसर्स सरोनबालिया बस सिर्विस प्रा. लि.	1154	7439	मैसर्स पी एस मोल्ड प्लास्ट प्रा. लि.
1121	7329	मैसर्स मार्टिन डेल मैडीकेयर प्रा. लि.	1155	7440	मैसर्स केसरी रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1122	7332	मैसर्स एलायंस रेसिन्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.	1156	7449	मैसर्स श्री दुर्गे केबल्स एण्ड वायर्स प्रा. लि.
1123	7334	मैसर्स रोहिणी सिन्थेटिक्स प्रा. लि.	1157	7451	मैसर्स स्वास्तिक एस्टेट्स प्रा. लि.
1124	7338	मैसर्स डिल्लों एक्स-सर्विस मैन कैरियर्स प्रा. लि.	1158	7454	मैसर्स राजा वाल्क्स प्रा. लि.
1125	7339	मैसर्स नानक मिल्क फूड (इंडिया) प्रा. लि.	1159	7459	मैसर्स मनमोहन रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1126	7344	मैसर्स पी के ग्राफिक्स प्रा. लि.	1160	7462	मैसर्स मिकी माऊस स्पोर्ट्स प्रा. लि.
1127	7351	मैसर्स शिवा मैग्नेटिक्स लि.	1161	7463	मैसर्स वैलकट सेल्स प्रा. लि.
1128	7359	मैसर्स आर.के. डेवाइसेस प्रा. लि.	1162	7466	मैसर्स करतार प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1129	7362	मैसर्स अमृत कनटेनर्स एण्ड मोलडर्स प्रा. लि.	1163	7467	मैसर्स अम्बाला रोड ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1130	7363	मैसर्स बराडवे रिसोर्ट्स प्रा. लि.	1164	7472	मैसर्स नैच्यून सी फूड्स प्रा. लि.
1131	7364	मैसर्स संजीवाल प्लाईवुड प्रा. लि.	1165	7473	मैसर्स नैवैडक एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
1132	7367	मैसर्स जे.एस.बी. बियरिंग्स प्रा. लि.	1166	7476	मैसर्स कोटि खनिज प्रा. लि.
1133	7369	मैसर्स मालवा इलैक्ट्रोक्राफ्ट्स प्रा. लि.	1167	7477	मैसर्स कोटि इंटरप्राइसेस प्रा. लि.

1	2	3
1168	7479	मैसर्स डिल्लों रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1169	7480	मैसर्स डिल्लों एग्री मिल्स प्रा. लि.
1170	7482	मैसर्स टोनी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1171	7483	मैसर्स वैदा स्टील्स प्रा. लि.
1172	7486	मैसर्स गोविंद प्रताप पाइप प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1173	7489	मैसर्स भोंड एब्रैसिक्स प्रा. लि.
1174	7501	मैसर्स शिवानी टूरिस्ट होटल प्रा. लि.
1175	7502	मैसर्स पंजाब नाइट्रेट्स लि.
1176	7503	मैसर्स सी लेरिऑन फिल्मस लि.
1177	7504	मैसर्स कलैरिऑन मैग्नामैड प्रा. लि.
1178	7505	मैसर्स स्टार वाल्स प्रा. लि.
1179	7507	मैसर्स गुरुनानक टेक्सटाईल प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1180	7510	मैसर्स हाई टेक डाटा लिंक्स प्रा. लि.
1181	7511	मैसर्स गोविंद कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
1182	7513	मैसर्स चाँद रेडियो प्रा. लि.
1183	7514	मैसर्स रोलैंड निटवीयर प्रा. लि.
1184	7518	मैसर्स जैनसन एसिड्स प्रा. लि.
1185	7519	मैसर्स प्रेम लेमिनेट्स प्रा. लि.
1186	7520	मैसर्स अरोड़ा मार्किटिंग प्रा. लि.
1187	7521	मैसर्स गिल सन्स प्रिंटिंग कम्पनी प्रा. लि.
1188	7528	मैसर्स लक्ष्मी मल्टीलेयर फिल्म प्रा. लि.
1189	7530	मैसर्स शीतल ब्रास प्रा. लि.
1190	7532	मैसर्स सेनचो फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
1191	7538	मैसर्स मजैस्टिक इंजीनियर्स एण्ड डवैल्पर्स प्रा. लि.
1192	7541	मैसर्स हिलस्टोन होटल प्रा. लि.
1193	7545	मैसर्स धनजल स्टील्स प्रा. लि.
1194	7547	मैसर्स सुन्दर फ्लोर एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
1195	7554	मैसर्स झंकार होटल्स प्रा. लि.
1196	7555	मैसर्स गढ़शंकर राईस मिल्स प्रा. लि.
1197	7556	मैसर्स आर आर कन्टैक्टर्स प्रा. लि.
1198	7561	मैसर्स माडर्न पलैनर्स प्रा. लि.
1199	7564	मैसर्स टिनोवा कोटर्स लि.
1200	7567	मैसर्स सोमबल वायर्स प्रा. लि.
1201	7568	मैसर्स जय किचनैट्स एप्लॉसेस प्रा. लि.

1	2	3
1202	7569	मैसर्स कोयल एण्ड कुक्कू बिल्डर्स प्रा. लि.
1203	7570	मैसर्स पंजाब कोयल स्प्रिंग्स प्रा. लि.
1204	7576	मैसर्स कैसको प्रिन्ट्स प्रा. लि.
1205	7578	मैसर्स पॉयनियर बीमेटल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1206	7581	मैसर्स के. एन. एक्सपोर्ट प्रा. लि.
1207	7583	मैसर्स अंकुश मैनेजमेंट एण्ड कम्प्यूटर सर्विसेस प्रा. लि.
1208	7585	मैसर्स गिल पैनो बस सर्विस प्रा. लि.
1209	7586	मैसर्स ज्योति साईकल्स प्रा. लि.
1210	7588	मैसर्स मंदीप बस सर्विस प्रा. लि.
1211	7594	मैसर्स विष्णू रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1212	7598	मैसर्स जालन्धर पब्लीकेशन्स प्रा. लि.
1213	7599	मैसर्स शिमला टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
1214	7600	मैसर्स पारको इंजीनियरिंग टूल्स प्रा. लि.
1215	7604	मैसर्स होरिजन ब्रिक्स प्रा. लि.
1216	7605	मैसर्स पी. एस. कंटेनर्स प्रा. लि.
1217	7606	मैसर्स एलॉयस वूलन मिल्स प्रा. लि.
1218	7610	मैसर्स हिमाचल ट्रेस प्रा. लि.
1219	7611	मैसर्स ए एस स्टील ट्यूब्स प्रा. लि.
1220	7613	मैसर्स अजय कन्टेनर्स प्रा. लि.
1221	7616	मैसर्स गैलेंट प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1222	7621	मैसर्स चिनाब रबड़ प्रा. लि.
1223	7624	मैसर्स मंड रोडवेज़ प्रा. लि.
1224	7625	मैसर्स शीनू स्टील्स प्रा. लि.
1225	7628	मैसर्स पवार एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1226	7639	मैसर्स रेअर मैटल्स प्रा. लि.
1227	7640	मैसर्स पॉवर प्लास्टिक्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.
1228	7642	मैसर्स ए वी आर इंजीनियरिंग प्रा. लि.
1229	7646	मैसर्स केम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1230	7651	मैसर्स हिमाचल वीवर्स प्रा. लि.
1231	7656	मैसर्स सुखचैन गैसिज़ प्रा. लि.
1232	7657	मैसर्स हिमाचल एम्प्लेक्स प्रा. लि.
1233	7661	मैसर्स अल्ट्रा ट्रेड लिंक्स प्रा. लि.
1234	7662	मैसर्स हिम फ्यूल्स प्रा. लि.
1235	7664	मैसर्स बलजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1236	7666	मैसर्स चाणक्या बिल्डर्स प्रा. लि.	1270	7760	मैसर्स शिल्जा होटलीअर्स प्रा. लि.
1237	7667	मैसर्स चाणक्या स्टील्स प्रा. लि.	1271	7761	मैसर्स हिम साईडर प्रा. लि.
1238	7669	मैसर्स पुन प्लास्ट इंडस्ट्रीज प्रा. लि.	1272	7762	मैसर्स स्वास्तिक गैसेस-प्रा. लि.
1239	7670	मैसर्स इन वैली मैडीकल इंस्टीच्यूट प्रा. लि.	1273	7763	मैसर्स चमंडा स्टील ट्यूब्स प्रा. लि.
1240	7671	मैसर्स माउन्ट फूड्स प्रा. लि.	1274	7765	मैसर्स नरुला कन्सट्रक्शन्स प्रा. लि.
1241	7672	मैसर्स केवल सोलवेन्ट लि.	1275	7777	मैसर्स ग्रेट किंग टेलीवीजंस प्रा. लि.
1242	7675	मैसर्स स्टर्लिंग प्लासटीसाईजर्स प्रा. लि.	1276	7778	मैसर्स ब्यास स्प्रिंग रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1243	7677	मैसर्स आनंद कम्प्यूटर्स एण्ड टेलीट्रेनिक्स प्रा. लि.	1277	7785	मैसर्स जी. जी. स्टील्स प्रा. लि.
1244	7681	मैसर्स अमन ज्योति ड्रग्स एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.	1278	7789	मैसर्स कार्तिकया प्रोसेस्ड फूड्स प्रा. लि.
1245	7685	मैसर्स विश्वकर्मा टर्म्स प्रा. लि.	1279	7799	मैसर्स आस्था होटल्स प्रा. लि.
1246	7687	मैसर्स ओबलास वाटर फिल्टर्स प्रा. लि.	1280	7800	मैसर्स गोइण्डवाल इलैक्ट्रो-क्राफ्ट इंडिया प्रा. लि.
1247	7690	मैसर्स मार्शल इंजीनियरिंग प्रा. लि.	1281	7802	मैसर्स हीरा वूलेन मिल्स प्रा. लि.
1248	7691	मैसर्स वालिया टूल्स एण्ड फोरजिंग्स प्रा. लि.	1282	7805	मैसर्स कैसर सेल्स प्रा. लि.
1249	7693	मैसर्स ट्रिनिटी मैटल्स प्रा. लि.	1283	7806	मैसर्स माउंट पेपर मिल्स प्रा. लि.
1250	7694	मैसर्स सानोरा इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.	1284	7810	मैसर्स सरबजोत टूरिस्ट हाईवेस ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1251	7700	मैसर्स ए एन आई केम ड्रग्स प्रा. लि.	1285	7814	मैसर्स हेमकुण्ट इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1252	7701	मैसर्स लक्ष्मी टैली ट्रेनिक्स प्रा. लि.	1286	7817	मैसर्स मोहन रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1253	7708	मैसर्स कवलजीत स्टील उद्योग प्रा. लि.	1287	7818	मैसर्स जी. डी. आर. क्राफ्ट्स प्रा. लि.
1254	7709	मैसर्स अनिल गैसिज प्रा. लि.	1288	7821	मैसर्स अवतार ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
1255	7722	मैसर्स सुरिन्द्रा पाईप्स प्रा. लि.	1289	7822	मैसर्स शान ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रा. लि.
1256	7723	मैसर्स पुनिया प्लास्ट प्रा. लि.	1290	7823	मैसर्स हिम फैनिक आलम प्रा. लि.
1257	7724	मैसर्स लांद्रा इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	1291	7828	मैसर्स बरार इलैक्ट्रो कंडेक्टर्स प्रा. लि.
1258	7726	मैसर्स त्रीमूर्ति रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.	1292	7829	मैसर्स सचखण्ड पैकवेल प्रा. लि.
1259	7728	मैसर्स कथूरिया इंजीनियर्स प्रा. लि.	1293	7833	मैसर्स हावरा आल प्रिन्ट प्रा. लि.
1260	7729	मैसर्स डेल्टा ग्रीव्स एक्चू मैक्स इंडिया प्रा. लि.	1294	7835	मैसर्स कमला ट्यूब्स लि.
1261	7739	मैसर्स श्रीदेवा इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि.	1295	7837	मैसर्स एच एम बी ट्रांसफीग्यूरेशन्स प्रा. लि.
1262	7746	मैसर्स मैत्री बेकर्स एण्ड कंफैक्सनर्स प्रा. लि.	1296	7838	मैसर्स मलिक टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
1263	7747	मैसर्स नीरू पेपर एण्ड एलाइड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1297	7840	मैसर्स ब्लीस केमिकल्स प्रा. लि.
1264	7749	मैसर्स कैमी सोप इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1298	7842	मैसर्स क्लासिक पैकेजस प्रा. लि.
1265	7750	मैसर्स बेदी रबड़ फैक्ट्री प्रा. लि.	1299	7843	मैसर्स रिलायन्स क्रैन्स प्रा. लि.
1266	7752	मैसर्स राइट एण्ड रेनवैल फैब्रिक्स प्रा. लि.	1300	7844	मैसर्स हाडिम्बा रिसोर्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि.
1267	7755	मैसर्स अशोका वनस्पति प्रा. लि.	1301	7852	मैसर्स आत्मा ट्यूब्स प्रा. लि.
1268	7756	मैसर्स दशमेश प्लाईवुड बोर्ड प्रा. लि.	1302	7853	मैसर्स बालाजी सिन्थेटिक्स प्रा. लि.
1269	7757	मैसर्स गर्ग प्लाईफिक्स इंडिया प्रा. लि.	1303	7854	मैसर्स बड्डी डाइंग प्रा. लि.

1	2	3
1304	7855	मैसर्स हिम स्प्रिंग सर्कल प्रा. लि.
1305	7856	मैसर्स डॉन ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
1306	7857	मैसर्स ब्ल्यू सर्किल एग्री प्रा. लि.
1307	7859	मैसर्स पोर्टेसिअल फ्यूल प्रा. लि.
1308	7862	मैसर्स आरसन लेबोरेट्रीस प्रा. लि.
1309	7863	मैसर्स जे. के. वनस्पति उद्योग प्रा. लि.
1310	7867	मैसर्स आक्विस्ट कंप्यूटर्स इंडिया प्रा. लि.
1311	7868	मैसर्स कनिष्का प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1312	7869	मैसर्स बाल्मीकी पब्लिशिंग प्रा. लि.
1313	7872	मैसर्स इण्डो पी.वी.सी. प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1314	7876	मैसर्स रायम लेदर प्रा. लि.
1315	7877	मैसर्स पुनू फुटवियर प्रा. लि.
1316	7882	मैसर्स ए. के. यार्न इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1317	7883	मैसर्स एस. पी. इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
1318	7887	मैसर्स सैण्डी स्वीट चैम्बर लि.
1319	7888	मैसर्स ओम मैच इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
1320	7892	मैसर्स सोहम इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि.
1321	7893	मैसर्स एसोसिएटेड टेक्नोकारट्स प्रा. लि.
1322	7898	मैसर्स आर. के. ग्लासिस प्रा. लि.
1323	7901	मैसर्स रेड रोज ट्रेडर्स प्रा. लि.
1324	7902	मैसर्स डी. के. गियरिंग्स एण्ड पावर ट्रांसमिशन प्रा. लि.
1325	7903	मैसर्स सुप्रीम पाइप्स प्रा. लि.
1326	7905	मैसर्स बाबा पालीमर्स प्रा. लि.
1327	7906	मैसर्स संजय रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1328	7910	मैसर्स अंकुर आटोस प्रा. लि.
1329	7914	मैसर्स गोल्ड फ्लेम हीटर्स प्रा. लि.
1330	7917	मैसर्स आनन्द हाईवेस प्रा. लि.
1331	7918	मैसर्स शिवालिक वीडिओ कम्यूनिकेशन्स लि.
1332	7920	मैसर्स सोना कंडक्टर्स प्रा. लि.
1333	7922	मैसर्स अमृत मिल्क सप्लाय कंपनी प्रा. लि.
1334	7924	मैसर्स बाबू स्टील्स प्रा. लि.
1335	7936	मैसर्स रामा पाइप्स प्रा. लि.
1336	7742	मैसर्स गुरबानी धर्मशाला दुर्गापुर प्रापटीज प्रा. लि.
1337	7944	मैसर्स शिवालिक रोलिंग्स प्रा. लि.

1	2	3
1338	7957	मैसर्स एडवॉन्स इनोवेटर्स प्रा. लि.
1339	7960	मैसर्स डीसेन्ट स्टील्स प्रा. लि.
1340	7963	मैसर्स जौरा फुटवियर्स प्रा. लि.
1341	7965	मैसर्स मनचन्दा हालीडे एक्पीरियन्सेस प्रा. लि.
1342	7972	मैसर्स अमृतसर पेजसैटर्स प्रा. लि.
1343	7973	मैसर्स अम्बाला ग्राफिक्स प्रा. लि.
1344	7974	मैसर्स अम्बाला पेजसैटर्स प्रा. लि.
1345	7975	मैसर्स गुरदर्शन ट्रेवल्स प्रा. लि.
1346	7976	मैसर्स मार्टन बोर्ड्स प्रा. लि.
1347	7977	मैसर्स अम्बाला प्रेस प्रा. लि.
1348	7978	मैसर्स लुधियाना ग्राफिक्स प्रा. लि.
1349	7979	मैसर्स खन्ना ग्राफिक्स प्रा. लि.
1350	7980	मैसर्स अमृतसर टाईपसैटर्स प्रा. लि.
1351	7984	मैसर्स खन्ना लेजरसैटर्स प्रा. लि.
1352	7985	मैसर्स खन्ना टाईपसैटर्स प्रा. लि.
1353	7988	मैसर्स चण्डीगढ़ टाईपसैटर्स प्रा. लि.
1354	7993	मैसर्स अम्बाला टाईपसैटर्स प्रा. लि.
1355	7994	मैसर्स अम्बाला लेजरसैटर्स प्रा. लि.
1356	7995	मैसर्स खन्ना पेजसैटर्स प्रा. लि.
1357	7996	मैसर्स अमृतसर ग्राफिक्स प्रा. लि.
1358	7997	मैसर्स स्वास्थीया रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1359	8000	मैसर्स गोपी फ्लोर मिल प्रा. लि.
1360	8001	मैसर्स अबोहर प्रिन्टर्स प्रा. लि.
1361	8004	मैसर्स लुधियाना प्रिन्टर्स प्रा. लि.
1362	8005	मैसर्स लुधियाना प्रेस प्रा. लि.
1363	8006	मैसर्स खन्ना प्रेस प्रा. लि.
1364	8007	मैसर्स शिमला पेपर पब्लिशिंग प्रा. लि.
1365	8008	मैसर्स पटियाला पेजसैटर्स प्रा. लि.
1366	8011	मैसर्स अम्बाला प्रिन्टर्स प्रा. लि.
1367	8012	मैसर्स राजपुरा टाईपसैटर्स प्रा. लि.
1368	8014	मैसर्स त्रिपुति पेजसैटर्स प्रा. लि.
1369	8015	मैसर्स फगवाड़ा फोटोसेट ग्राफिक्स प्रा. लि.
1370	8016	मैसर्स जी. के. कम्बाईन प्रा. लि.
1371	8017	मैसर्स माउन्ट पेट्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
1372	8018	मैसर्स लुधियाना पब्लिशिंग प्रा. लि.
1373	8019	मैसर्स अम्बाला पब्लिशिंग प्रा. लि.
1374	8034	मैसर्स कांगरू लिक्विड प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1375	8036	मैसर्स बेकर्स फूड्स प्रा. लि.
1376	8041	मैसर्स मेघा सेल्स प्रा. लि.
1377	8044	मैसर्स राजपुरा पेजिस्टर्स प्रा. लि.
1378	8046	मैसर्स श्रीरामा आयल्य प्रा. लि.
1379	8053	मैसर्स पप्पी आयल मिल्स प्रा. लि.
1380	8056	मैसर्स विलोस फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
1381	8059	मैसर्स पी. के. केमिकल्स प्रा. लि.
1382	8060	मैसर्स कम्पलीट इन्सुलेशन प्रा. लि.
1383	8064	मैसर्स योशिडा ट्रेडिंग प्रा. लि.
1384	8066	मैसर्स प्रीत पैक प्रा. लि.
1385	8075	मैसर्स एरो इम्पेक्स प्रा. लि.
1386	8081	मैसर्स राजहंस रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1387	8082	मैसर्स चमकौर आयल मिल्स प्रा. लि.
1388	8084	मैसर्स आशा रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1389	8085	मैसर्स गोपीचन्द प्रेमकुमार सिमेंट प्रा. लि.
1390	8091	मैसर्स टेकनोवेयर प्रोडक्ट प्रा. लि.
1391	8094	मैसर्स सुखमनी डेयरिस प्रा. लि.
1392	8097	मैसर्स एस.एम.टी. इस्टेट प्रा. लि.
1393	8098	मैसर्स मोहाली मेटल फिनिशियर प्रा. लि.
1394	8099	मैसर्स जैपसन रबड़ प्रा. लि.
1395	8101	मैसर्स के. पी. फास्टनर्स प्रा. लि.
1396	8102	मैसर्स दुर्गा आयल एण्ड फीड्स प्रा. लि.
1397	8103	मैसर्स एस. एस. पोल्ट्री फार्मस प्रा. लि.
1398	8105	मैसर्स सुदर्शन वायर इन्डस्ट्रीस प्रा. लि.
1399	8111	मैसर्स इन्दरा ट्रेडिंग प्रा. लि.
1400	8112	मैसर्स बिशन सिंह गिल कॉटन फैक्टरी प्रा. लि.
1401	8116	मैसर्स फारावै इंपैरेंस प्रा. लि.
1402	8117	मैसर्स कम्प्यूटर कैम्पस इण्डिया प्रा. लि.
1403	8118	मैसर्स इन्दर रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1404	8119	मैसर्स सुमित्रा केमिकल्स प्रा. लि.
1405	8121	मैसर्स बिमरो पैकजिस प्रा. लि.

1	2	3
1406	8124	मैसर्स पी.ए.आर. कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
1407	8130	मैसर्स दीपक बस सर्विस प्रा. लि.
1408	8131	मैसर्स गंगा बल्सन गंगा शुभ करन एण्ड कं. प्रा. लि.
1409	8133	मैसर्स मोहिन्द्र कोल्ड स्टोरेज प्रा. लि.
1410	8134	मैसर्स सुपरटेफ ग्लास कं. प्रा. लि.
1411	8139	मैसर्स जे. के. फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
1412	8147	मैसर्स एम. बी. फास्टनर प्रा. लि.
1413	8148	मैसर्स वीना पोल्ट्रीफार्मस प्रा. लि.
1414	8149	मैसर्स युनाइटेड फास्टनर्स प्रा. लि.
1415	8150	मैसर्स यू. के. मशीन टूलस प्रा. लि.
1416	8153	मैसर्स पवन सैल्स प्रा. लि.
1417	8157	मैसर्स प्रिंस मेटल प्रा. लि.
1418	8160	मैसर्स जी.आर.ए. इन्डस्ट्रियल गैसेज प्रा. लि.
1419	8162	मैसर्स अरुण समीर एसोसिएट्स प्रा. लि.
1420	8163	मैसर्स मगनीचैम इन्डस्ट्रिस प्रा. लि.
1421	8167	मैसर्स यूनाइटेड दाल मिल्स प्रा. लि.
1422	8175	मैसर्स एसटर इंजीनियर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1423	8176	मैसर्स राम स्वरूप अग्रवाल टैक्सटाइल प्रा. लि.
1424	8178	मैसर्स प्रीत स्पीनिंग एण्ड डाईनिंग मिल प्रा. लि.
1425	8184	मैसर्स अमर (इण्डिया) टूल्स मैन्यूफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
1426	8186	मैसर्स राजू स्पाईस प्रा. लि.
1427	8189	मैसर्स ज्योति कैबल्स प्रा. लि.
1428	8191	मैसर्स अपैक्स पैकर्स प्रा. लि.
1429	8194	मैसर्स एसोसियेटेड ग्राफिक्स प्रा. लि.
1430	8196	मैसर्स जैनसन्स सेल्स प्रा. लि.
1431	8200	मैसर्स राम प्रकाश चौपड़ा द्यूब्स प्रा. लि.
1432	8201	मैसर्स आसा सिंह प्रीतम सिंह ट्रांसपोर्टर्स प्रा. लि.
1433	8209	मैसर्स एम. एल. डिपार्टमेंटल स्टोर्स प्रा. लि.
1434	8211	मैसर्स तुलीसन कन्टेनर्स प्रा. लि.
1435	8222	मैसर्स परफैक्ट वील एण्ड आटो टैडर्स प्रा. लि.
1436	8230	मैसर्स नंदा मैडिसन सेंटर प्रा. लि.
1437	8235	मैसर्स सवान ओवरसिस प्रा. लि.
1438	8236	मैसर्स महेश्वरी इन्डस्ट्रियल गैसस प्रा. लि.
1439	8237	मैसर्स एस. के. मार्केटिंग एण्ड सर्विसस प्रा. लि.
1440	8244	मैसर्स परमा फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
1441	8251	मैसर्स नार्थ पेट पैक्स प्रा. लि.
1442	8256	मैसर्स व्हीलस वलर्ड आटो प्रा. लि.
1443	8258	मैसर्स मेनोर एजेंसीस प्रा. लि.
1444	8260	मैसर्स आर. आर. टैक्सटाईलस प्रा. लि.
1445	8263	मैसर्स मोहित कन्फेक्शनरी प्रा. लि.
1446	8264	मैसर्स बैदी निट वियर्स प्रा. लि.
1447	8272	मैसर्स कनिशका इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1448	8274	मैसर्स अजाद स्टीलस प्रा. लि.
1449	8279	मैसर्स पामा एजेंसीस प्रा. लि.
1450	8288	मैसर्स डीकोरा फौब्रिक्स प्रा. लि.
1451	8289	मैसर्स आर.आर. साईकल्स प्रा. लि.
1452	8293	मैसर्स आर. के. डाईंग एण्ड फिनिशिंग मिल्स प्रा. लि.
1453	8294	मैसर्स चैलेंज साइन सर्विसिस प्रा. लि.
1454	8296	मैसर्स एम. आर. इम्पैक्स ओवरसीस प्रा. लि.
1455	8299	मैसर्स ज्योति एप्लाइडस प्रा. लि.
1456	8300	मैसर्स सैवरोन फोरजिंग्स प्रा. लि.
1457	8306	मैसर्स माऊट कैमिकल्स प्रा. लि.
1458	8307	मैसर्स पी.बी. आयल प्रा. लि.
1459	8308	मैसर्स सराता कर्मशियल प्रा. लि.
1460	8312	मैसर्स ल्यू रेमेडिस इण्डिया प्रा. लि.
1461	8315	मैसर्स जीतेन्द्रा मेटलस प्रा. लि.
1462	8318	मैसर्स डाई टूल्स एण्ड कास्टिंग प्रा. लि.
1463	8323	मैसर्स विक्टोरिया आटो प्रा. लि.
1464	8324	मैसर्स नायर स्पिनिंग प्रा. लि.
1465	8325	मैसर्स श्री मंगलाम राईस एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
1466	8330	मैसर्स यंग मार्केटिंग ग्रुप प्रा. लि.
1467	8332	मैसर्स तेग एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1468	8340	मैसर्स गोयल रोलर फिलोर मिल्स प्रा. लि.
1469	8341	मैसर्स श्री वेंकटेश साल्ट एण्ड स्पाईसिस प्रा. लि.
1470	8342	मैसर्स खांगुरा इसटेट प्रा. लि.
1471	8347	मैसर्स बंडल राईस एण्ड जनरल ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
1472	8354	मैसर्स ऐथीकाम्ब फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
1473	8357	मैसर्स एस. इलैक्ट्रॉनिक प्रा. लि.
1474	8364	मैसर्स जसी स्टीलस प्रा. लि.

1	2	3
1475	8369	मैसर्स निरभई ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1476	8376	मैसर्स हिम कम्प्यूटरस एड्स प्रा. लि.
1477	8378	मैसर्स हरियाणा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
1478	8381	मैसर्स यूनिक ऊर्जा सिस्टम प्रा. लि.
1479	8383	मैसर्स वी. के. ग्लास एण्ड प्लाईवुड कम्पनी प्रा. लि.
1480	8386	मैसर्स टेंडी डाटा इंजिनियर्स प्रा. लि.
1481	8396	मैसर्स दीप एगो प्रा. लि.
1482	8398	मैसर्स नीलम डिस्टीलरिस लि.
1483	8400	मैसर्स युनिवाक लैडर प्रा. लि.
1484	8402	मैसर्स युनिवाक फुटवियर्स प्रा. लि.
1485	8403	मैसर्स युनिवाक सकिनस प्रा. लि.
1486	8404	मैसर्स युनिवाक टैनीरीज प्रा. लि.
1487	8405	मैसर्स कौसर टेक्नोलाजिस प्रा. लि.
1488	8414	मैसर्स न्यू लाईफ फौरेस्ट (इंडिया) प्रा. लि.
1489	8415	मैसर्स एस. के. मिडिएक्स प्रा. लि.
1490	8417	मैसर्स पैसेफिक फोटो वर्क्स प्रा. लि.
1491	8421	मैसर्स पंडित सौप मिल्स प्रा. लि.
1492	8423	मैसर्स अक्वीत रबड़ इंडिया प्रा. लि.
1493	8426	मैसर्स एक्सिस कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
1494	8427	मैसर्स आनन्द हौलीडे रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1495	8435	मैसर्स एन. आर. मार्केटिंग प्रा. लि.
1496	8437	मैसर्स विजय सेल्स प्रा. लि.
1497	8438	मैसर्स जे. सी. डी. सिस्टम्स प्रा. लि.
1498	8439	मैसर्स करतार इंजिनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
1499	8445	मैसर्स युनिवाक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1500	8447	मैसर्स सुरभि एगो मिल्स प्रा. लि.
1501	8450	मैसर्स खेरा बस एण्ड ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1502	8456	मैसर्स जे. के. राईस इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
1503	8457	मैसर्स नोबल कारगो कैरियर्स प्रा. लि.
1504	8459	मैसर्स ए. आर. कंस्ट्रक्शंस प्रा. लि.
1505	8463	मैसर्स अलमिक टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि.
1506	8465	मैसर्स ए.एस.वी. डिट्रैट्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.
1507	8466	मैसर्स मालवा मशीनरी प्रा. लि.
1508	8467	मैसर्स हेम कुण्ट आक्सीजन प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1509	8469	मैसर्स वाधवा स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1542	8561	मैसर्स एम्बेसी एपलाइन्स प्रा. लि.
1510	8472	मैसर्स युनिक थर्म-टेक प्रा. लि.	1543	8562	मैसर्स बरार प्लास्टिक प्रा. लि.
1511	8474	मैसर्स आर. के. इडीवलज प्रा. लि.	1544	8563	मैसर्स कैलाश वायर्स प्रा. लि.
1512	8475	मैसर्स जी. टैक्नो इन्जीरियरिंग कं. प्रा. लि.	1545	8567	मैसर्स सिंगला फ्लोर मिल्ज प्रा. लि.
1513	8476	मैसर्स सैटेलाइट रबर्स प्रा. लि.	1546	8572	मैसर्स ईस्ट इण्डिया फार्मर्स फूड कम्पनी प्रा. लि.
1514	8478	मैसर्स धिनर गार्स्कैट एसोसिएट्स प्रा. लि.	1547	8573	मैसर्स हिमगिरी स्पोर्ट्स प्रा. लि.
1515	8479	मैसर्स लक्की फूड्स प्रा. लि.	1548	8575	मैसर्स गली इलैक्ट्रो स्टेम्पिंग्स प्रा. लि.
1516	8493	मैसर्स हिमाचल प्रदेश बायोलोजीकल्स प्रा. लि.	1549	8581	मैसर्स अमाजुन लैबोरेटरीज (इण्डिया) प्रा. लि.
1517	8494	मैसर्स के. टी. इम्प्लायमेन्ट प्रमोटर्स एण्ड कंसल्टैन्स लि.	1550	8582	मैसर्स होरा इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
1518	8495	मैसर्स उषा सलीटिंग प्रा. लि.	1551	8583	मैसर्स पटं माइक्रो सिस्टम्स पी. बी. लि.
1519	8496	मैसर्स बी.पी. विज एण्ड कम्पनी (कम्प्यूटर डिवीजन) प्रा. लि.	1552	8586	मैसर्स माइक्रो फास्टनर्स प्रा. लि.
1520	8499	मैसर्स जैसन फैब्रिक्स प्रा. लि.	1553	8587	मैसर्स लिफ्ट वेल हेन्डलिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1521	8501	मैसर्स बिन्दल तरेहन वाईन्स प्रा. लि.	1554	8594	मैसर्स क्यसन फोरजिंग्स प्रा. लि.
1522	8502	मैसर्स अमर निरभई ग्लास इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1555	8603	मैसर्स मानव इन्सुलैटिड टैक्नीकल कोटिंग्स प्रा. लि.
1523	8503	मैसर्स किसान विकास कम्पनी प्रा. लि.	1556	8604	मैसर्स ओरेकल कॉमनीकेशन प्रा. लि.
1524	8511	मैसर्स जगदम्बे राइस एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.	1557	8606	मैसर्स मोहन टैन्ट सर्विसेस प्रा. लि.
1525	8525	मैसर्स जी.एम.एस. टूल्स प्रा. लि.	1558	8612	मैसर्स करम ओवरसीज़ प्रा. लि.
1526	8529	मैसर्स ओनीएक्स इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1559	8616	मैसर्स मल्होत्रा रैफरीजिरेशंस प्रा. लि.
1527	8531	मैसर्स दुपाल एग्रीटैक प्रा. लि.	1560	8622	मैसर्स परोग्रेसिव ओवरसीज़ प्रा. लि.
1528	8537	मैसर्स अमृतांजली होटल्स प्रा. लि.	1561	8623	मैसर्स बी. वी. होटल्स प्रा. लि.
1529	8538	मैसर्स एलाइड बैकर्स प्रा. लि.	1562	8633	मैसर्स मन पसन्द कन्फैक्शनरी प्रा. लि.
1530	8539	मैसर्स नोरड्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1563	8634	मैसर्स पंजाबी ड्राईंग एण्ड वुलन मिल्स प्रा. लि.
1531	8540	मैसर्स युनीपक्स सेल्स प्रा. लि.	1564	8642	मैसर्स डाबना कार्बन पेपर प्रा. लि.
1532	8542	मैसर्स करिशना सोया प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1565	8643	मैसर्स करोल होटल्स प्रा. लि.
1533	8548	मैसर्स पंजाब फूड फराइट लि.	1566	8644	मैसर्स डी. पी. के. इलैक्ट्रो इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1534	8549	मैसर्स महान रबर्स प्रा. लि.	1567	8666	मैसर्स राना इंडस्ट्रियल सिम्योरिटी सर्विसेस प्रा. लि.
1535	8550	मैसर्स नाथ कम्प्यूटर्स प्रा. लि.	1568	8672	मैसर्स रोयल कन्फैक्शनर्स प्रा. लि.
1536	8552	मैसर्स ओमनी कंसट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	1569	8674	मैसर्स फराजीर फार्मास्यूटीकल्स प्रा. लि.
1537	8554	मैसर्स स्टर्लिंग व्हील्स प्रा. लि.	1570	8678	मैसर्स रिलाइंस पाईपस प्रा. लि.
1538	8555	मैसर्स प्रभात इन्डो मेडिकेयर प्रा. लि.	1571	8682	मैसर्स आराधना कस्टिंग्स प्रा. लि.
1539	8558	मैसर्स राय सुमल इलैक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.	1572	8685	मैसर्स सावित्री आयल एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
1540	8559	मैसर्स मनोज फैब्रिक्स प्रा. लि.	1573	8688	मैसर्स हिम पाईपस प्रा. लि.
1541	8560	मैसर्स होली हास्पिटल प्रा. लि.	1574	8690	मैसर्स एंजिल एक्पोटर्स प्रा. लि.
			1575	8692	अकाल ओवरसीज़ प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1576	8701	मैसर्स खालिक टैक्सटाइल्स प्रा. लि.	1610	8824	मैसर्स श्री चन्दीका ऑयल्स फीड्स एण्ड फूड्स लि.
1577	8718	मैसर्स पैरामाऊंट एल्यूमिनियम कम्पनी प्रा. लि.	1611	8832	मैसर्स एल के टायर एण्ड ट्यूब्स प्रा. लि.
1578	8719	मैसर्स पॉल पोलीमर्ज प्रा. लि.	1612	8836	मैसर्स स्पीडवे कोरियर्स लि.
1579	8731	मैसर्स ट्रीपल आर बिल्डर्स प्रा. लि.	1613	8837	मैसर्स अबनाशी पैकेजिंग प्रा. लि.
1580	8735	मैसर्स चन टैप्स प्रा. लि.	1614	8838	मैसर्स भोवरा इंजीनियर्स प्रा. लि.
1581	8742	मैसर्स गोल्ड कलर लैब प्रा. लि.	1615	8839	मैसर्स पियरलैस इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
1582	8744	मैसर्स कोरा कोस्मोपक इंजीनियर्स प्रा. लि.	1616	8841	मैसर्स ईशर इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
1583	8746	मैसर्स सूद हैचरिज एण्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1617	8849	मैसर्स मैगना बिल्डर्स प्रा. लि.
1584	8748	मैसर्स डीवाईन सेल्ज प्रा. लि.	1618	8854	मैसर्स कनसेप्ट पैकेजिंग सिस्टम्स प्रा. लि.
1585	8754	मैसर्स यूनिवर्सल थर्मोकोल प्रा. लि.	1619	8855	मैसर्स प्रभात ईस्टेट्स इण्डिया लि.
1586	8756	मैसर्स विक्रम पाल आयलज प्रा. लि.	1620	8858	मैसर्स प्यूपिल कन्स्ट्रक्शंस प्रा. लि.
1587	8760	मैसर्स गलीसन गियर्स प्रा. लि.	1621	8861	मैसर्स वाई पी इंजीनियर्स प्रा. लि.
1588	8761	मैसर्स एस के आर बिल्डर्स प्रा. लि.	1622	8870	मैसर्स एस पी एस वायर्स प्रा. लि.
1589	8764	मैसर्स लुधियाना चैमटेक प्रा. लि.	1623	8873	मैसर्स साका रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1590	8766	मैसर्स जतेन्द्र बस सर्विस प्रा. लि.	1624	8881	मैसर्स यमुना कार्बोनेट प्रा. लि.
1591	8767	मैसर्स पी ए पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1625	8882	मैसर्स मंजिल पैन्ट्स एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि.
1592	8770	मैसर्स मिनुबा फास्टनर्स प्रा. लि.	1626	8884	मैसर्स अबू मेटल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1593	8775	मैसर्स संत राईस एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.	1627	8886	मैसर्स अमर कोन्क्रीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1594	8776	मैसर्स इन्डो स्पीन्स प्रा. लि.	1628	8887	मैसर्स विकास इन्स्ट्रुमेंट्स प्रा. लि.
1595	8777	मैसर्स नरायन ड्रम्स प्रा. लि.	1629	8889	मैसर्स चन्दोक वीविंग मिल्स प्रा. लि.
1596	8783	मैसर्स सैक इलेक्ट्रोनिक्स इन्टरप्राइसेस प्रा. लि.	1630	8891	मैसर्स रैनूका फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1597	8787	मैसर्स सेनरा ट्रांसमिशन प्रा. लि.	1631	8892	मैसर्स मनमोहन आक्साइड्स प्रा. लि.
1598	8791	मैसर्स चान्सलर मार्किटिंग प्रा. लि.	1632	8899	मैसर्स स्पेस प्रोजेक्ट प्रा. लि.
1599	8792	मैसर्स रबाब क्रिएटर्स प्रा. लि.	1633	8900	मैसर्स वाईट पर्स पोल्ट्रीस प्रा. लि.
1600	8794	मैसर्स बाली कैमिकल्स प्रा. लि.	1634	8901	मैसर्स कमान्डर फुटवेयर प्रा. लि.
1601	8796	मैसर्स हिन्दुस्तान हार्ड टैक इन्डस्ट्रीज लि.	1635	8903	मैसर्स चहल वूलन मिल्स प्रा. लि.
1602	8799	मैसर्स किलुक सैफ्टी डीवाईसिस प्रा. लि.	1636	8906	मैसर्स धीमान साईकल्स प्रा. लि.
1603	8801	मैसर्स पैंगुइन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	1637	8912	मैसर्स शाह रबर्स इण्डिया लि.
1604	8802	मैसर्स माऊंट वियू स्टील फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.	1638	8914	मैसर्स जरमन इन्सटीट्यूट आफ इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी प्रा. लि.
1605	8803	मैसर्स बीरडी कन्फैक्शनरी प्रा. लि.	1639	8920	मैसर्स हिमाचल स्टेमपिंग एण्ड लैमिनेशंस प्रा. लि.
1606	8805	मैसर्स एम पी कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.	1640	8930	मैसर्स वेसटेंड टैक्सको प्रा. लि.
1607	8811	मैसर्स न्यू बंगा ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	1641	8932	मैसर्स गरासीयस फलुएक्स प्रा. लि.
1608	8812	मैसर्स हरमन बोर्स प्रा. लि.	1642	8935	मैसर्स रौक ओरगेनिक्स प्रा. लि.
1609	8822	मैसर्स प्रितम कैटल फीड प्रा. लि.			

1	2	3	1	2	3
1643	8944	मैसर्स एपेक्स प्रोजेक्ट प्रा. लि.	1677	9121	मैसर्स सहल आटोज प्रा. लि.
1644	8962	मैसर्स स्टार एस.पी.एम.एस प्रा. लि.	1678	9127	मैसर्स सायगन इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1645	8966	मैसर्स गुरु राखा आटो इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.	1679	9132	मैसर्स पी. जी. जे. पाइनर पोलीवोरलड प्रा. लि.
1646	8968	मैसर्स सुवीरज कैमीकल्ज प्रा. लि.	1680	9133	मैसर्स डिल्लोन ब्रिक्स प्रा. लि.
1647	8972	मैसर्स मोहन इम्पैक्स प्रा. लि.	1681	9136	मैसर्स बीना स्पार्क प्रा. लि.
1648	8973	मैसर्स सन्दीप निटवियरज प्रा. लि.	1682	9142	मैसर्स डी. एस. रतन एण्ड एसोसीएट्स प्रा. लि.
1649	8976	मैसर्स चान्दी इंजीनियर्स प्रा. लि.	1683	9143	मैसर्स चण्डीगढ़ आटो प्रा. लि.
1650	8986	मैसर्स के. आर. कॉमर्शियल्स प्रा. लि.	1684	9153	मैसर्स इण्डस डाईट स्पेशलिटीस प्रा. लि.
1651	8987	मैसर्स प्रीत आटो प्रा. लि.	1685	9159	मैसर्स एम. के. स्पीनर्स प्रा. लि.
1652	8997	मैसर्स ग्रीन डेरी लेन्ड इंडिया प्रा. लि.	1686	9168	मैसर्स एस वी जी स्विचगियर्स प्रा. लि.
1653	9011	मैसर्स अंकुरा निटर प्रा. लि.	1687	9174	मैसर्स मीरा जरनी प्रा. लि.
1654	9013	मैसर्स डी. एम. आटो मैक प्रा. लि.	1688	9184	मैसर्स डायमंड कोल्ड रिट्रोड्स प्रा. लि.
1655	9019	मैसर्स मौद वूल टैक्स प्रा. लि.	1689	9188	मैसर्स रामानिया बिस्कुट्स प्रा. लि.
1656	9022	मैसर्स डा. फ्रिमेंज रिसर्च लैबोरेट्रीज प्रा. लि.	1690	9213	मैसर्स ए. आर. वुलन एण्ड स्पीनिंग मिल्स प्रा. लि.
1657	9023	मैसर्स अमृतसर पलाईवुड प्रा. लि.	1691	9216	मैसर्स संसारपुर स्पिनर्स प्रा. लि.
1658	9025	मैसर्स एक्सीस पेपर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1692	9223	मैसर्स मुन्दरा पैक्स एण्ड कन्टेनर्स प्रा. लि.
1659	9031	मैसर्स नन्दा यान ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.	1693	9230	मैसर्स तारास हैल्थ कल्च प्रा. लि.
1660	9036	मैसर्स सकीपर्स डिस्ट्रीलरीज प्रा. लि.	1694	9249	मैसर्स हरमन ओवरसीज प्रा. लि.
1661	9038	मैसर्स डेबसी होटल्ज प्रा. लि.	1695	9256	मैसर्स सरदार ऑयल मिल्स प्रा. लि.
1662	9043	मैसर्स जौली कन्टीनेन्टल सर्विसिज प्रा. लि.	1696	9260	मैसर्स आई वी वाई सिस्टम्स प्रा. लि.
1663	9050	मैसर्स मैगकोरप इन्टरनेशनल प्रा. लि.	1697	9266	मैसर्स भल्ला फाइनेंशियल कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
1664	9051	मैसर्स सैफ्टी स्टील रोपज प्रा. लि.	1698	9271	मैसर्स एम वीडियो टेक प्रा. लि.
1665	9058	मैसर्स गलैसी हैल्थ कैयर प्रा. लि.	1699	9272	मैसर्स गुरु कृपा लेन्सस प्रा. लि.
1666	9060	मैसर्स फतुवा गारमैन्ट लि.	1700	9273	मैसर्स टी के वी कन्सोर्टियम टेक्नीवीजन्स प्रा. लि.
1667	9074	मैसर्स बरप एण्ड बेफ्ट अप्रैल्स प्रा. लि.	1701	9275	मैसर्स अतास फ्लोर कास्ट लि.
1668	9075	मैसर्स अमृतसर फर्टीलाइजर्स एजेंसी प्रा. लि.	1702	9281	मैसर्स तुलसी राम जगन नाथ स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
1669	9076	मैसर्स जे एम फास्टनर्ज प्रा. लि.	1703	9283	मैसर्स आक्सफोर्ड वुलमेकर्स प्रा. लि.
1670	9093	मैसर्स मनजीत मेटल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1704	9284	मैसर्स नागेश अलॉय स्टील प्रा. लि.
1671	9098	मैसर्स अदय वुलन मिल्स प्रा. लि.	1705	9291	मैसर्स तेरीएन बिल्डर्स प्रा. लि.
1672	9101	मैसर्स जैन इन्फ्लेक्स बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	1706	9294	मैसर्स ग्रीनलैण्ड मेटल प्रा. लि.
1673	9102	मैसर्स गोविन्द फरनेस प्रा. लि.	1707	9295	मैसर्स खन्ना पोल्ट्री प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1674	9109	मैसर्स भारत टूर्स एण्ड ट्रेवल्स प्रा. लि.	1708	9296	मैसर्स हरजस आटो मोबाईल्स प्रा. लि.
1675	9112	मैसर्स अनसन फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	1709	9298	मैसर्स एस जी एम साल्ट एण्ड पेस्टीसाईड्स प्रा. लि.
1676	9115	मैसर्स बिन्द्रा प्लास्टिक्स प्रा. लि.	1710	9303	मैसर्स एस जी फीड्स प्रा. लि.

1	2	3
1711	9306	मैसर्स अरबन इंजीनियर्स प्रा. लि.
1712	9307	मैसर्स युनाईटेड टर्नर्स प्रा. लि.
1713	9311	मैसर्स इन्टेग्रेटेड प्रेस लि.
1714	9324	मैसर्स जे के आर ट्रांसफार्मर्स इंडिया प्रा. लि.
1715	9326	मैसर्स सौरभ इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1716	9328	मैसर्स पी.जी. स्पिनर्स प्रा. लि.
1717	9329	मैसर्स यूनीवर्सल एग्रो केमीकल्स इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
1718	9330	मैसर्स बादेशा फूड्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1719	9334	मैसर्स जी. आर. स्पिनर्स प्रा. लि.
1720	9340	मैसर्स सोबर ट्रेवलर्स इंडिया प्रा. लि.
1721	9352	मैसर्स दयाल एग्रो मिल्स प्रा. लि.
1722	9357	मैसर्स वी एल बी इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
1723	9358	मैसर्स रूबल गीयर्स प्रा. लि.
1724	9360	मैसर्स सेखों आयल मिल्स प्रा. लि.
1725	9361	मैसर्स आर सी हौजरी मिल्स प्रा. लि.
1726	9366	मैसर्स पारस एग्रो इकोनोमीकल कन्जरवेशन लि.
1727	9367	मैसर्स गोविंद आयरन मिल्स प्रा. लि.
1728	9369	मैसर्स बबला इलैक्ट्रोड्स प्रा. लि.
1729	9375	मैसर्स सलवान स्पिनर्स प्रा. लि.
1730	9380	मैसर्स कुण्डल्स ऑयल मिल्स प्रा. लि.
1731	9385	मैसर्स फिटराईट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1732	9387	मैसर्स पंजाब अलॉयस प्रा. लि.
1733	9394	मैसर्स शाहनूर अलॉयस प्रा. लि.
1734	9395	मैसर्स राकेश सेल्स प्रा. लि.
1735	9397	मैसर्स एस एस ब्रिक्स प्रा. लि.
1736	9398	मैसर्स नवल स्पिनर्स प्रा. लि.
1737	9406	मैसर्स नालागढ़ एग्रो एण्ड फैब्रीकेटर्स प्रा. लि.
1738	9409	मैसर्स सुन्दर स्पिनर्स प्रा. लि.
1739	9412	मैसर्स बाजवा टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
1740	9424	मैसर्स क्यूट पेन्स प्रा. लि.
1741	9427	मैसर्स एस पी निटवीयर्स प्रा. लि.
1742	9429	मैसर्स सतलेज डिस्टिलरीज प्रा. लि.
1743	9430	मैसर्स एस्टर पोचिस प्रा. लि.
1744	9434	मैसर्स फार्मर्स फर्टीलाइजर्स प्रा. लि.

1	2	3
1745	9437	मैसर्स उत्तम एग्रो मिल्स प्रा. लि.
1746	9439	मैसर्स आर आर जी लेटक्स इंडिया प्रा. लि.
1747	9440	मैसर्स जे एन मिल्क चिलिंग सैन्टर प्रा. लि.
1748	9442	मैसर्स जया ब्लीचिंग प्रा. लि.
1749	9443	मैसर्स सुमर इलैक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1750	9445	मैसर्स एस. आर. पेट्रोल्यूम्स प्रा. लि.
1751	9448	मैसर्स डोमिनीयन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1752	9449	मैसर्स अलायड प्रोसेसर्स प्रा. लि.
1753	9450	मैसर्स गलोरी कोको फोम प्रा. लि.
1754	9455	मैसर्स लुधियाना एग्रो फूड्स प्रा. लि.
1755	9459	मैसर्स टी.जी. फुटवियर्स प्रा. लि.
1756	9463	मैसर्स सेलमैन एड प्रोमोटर्स प्रा. लि.
1757	9466	मैसर्स इजे चिकन स्पेशलिटीज प्रा. लि.
1758	9472	मैसर्स मेघ सिंथेटिक्स प्रा. लि.
1759	9473	मैसर्स गोबिन्द जिक टेक प्रा. लि.
1760	9477	मैसर्स चण्डीगढ़ प्रोफेशनल एडवाइज़र्स प्रा. लि.
1761	9478	मैसर्स सखीश राज मोटोकैब प्रा. लि.
1762	9481	मैसर्स क्रिसटल मशीन्स प्रा. लि.
1763	9486	मैसर्स किंगसवे वूलन मिल्स प्रा. लि.
1764	9495	मैसर्स स्पेशल एक्सट्रैक्ट्स इंडिया लि.
1765	9497	मैसर्स ग्रेसीएस सर्विसेस प्रा. लि.
1766	9498	मैसर्स ओसहन स्टील्स प्रा. लि.
1767	9501	मैसर्स ब्यास फायरमैस्यूटीकल्स प्रा. लि.
1768	9502	मैसर्स ओज़ला प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1769	9505	मैसर्स दत्ता रबर्स प्रा. लि.
1770	9510	मैसर्स संगरूर टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
1771	9511	मैसर्स डोमिनन मेडीकेयर प्रा. लि.
1772	9514	मैसर्स सर्वेश टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
1773	9516	मैसर्स हैपी एलॉयस प्रा. लि.
1774	9517	मैसर्स हैपी इस्प्रात प्रा. लि.
1775	9520	मैसर्स अरिहंत बुशज प्रा. लि.
1776	9521	मैसर्स हरपाल इंटरप्राइज़िज प्रा. लि.
1777	9523	मैसर्स पॉल वायर्स प्रा. लि.
1778	9533	मैसर्स हिम पेक्स प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
1779	9534	मैसर्स दीप प्लास्टिक्स प्रा. लि.	1812	9684	मैसर्स एस. जी. पोल्ट्रीज प्रा. लि.
1780	9535	मैसर्स रूबी बाक्स प्रा. लि.	1813	9687	मैसर्स रोहिणी पिगमेन्ट्स प्रा. लि.
1781	9542	मैसर्स प्रीतम फूड्स प्रा. लि.	1814	9689	मैसर्स आर.बी. फार्मास्यूटीकल्स हाउस प्रा. लि.
1782	9559	मैसर्स आर.आर. सर्विसिस प्रा. लि.	1815	9694	मैसर्स गुरपाल इंजीनियर्स एण्ड फैब्रिकेटर्स प्रा. लि.
1783	9569	मैसर्स केनसन रबर प्रा. लि.	1816	9699	मैसर्स दुर्गा एल्युमिनियम प्रा. लि.
1784	9579	मैसर्स ओमनी स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.	1817	9704	मैसर्स के एच ओवरसीज़ प्रा. लि.
1785	9590	मैसर्स विनायका ओवरसीज़ प्रा. लि.	1818	9707	मैसर्स साहिल वूल स्पिनर्स प्रा. लि.
1786	9592	मैसर्स एस के स्प्रिंग्स प्रा. लि.	1819	9708	मैसर्स हितेश स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स प्रा. लि.
1787	9593	मैसर्स जीवन आशा यार्न मारकेटिंग कम्पनी प्रा. लि.	1820	9711	मैसर्स जेम्स केबल्स प्रा. लि.
1788	9594	मैसर्स प्रकाश फरनेसिस प्रा. लि.	1821	9712	मैसर्स प्रिंसाईज सरवेज़ प्रा. लि.
1789	9598	मैसर्स चीनस टायर्स प्रा. लि.	1822	9717	मैसर्स पापुलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
1790	9600	मैसर्स अनू फैब्रिक्स प्रा. लि.	1823	9719	मैसर्स मीडिया सिस्टम्स प्रा. लि.
1791	9601	मैसर्स बेन्जर बैल्ट्स प्रा. लि.	1824	9730	मैसर्स जैदका हिमाचल बरेवरीज लि.
1792	9608	मैसर्स एडवर्ड कम्पनी पंजाब प्रा. लि.	1825	9731	मैसर्स हिन्दुस्तान बोर्ड्स लि.
1793	9613	मैसर्स एस एस कैरियर्स प्रा. लि.	1826	9743	मैसर्स एनम सिनेमा प्रा. लि.
1794	9623	मैसर्स बाहरी इंडस्ट्रियल फ्यूल्स प्रा. लि.	1827	9745	मैसर्स चन्नो स्टील स्ट्रिप्स प्रा. लि.
1795	9627	मैसर्स मेघराज फोरजिंग्स प्रा. लि.	1828	9746	मैसर्स दीप एलायज प्रा. लि.
1796	9628	मैसर्स श्री लक्ष्मी कोयल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	1829	9747	मैसर्स पंजाब ब्ल्यू टेक्स प्रा. लि.
1797	9629	मैसर्स शिवानी सर्विसेस प्रा. लि.	1830	9751	मैसर्स शिलाज पेलैस प्रा. लि.
1798	9631	मैसर्स नवयुग एलायस प्रा. लि.	1831	9759	मैसर्स प्रभदीप प्लास्टिक प्रा. लि.
1799	9632	मैसर्स शक्ति इनगोल्स प्रा. लि.	1832	9762	मैसर्स नारायण शक्ति रिप्रेजेंटेटिव्स प्रा. लि.
1800	9634	मैसर्स सनराईज फैब्रिक्स प्रा. लि.	1833	9765	मैसर्स टांडा फूड्स प्रोडक्ट्स इंडिया प्रा. लि.
1801	9635	मैसर्स ग्लैक्सी मेडीकोज प्रा. लि.	1834	9766	मैसर्स स्पर रिजोर्ट्स प्रा. लि.
1802	9644	मैसर्स अतुल पाईप्स प्रा. लि.	1835	9771	मैसर्स जे एन जी लेबोरेट्रीज प्रा. लि.
1803	9647	मैसर्स तिरुपति लैटरज प्रा. लि.	1836	9777	मैसर्स कैलसन फूड्स एण्ड केमीकल्स प्रा. लि.
1804	9648	मैसर्स निकेत प्रोपर्टीज प्रा. लि.	1837	9780	मैसर्स जसवंत फोजीज प्रा. लि.
1805	9651	मैसर्स केप्री हिम लैटरज प्रा. लि.	1838	9789	मैसर्स अटारी एक्स सर्विस मेन रोडलाइन्स प्रा. लि.
1806	9656	पालसन डिहाइड्रेटिंग कम्पनी प्रा. लि.	1839	9792	मैसर्स फैलकन रिजोर्ट्स प्रा. लि.
1807	9660	मैसर्स मोनपोर्ट इम्पैक्स प्रा. लि.	1840	9798	मैसर्स प्रिया ओवरसीज़ प्रा. लि.
1808	9668	मैसर्स गुरु तेग बहादुर ब्रिक्स प्रा. लि.	1841	9800	मैसर्स सत्यम पोलीमर्स लि.
1809	9674	मैसर्स हरमन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	1842	9815	मैसर्स ए पी एस केमटेक्स प्रा. लि.
1810	9681	मैसर्स ए ओ जी एरोनोटिक्स प्रा. लि.	1843	9821	मैसर्स अमृतसर केमीकल्स प्रा. लि.
1811	9682	मैसर्स स्किन्द फूड्स प्रा. लि.	1844	9824	मैसर्स नार्दन इंडिया स्टोन क्लीनिक प्रा. लि.

1	2	3
1845	9827	मैसर्स सन्नी सर्जिकल्स प्रा. लि.
1846	9835	मैसर्स नाम इंटरप्राइजिज प्रा. लि.
1847	9841	मैसर्स निवेदक हैचरीज एण्ड फार्म्स प्रा. लि.
1848	9844	मैसर्स युनाइटेड इंजन्स प्रा. लि.
1849	9850	मैसर्स मेघना फोकस एडवाइजर्स प्रा. लि.
1850	9852	मैसर्स सौध बिल्डर्स एण्ड डिवाइलपर्स पंजाब प्रा. लि.
1851	9856	मैसर्स मनमोहन मशीन्स प्रा. लि.
1852	9857	मैसर्स निशांत रबर्ज प्रा. लि.
1853	9858	मैसर्स लीडर मैटलज एण्ड एलायज प्रा. लि.
1854	9870	मैसर्स नार्थ इंडिया मैटलज प्रा. लि.
1855	9872	मैसर्स सेराय बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1856	9879	मैसर्स अमर सन्स गोल्ड मार्किटिंग एण्ड एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
1857	9881	मैसर्स गारनेट वूलन मिल्स प्रा. लि.
1858	9884	मैसर्स सामदर्श रियल एस्टेट्स प्रा. लि.
1859	9885	मैसर्स जीवन टायर्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि.
1860	9887	मैसर्स इंडोग्लो आर्ट स्टील प्रा. लि.
1861	9889	मैसर्स स्पीटी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1862	9891	मैसर्स रिलायएबल ड्रग्स प्रा. लि.
1863	9892	मैसर्स एक्वेस्ट फोम प्रा. लि.
1864	9893	मैसर्स स्टैलर सेल्स प्रा. लि.
1865	9894	मैसर्स स्पेसएज इम्बैलिशियर्स प्रा. लि.
1866	9897	मैसर्स असीम एंटरप्राइसेस प्रा. लि.
1867	9898	मैसर्स हनीवैल ओवरसिस प्रा. लि.
1868	9899	मैसर्स वर्धमान फोरजिंग्स प्रा. लि.
1869	9905	मैसर्स जगरांओ इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1870	9907	मैसर्स संत टायर्स एंड ट्यूब्स प्रा. लि.
1871	9908	मैसर्स डी. के. गियर्स प्रा. लि.
1872	9909	मैसर्स प्रीत यार्न्स प्रा. लि.
1873	9912	मैसर्स डी. एस. वूलन मिल्स प्रा. लि.
1874	9916	मैसर्स बीजे रबर प्रा. लि.
1875	9919	मैसर्स टी मैक इलेक्ट्रीकल्स प्रा. लि.
1876	9928	मैसर्स डी एस आर मैटा प्लास्ट इंजीनियर्स प्रा. लि.

1	2	3
1877	9934	मैसर्स गोविंद वुड प्लास्ट प्रा. लि.
1878	9940	मैसर्स श्री सीस गंज साहिब ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1879	9944	मैसर्स सेंट्रल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1880	9947	मैसर्स गोल्डी फुटवेयर प्रा. लि.
1881	9949	मैसर्स हीरा मोती होटल्स एंड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1882	9950	मैसर्स युनाइटेड जिक प्रा. लि.
1883	9951	मैसर्स अतिन कंबल्स प्रा. लि.
1884	9954	मैसर्स ओम माइनिंग इक्विपमेंट्स प्रा. लि.
1885	9964	मैसर्स एस आर कारस्टिंग प्रा. लि.
1886	9966	मैसर्स जेडीआर ड्रग्स प्रा. लि.
1887	9967	मैसर्स एस आर नाइलॉन्स प्रा. लि.
1888	9975	मैसर्स पंजाब व्हीट प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1889	9980	मैसर्स निराला इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
1890	9982	मैसर्स अरिहन्त पब्लिशिंग हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
1891	9984	मैसर्स मैजीकुक्क अपलांयसेस प्राईवेट लिमिटेड
1892	9987	मैसर्स सुरेखा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
1893	10008	मैसर्स पैप्सू एग्रो प्रा. लि.
1894	10009	मैसर्स लेखियन फूड्स प्रा. लि.
1895	10012	मैसर्स यजदा केबल्स प्रा. लि.
1896	10014	मैसर्स पी. पी. एसोसिएट्स प्रा. लि.
1897	10016	मैसर्स आरती सल्फर मिल्स प्रा. लि.
1898	10018	मैसर्स जगपाल ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
1899	10022	मैसर्स जोश केमिकल्स प्रा. लि.
1900	10031	मैसर्स महिन्द्रा मोटल्स प्रा. लि.
1901	10034	मैसर्स अनचि कन्टेनर्स प्रा. लि.
1902	10037	मैसर्स गुरु बायर्स प्रा. लि.
1903	10043	मैसर्स वलेयती राम गुप्ता कंस्ट्रक्शन्स कम्पनी प्रा. लि.
1904	10045	मैसर्स चंडीगढ़ कन्टेनर्स प्रा. लि.
1905	10048	मैसर्स चेतक प्लास्टिसाइजर्स प्रा. लि.
1906	10049	मैसर्स श्वेता प्लास्टिसाइजर्स प्रा. लि.
1907	10051	मैसर्स शक्ति ड्रग्स प्रा. लि.
1908	10052	मैसर्स के. बी. अमर इंजीनियर्स प्रा. लि.

1	2	3
1909	10056	मैसर्स सुखमनी एजेन्सिस प्रा. लि.
1910	10065	मैसर्स अन्जुम गारमेट्स प्रा. लि.
1911	10076	मैसर्स एस वी मोटर्स प्रा. लि.
1912	10093	मैसर्स नोवा फ्लेम्स प्रा. लि.
1913	10094	मैसर्स अन्नापूर्णा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
1914	10095	मैसर्स इन्डो सर्ज अरेसटोर्स प्रा. लि.
1915	10099	मैसर्स डेल्टा रेडिएटर्स प्रा. लि.
1916	10101	मैसर्स गोराया कार्ड बोर्ड्स प्रा. लि.
1917	10108	मैसर्स सिटि मरकेन्डायज़ प्रा. लि.
1918	10115	मैसर्स साहिबा स्टेशनर्स एण्ड ड्रेपर्स प्रा. लि.
1919	10137	मैसर्स जैसको रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1920	10139	मैसर्स अपोलो होटल प्रा. लि.
1921	10140	मैसर्स हेवन होटल प्रा. लि.
1922	10141	मैसर्स रिधा इंजीनियर्स एण्ड एसोसिएट्स प्रा. लि.
1923	10147	मैसर्स दशमेश स्पिनिंग प्रा. लि.
1924	10150	मैसर्स के. पी. वूलटेक्स प्रा. लि.
1925	10153	मैसर्स डेल्टा प्लास्टिक्स प्रा. लि.
1926	10160	मैसर्स विंग्स इस्टेट्स प्रा. लि.
1927	10161	मैसर्स अल्ट्रा फ्लेम्स प्रा. लि.
1928	10163	मैसर्स नोबल ओवरसिज प्रा. लि.
1929	10164	मैसर्स सन्त स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
1930	10173	मैसर्स चाहिल आटोहोज प्रा. लि.
1931	10177	मैसर्स जेसमाइन विन्डोर्स प्रा. लि.
1932	10184	मैसर्स ओरबिट मेटल्स प्रा. लि.
1933	10188	मैसर्स उपम पोलट्रीज फार्म्स प्रा. लि.
1934	10193	मैसर्स राकलाईन कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
1935	10198	मैसर्स जे एन कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
1936	10201	मैसर्स बी. डी. ब्रिक्स प्रा. लि.
1937	10204	मैसर्स अजय ओसियन एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
1938	10215	मैसर्स वी. पी. एम. पेपर्स प्रा. लि.
1939	10219	मैसर्स आर. आर. एक्सट्रुशन्स प्रा. लि.
1940	10221	मैसर्स आर. आर. जिक प्रा. लि.
1941	10222	मैसर्स वरसाटईल इंडस्ट्रीयल एसोसिएट्स प्रा. लि.

1	2	3
1942	10226	मैसर्स मनसी पोल्ट्री फार्म्स प्रा. लि.
1943	10227	मैसर्स यूनिटेक पोल्ट्री कन्सलटेंट्स प्रा. लि.
1944	10229	मैसर्स डी. बी. इन्सुलेशन प्रा. लि.
1945	10230	मैसर्स रवि कार्बोनेट्स प्रा. लि.
1946	10231	मैसर्स पोलका फूड्स प्रा. लि.
1947	10235	मैसर्स गुरु मेक ब्रिक्स प्रा. लि.
1948	10240	मैसर्स गोविन्द स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स प्रा. लि.
1949	10247	मैसर्स सप्रा फुटबियर्स प्रा. लि.
1950	10251	मैसर्स किन्नर इम्पैक्स प्रा. लि.
1951	10252	मैसर्स हिम प्रवेश होटल्स प्रा. लि.
1952	10264	मैसर्स किसन एपलिप्रेसस प्रा. लि.
1953	10266	मैसर्स रिधात एलायन्स प्रा. लि.
1954	10268	मैसर्स यंग मैन डिस्काउन्ट कार्ड्स प्रा. लि.
1955	10272	मैसर्स स्लीक आटो डोज़ प्रा. लि.
1956	10274	मैसर्स आर. एस. डिवलपर्स प्रा. लि.
1957	10289	मैसर्स आर्यना स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
1958	10292	मैसर्स सोबा फार्म्स प्रा. लि.
1959	10296	मैसर्स बेदी राईस एण्ड ऑयल मिल्स प्रा. लि.
1960	10298	मैसर्स ए एन ऑटो स्टीप कम्पनी प्रा. लि.
1961	10303	मैसर्स ए बी सी ऑयल मिल्स प्रा. लि.
1962	10309	मैसर्स एस. एस. बिल्डर्स प्रा. लि.
1963	10310	मैसर्स अमर इंडिया स्पिनर्स प्रा. लि.
1964	10312	मैसर्स अवतार गुड्स कैरियर प्रा. लि.
1965	10313	मैसर्स भारद्वाज बिल्डर्स प्रा. लि.
1966	10319	मैसर्स लुधियाना टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
1967	10320	मैसर्स फागू रिसोर्ट्स प्रा. लि.
1968	10321	मैसर्स ऋषि एसोसिएट्स प्रा. लि.
1969	10327	मैसर्स स्वामी वूलन मिल्स प्रा. लि.
1970	10328	मैसर्स अनुराधा इलेक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
1971	10329	मैसर्स शंभू इस्टेट्स प्रा. लि.
1972	10331	मैसर्स डिलों जिक सल्फेट प्रा. लि.
1973	10337	मैसर्स राज रोडलाईन्स प्रा. लि.
1974	10338	मैसर्स बंसल ट्यूब्स प्रा. लि.

1	2	3
1975	10348	मै. रोलेक्स पोलिमर्स प्रा. लि.
1976	10356	मै. लोहाम् एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
1977	10362	मै. आहूजा कोटेड कलाथ प्रा. लि.
1978	10366	मै. कलैसी हैड गियर्स प्रा. लि.
1979	10376	मै. गुरनाम सन्स ट्यूबवैल प्रा. लि.
1980	10381	मै. तारासन्स वूलन मिल्स प्रा. लि.
1981	10389	मै. सरीन स्टील्स प्रा. लि.
1982	10405	मै. ज्वालाजी गैसेज प्रा. लि.
1983	10408	मै. कमेबस रियल स्टेट प्रा. लि.
1984	10409	मै. नीरभाई ट्रेवल्स प्रा. लि.
1985	10410	मै. चंडीगढ़ सोया प्रोडक्ट प्रा. लि.
1986	10412	मै. कैपरी कोरन टो ओवरसीज़ प्रा. लि.
1987	10417	मै. अमन रियल स्टेट प्रा. लि.
1988	10418	मै. लोड्स इन्टरप्राइजेज़ प्रा. लि.
1989	10424	मै. प्रनव कुक वेयर एण्ड इम्प्लाईसंस प्रा. लि.
1990	10426	मै. फ्लैस बिजनेस एण्ड कम्प्यूनीकेशन सेन्टर प्रा. लि.
1991	10432	मै. जीवन सिन्थेटिक प्रा. लि.
1992	10434	मै. ए. एस. जी. इन्सुलेशन प्रा. लि.
1993	10441	मै. सिटिएयर कन्डीशनर एण्ड एम्पलीएंस प्रा. लि.
1994	10447	मै. मनदीप आटो फोर्ज प्रा. लि.
1995	10448	मै. कोमल बोर्ड प्रा. लि.
1996	10454	मै. गोपाल सिपनिंग मिल्स प्रा. लि.
1997	10455	मै. हेमकुन्ड कासटिंग प्रा. लि.
1998	10456	मै. कैपिटल कम्प्यूराईट बिजनेस सर्विसेस प्रा. लि.
1999	10464	मै. अरिहन्त ऑयल एण्ड फैड्स प्रा. लि.
2000	10465	मै. हिमाचल स्पनिंग एण्ड बेविंग मिल्स प्रा. लि.
2001	10472	मै. नवी एण्ड नवी इलैक्ट्रॉनिक प्रा. लि.
2002	10474	मै. रोबर्स एडवर्टाईजिंग प्रा. लि.
2003	10478	मै. जी. पी. वूलन मिल्स प्रा. लि.
2004	10484	मै. लक्ष्मी टायर मैनुफैक्चरिंग प्रा. लि.
2005	10488	मै. गनपति स्पनिंग एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.
2006	10503	मै. के. जी. एम. पोल्ट्री फार्म प्रा. लि.

1	2	3
2007	10504	मै. लुकसर आटो मोबाईल्स प्रा. लि.
2008	10505	मै. आरती फाइन फेब्रिक प्रा. लि.
2009	10507	मै. स्वेन रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2010	10513	मै. गैलेक्सी-स्टील प्रा. लि.
2011	10519	मै. किल्सन ट्रेड प्रा. लि.
2012	10524	मै. हरबंस इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
2013	10531	मै. सिवालिक पैराफाइन प्रा. लि.
2014	10533	मै. टी. सी. फोरजिंग प्रा. लि.
2015	10534	मै. टॉप वायरस प्रा. लि.
2016	10539	मै. सिल्वर ओक्स हेल्थ एंड टूरिस्ट रिजोर्ट्स प्रा. लि.
2017	10540	मै. रवी कास्टिंग प्रा. लि.
2018	10541	मै. दसमेस फुटवियर प्रा. लि.
2019	10545	मै. इंदिरा स्पाईसेस प्रा. लि.
2020	10547	मै. साई वरधान मेटल्स प्रा. लि.
2021	10549	मै. अंकित वूलन मिल्स प्रा. लि.
2022	10557	मै. निर्मल प्रोजेक्टस् एंड ईस्टेट प्रा. लि.
2023	10561	मै. दिपवीनी कार्डबोर्ड प्रा. लि.
2024	10564	मै. एसीई इलैक्ट्रॉनिक सिस्टम प्रा. लि.
2025	10586	मै. जी संस सलवेक्स प्रा. लि.
2026	10587	मै. साईचेम फारमुलेशन प्रा. लि.
2027	10591	मै. टिप्स मार्केटिंग प्रा. लि.
2028	10593	मै. पुष्प डोर प्रेम्स प्रा. लि.
2029	10600	मै. महावीर कास्टिंग प्रा. लि.
2030	10601	मै. डायनामिक वेटनरी प्रा. लि.
2031	10606	मै. स्पीडवेज टायर एंड ट्रेड प्रा. लि.
2032	10611	मै. पंजाब ब्रिक्स मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
2033	10616	मै. कुनाल स्पनिंग प्रा. लि.
2034	10619	मै. चेतक पेपर मिल्स प्रा. लि.
2035	10625	मै. वननाइट एक्सप्रेस प्रा. लि.
2036	10626	मै. जी. आर. कम्पुग्राफिक्स प्रा. लि.
2037	10627	मै. इन्ड एशिया सुइचगेयर प्रा. लि.
2038	10632	मै. मलवा हार्डवेयर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
2039	10636	मै. कनसैट टेलि विजिनेस प्रा. लि.	2072	10750	मै. डेलबयु होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
2040	10638	मै. दिल्ली पलिमर्स प्रा. लि.	2073	10768	मै. हेना इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड
2041	10643	मै. तरन इनाबेटिब एप्लाइसेस प्रा. लि.	2074	10772	मै. हिम्मत पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड
2042	10644	मै. अभी केमिकल्स प्रा. लि.	2075	10774	मै. विक्रम डीजल इंजन प्राईवेट लिमिटेड
2043	10653	मै. जेनुयन स्क्रू प्रा. लि.	2076	10775	मै. वीनस प्लाजा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2044	10654	मै. एबरशाइन फस्टेनार्स प्रा. लि.	2077	10778	मै. बेदी टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
2045	10655	मै. हिम लैन्ड फस्टनार्स प्रा. लि.	2078	10785	मै. भूपेन्द्र नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड
2046	10659	मै. बाधान ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	2079	10786	मै. डैफोडिल्स रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2047	10661	मै. सर्व ओवरसीज़ कम्पनी प्रा. लि.	2080	10787	मै. बरार आटोस प्राईवेट लिमिटेड
2048	10662	मै. एस. जी. बिल्डर्स प्रा. लि.	2081	10792	मै. कैटी पार्कस एण्ड होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
2049	10671	मै. गिरिराज केमिकल्स प्रा. लि.	2082	10796	मै. ब्लकौन लाइसेंस प्राईवेट लिमिटेड
2050	10672	मै. न्यू ट्रेड कैमप्लास्ट प्रा. लि.	2083	10797	मै. यूनीएसी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2051	10675	मै. सुरी इंस्टीच्यूट ऑफ कम्प्यूटर ट्रेनिंग प्रा. लि.	2084	10807	मै. डायमंड एलाएज़ प्राईवेट लिमिटेड
2052	10677	मै. अनिता प्लास्टिक प्रा. लि.	2085	10810	मै. आरबिट एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
2053	10678	मै. डिलक्स बस प्रा. लि.	2086	10821	मै. डाक्टर कार्बन्स प्राईवेट लिमिटेड
2054	10682	मै. पंडित प्लास्ट प्रा. लि.	2087	10822	मै. निरमान ट्रांसमिशन प्राईवेट लिमिटेड
2055	10684	मै. सिगमा कलर फ्लो स्क्रेनिंग प्रा. लि.	2088	10830	मै. ए. एच. लैबोरेट्रिज़ प्राईवेट लिमिटेड
2056	10685	मै. पग फ्लप फाईबर्स प्रा. लि.	2089	10831	मै. सनरे पैस्टीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड
2057	10687	मै. बिजय रेफ्रिजरेशन्स प्रा. लि.	2090	10841	मै. गगन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2058	10689	मै. ग्रेस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	2091	10844	मै. स्पार्कस कास्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2059	10690	मै. केन्नात होटलियर प्राईवेट लिमिटेड	2092	10846	मै. तेग इण्डस्ट्रियल फेब्रिकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2060	10698	मै. पेंसिफिक एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	2093	10848	मै. पंजाब सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2061	10701	मै. एक्सप्रेस हाईवेज़ प्राईवेट लिमिटेड	2094	10853	मै. हमीर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2062	10704	मै. करतार प्लास्टिक प्राईवेट लिमिटेड	2095	10858	मै. जगदम्बे आयरन ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
2063	10705	मै. लक्ष्मी मैडीसुन प्राईवेट लिमिटेड	2096	10866	मै. मंगलम मैटल प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2064	10715	मै. नार्दन इन्डिया स्क्रेनिंग रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	2097	10876	मै. मेडीनी एण्टरटेनमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2065	10722	मै. मनीत मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	2098	10888	मै. रंधावा फीडज प्राईवेट लिमिटेड
2066	10724	मै. तेज रोलर फ्लोर मिल्लज प्राईवेट लिमिटेड	2099	10891	मै. टी. एस. कारवेंस इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
2067	10731	मै. बेदी ब्रांस टेक्नीक प्राईवेट लिमिटेड	2100	10893	मै. माखेक्स एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
2068	10732	मै. महावीर रबर्स प्राईवेट लिमिटेड	2101	10894	मै. महाश्वेता ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
2069	10736	मै. डिनर एस. कैंटरिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	2102	10895	मै. रैमिको टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
2070	10747	मै. गामा ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	2103	10896	मै. प्रभात एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2071	10749	मै. बैराग हाईड्स होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	2104	10898	मै. पी. एन. वायर्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
2105	10911	मै. रितु एलाएज प्राईवेट लिमिटेड
2106	10919	मै. ईगल होटल्स प्राईवेट लिमिटेड
2107	10920	मै. ग्रीनलैंड आयल एण्ड वनस्पति मिलज प्राईवेट लिमिटेड
2108	10921	मै. हरजीत साईकल प्राईवेट लिमिटेड
2109	10931	मै. के. सी. एप्लायंसिस प्राईवेट लिमिटेड
2110	10932	मै. पंजाब कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड
2111	10942	मै. सूर्या स्ट्रीपस प्राईवेट लिमिटेड
2112	10944	मै. आल इंडिया गुड्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2113	10950	मै. पी. एस. कोरियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2114	10958	मै. गलेज कैम्प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड
2115	10960	मै. डिसेंट इम्पोर्ट्स एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2116	10963	मै. महेश स्पिनिंग मिलज प्राईवेट लिमिटेड
2117	10966	मै. नेहा पैलेस प्राईवेट लिमिटेड
2118	10968	मै. गोलडन कम्यूटराईज्ड एम्ब्रोडियरी प्राईवेट लिमिटेड
2119	10972	मै. लायंस फुटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2120	10975	मै. एक्सेलसियर कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2121	10979	मै. डोर स्टैप्स फूड्स एण्ड इम्प्लीमेंट्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2122	10982	मै. गुरशिवा रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2123	10985	मै. मीर कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2124	10992	मै. कर्ण क्लेवेयर प्राईवेट लिमिटेड
2125	10995	मै. डाईनेस्टी लैंडस्केप्स प्राईवेट लिमिटेड
2126	10996	मै. हर्ष टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
2127	10997	मै. श्रीराम सूर्या एसोसिएट्स लिमिटेड
2128	11006	मै. विकास टूल्स प्राईवेट लिमिटेड
2129	11010	मै. सैटेलाइट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2130	11017	मै. चण्डीगढ़ कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
2131	11021	मै. रोविनो ऑयल मिलज प्राईवेट लिमिटेड
2132	11022	मै. अप्सरा फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2133	11031	मै. ईशान एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2134	11033	मै. काहलॉ इंजीनियरिंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड
2135	11035	मै. पंचशील टूल्स एण्ड ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
2136	11037	मै. विक्रांत अल्ट्रा फास्ट कोरियर प्राईवेट लिमिटेड
2137	11058	मै. जी केस डिजीटल इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
2138	11065	मै. शिवालिक होर्टिकल्चर एण्ड लैंडस्केप कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2139	11067	मै. हेन्डसम निटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2140	11070	मै. मोदी हिम एक्सेलिस लिमिटेड
2141	11077	मै. सैकिन्दर यार्नस प्राईवेट लिमिटेड
2142	11080	मै. कॉन्टीनैन्टल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड
2143	11081	मै. हाईड्रस टैक्नीकल सर्विस एण्ड कंस्ट्रक्शन कं. प्राईवेट लिमिटेड
2144	11083	मै. डून कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड
2145	11090	मै. महा श्वेता कैमिकल्ज प्राईवेट लिमिटेड
2146	11095	मै. ए.जी.एस. पल्पस प्राईवेट लिमिटेड
2147	11101	मै. पंजाब हर्टमान स्किन्स प्राईवेट लिमिटेड
2148	11108	मै. एस.एन.एस. इन्डस्ट्रियल गैसिस लिमिटेड
2149	11112	मै. पंजाब बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
2150	11113	मै. हरपाल टूल्स एण्ड ट्रेवल्ज प्राईवेट लिमिटेड
2151	11115	मै. लक्ष्मी बैट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
2152	11118	मै. जे. एस. डुपलेक्स बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड
2153	11119	मै. यू.एन.आई. टैक्नो सिलैण्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड
2154	11122	मै. मनु वूलेन एण्ड टैक्सटाईल्स मिलज प्राईवेट लिमिटेड
2155	11123	मै. इन्सोवेटिव एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2156	11124	मै. माइक्रोलिन इंडिया लिमिटेड
2157	11130	मै. बैवरली डाइमेंशन्ज प्राईवेट लिमिटेड
2158	11133	मै. कम्फोर्ट इलेक्ट्रोस लिमिटेड
2159	11139	मै. रिक्की मैटल्ज प्राईवेट लिमिटेड
2160	11140	मै. मोर्या होटल्ज एण्ड एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड
2161	11143	मै. एक्स-सर्विसमैन सेफ्टीमैन सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
2162	11146	मै. चण्डीगढ़ प्रोएक्टर कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2163	11147	मै. रीजेंसी कम्यूनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड
2164	11150	मै. स्मार्ट वाइन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
2165	11154	मै. न्यूवेक्स फुटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड
2166	11159	मै. खालसा फ्लोर एण्ड जनरल मिल्ज प्राईवेट लिमिटेड
2167	11162	मै. आई. जी. वायर्स एण्ड स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड
2168	11168	मै. संजीव सिनेमा प्राईवेट लिमिटेड
2169	11169	मै. डायमण्ड वेयर प्राईवेट लिमिटेड
2170	11170	मै. सोएन सीमेंट्स लिमिटेड
2171	11172	मै. मालता ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2172	11186	मै. अजीत पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड
2173	11201	मै. ओलंपियन ट्रिमलाईन प्राईवेट लिमिटेड
2174	11204	मै. जोनाथन मैडीकेयर प्राईवेट लिमिटेड
2175	11206	मै. पसरीचा एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
2176	11207	मै. कावेरी एन्टरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड
2177	11217	मै. राजदीप एलाइज प्राईवेट लिमिटेड
2178	11237	मै. विकट्री सीमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2179	11239	मै. हिमशिखा इन्क्लेव्स प्राईवेट लिमिटेड
2180	11243	मै. लोभसन्ज एण्ड हिलसन्ज हाईजैनिक्स लिमिटेड
2181	11246	मै. सिंडीकेट हाऊसिंग डेवेलपमेन्ट एण्ड एम्प्लायमेंट लिमिटेड
2182	11248	मै. जे. एन. फिलामेंट प्राईवेट लिमिटेड
2183	11249	मै. चैरी पोल्ट्री प्राईवेट लिमिटेड
2184	11264	मै. श्वेता बिल्डर्स प्रा. लि.
2185	11267	मै. कर्ण एसोसिएट्स प्रा. लि.
2186	11271	मै. एक्सेस्ट ओवरसीज प्रा. लि.
2187	11272	मै. महाराजा आर्ट्स एण्ड सेरामिक्स प्रा. लि.
2188	11273	मै. मीकाडो होम केयर प्रा. लि.
2189	11278	मै. एक्सीलेन्ट शोपींग एड्स प्रा. लि.
2190	11280	मै. पोएन्य राइस एण्ड फ्लोर मील्ल्स प्रा. लि.
2191	11281	मै. दीप आयल्स मिल्स प्रा. लि.
2192	11284	मै. ओमप्रीत स्वीनीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स प्रा. लि.
2193	11285	मै. गुरु फारमासीटिकल्स प्रा. लि.
2194	11295	मै. बेन्स इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
2195	11303	मै. जिप्सी रीसोर्ट्स प्रा. लि.
2196	11305	मै. किन्दारनाथ किशन चन्द प्रा. लि.

1	2	3
2197	11311	मै. भावना पोल्ट्रीस प्रा. लि.
2198	11314	मै. सुधा फास्टनर्स प्रा. लि.
2199	11318	मै. दीप ऐरोसोलस प्रा. लि.
2200	11319	मै. जयाना इन्जीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
2201	11322	मै. तरंग यूनिकोम इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
2202	11323	मै. बिमला तीरथ ब्रेवरीज प्रा. लि.
2203	11326	मै. रेनूका वूलन्स प्रा. लि.
2204	11329	मै. एरीयल ट्रेवल्स प्रा. लि.
2205	11330	मै. चौपड़ा ट्रेक्टर्स प्रा. लि.
2206	11333	मै. गोविन्द इन्डस्ट्रीज प्रा. लि.
2207	11342	मै. त्रिवेनि हाऊसिंग एण्ड एग्री डेवलपमेन्ट प्रा. लि.
2208	11345	मै. वी. आर गारमेन्ट्स लि.
2209	11353	मै. आशु पेपर मील्ल्स प्रा. लि.
2210	11360	मै. विए मार्कीटिंग प्रा. लि.
2211	11365	मै. एच. के. टैकटेनीक इन्डिया प्रा. लि.
2212	11366	मै. चैलेन्जर मैडिसीन मै. कम्पनी प्रा. लि.
2213	11371	मै. जेमनी स्विच गेयर्स प्रा. लि.
2214	11382	मै. अम्बे मां होस्पीटल्स प्रा. लि.
2215	11383	मै. सापी कम्प्यू स्टेशनर्स प्रा. लि.
2216	11384	मै. शिमला हील्स एग्री फूड प्रोसेसींग कम्पनी प्रा. लि.
2217	11385	मै. ए. बी. कोसी केम फारमूलेसन्स प्रा. लि.
2218	11395	मै. कैपकोन प्लास्टिक एण्ड इन्जीनीयर्स प्रा. लि.
2219	11397	मै. जिर कोन एग्रीसील लिमिटेड
2220	11398	मै. क्रीएसन वायरस प्रा. लि.
2221	11402	मै. नोर्थ इन्डिया कंक्रिट्स लि.
2222	11410	मै. एच. बी. होटल्स प्रा. लि.
2223	11412	मै. गनेस वूलन मील्ल्स प्रा. लि.
2224	11421	मै. वरुण इन्टर प्राइजेज प्रा. लि.
2225	11422	मै. मोहिन्दरवल्स आयेक्याप्ट एसोसीएट्स प्रा. लि.
2226	11428	मै. ए. डी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
2227	11429	मै. रेने एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
2228	11430	मै. कण्डी एलोज प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
2229	11436	मै. अनुराग बिजनैस सर्विसस प्राईवेट लिमिटेड	2262	11558	मै. ओसट्रीच ट्रेडिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
2230	11441	मै. आर. एस. प्रीसिशन इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	2263	11559	मै. सुधा स्टील रोलिंग मिलज प्राईवेट लिमिटेड
2231	11442	मै. सुपर टैक सटेपल्स प्राईवेट लिमिटेड	2264	11562	मै. ए. बी. एन्टर प्राईसिस प्राईवेट लिमिटेड
2232	11448	मै. मोहसित पालीमर्स प्राईवेट लिमिटेड	2265	11564	मै. हेलीकाल स्प्रिंग्स लिमिटेड
2233	11458	मै. मेजर रबर प्राईवेट लिमिटेड	2266	11565	मै. बीजीएस टैको प्राईवेट लिमिटेड
2234	11461	मै. अरीहन्त सटूक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	2267	11566	मै. हिमांशु एग्रो सेल्ज प्राईवेट लिमिटेड
2235	11482	मै. राजिन्द्रा फरनैस प्राईवेट लिमिटेड	2268	11567	मै. पूर्णिमा सेल्स प्रा. लि.
2236	11484	मै. मनीकरण बिल्डर्ज प्राईवेट लिमिटेड	2269	11568	मै. ए.बी. मार्केटिंग प्रा. लि.
2237	11489	मै. पूजा मोटर्स लिमिटेड	2270	11569	मै. अर्स ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
2238	11493	मै. गैलेंट वायर्ज प्राईवेट लिमिटेड	2271	11570	मै. टहल सिंह फूड्स प्रा. लि.
2239	11494	मै. गुरदीप टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	2272	11576	मै. प्रीमियम पेपर्स लि.
2240	11495	मै. भगवती पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	2273	11585	मै. एच. एम. एस. इन्जीनीयर्स प्रा. लि.
2241	11498	मै. इंजी फूडज प्राईवेट लिमिटेड	2274	11588	मै. मैक मैटेल्स प्रा. लि.
2242	11501	मै. सरोमस टैक्स ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	2275	11595	मै. एस. एस. रैमेडीज प्रा. लि.
2243	11502	मै. एन सी रोलर फ्लोर मिलज प्राईवेट लिमिटेड	2276	11603	मै. जे. आर. एन. मर्केन्टाइल एण्ड कन्सल्टेन्ट्स प्रा. लि.
2244	11504	मै. वी एस वाल्वज प्राईवेट लिमिटेड	2277	11604	मै. अनन्त पफ्यूमर्ज प्रा. लि.
2245	11509	मै. सनरोज हाऊस बिल्डिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	2278	11605	मै. जैन सन्स स्पीनींग एण्ड वीविंग मिल प्रा. लि.
2246	11512	मै. करिशमा ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड	2279	11610	मै. जस मैकेनिका प्रा. लि.
2247	11513	मै. गिल स्टील्ज प्राईवेट लिमिटेड	2280	11611	मै. डेक्स्ट फारमास्यूटिकल्स प्रा. लि.
2248	11515	मै. निर्मल रिम्ज प्राईवेट लिमिटेड	2281	11616	मै. एम. एस. एस. हाऊसिंग डवलपमेन्ट इंडिया लि.
2249	11517	मै. एंग्रीश पाईप्स प्राईवेट लिमिटेड	2282	11628	मै. ऋषि अपलीएन्सिज प्रा. लि.
2250	11520	मै. नासा राईस एण्ड जनरल मिलज प्राईवेट लिमिटेड	2283	11631	मै. पंजाब टूर एण्ड ट्रेवल प्रा. लि.
2251	11521	मै. चावला प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	2284	11632	मै. फार्म रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2252	11525	मै. नारदर्न लाईस ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	2285	11638	मै. जीवन इन्टरप्राइजिज प्रा. लि.
2253	11527	मै. गुडमैन आटो प्राईवेट लिमिटेड	2286	11642	मै. चांदी कम्प्यूटर पेपर्स प्रा. लि.
2254	11528	मै. नकोदर आल्को कैमिकल्ज लिमिटेड	2287	11643	मै. पटियाला एलोयज एण्ड फोरजिंग प्रा. लि.
2255	11535	मै. एस पी सप्लायर्स प्राईवेट लिमिटेड	2288	11645	मै. एग्रोमाइन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2256	11539	मै. युवराज स्पीनर्ज प्राईवेट लिमिटेड	2289	11646	मै. एम बी सीमेन्ट प्रा. लि.
2257	11541	मै. एम बी मैटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	2290	11647	मै. मालवा फुटवियर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2258	11543	मै. हनी फोर्जिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	2291	11652	मै. एल्प्स इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
2259	11547	मै. पुपनेजा ट्रेडर्ज प्राईवेट लिमिटेड	2292	11656	मै. पीताम्बर नितवेयर प्रा. लि.
2260	11549	मै. मैंगक्रोम एलेज इंडिया लिमिटेड	2293	11663	मै. यूनाईटेड फोरेस्ट्री एण्ड फ्लैट्स प्रा. लि.
2261	11557	मै. निष्पन इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड			

1	2	3
2294	11679	मै. रीजेन्ट टायर्स प्रा. लि.
2295	11680	मै. ओपी साइकिल्स प्रा. लि.
2296	11684	मै. पुशप टूरिस्ट रिपोर्ट प्रा. लि.
2297	11690	मै. अकाल स्टील्ज लि.
2298	11691	मै. आर. एस. डी. रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2299	11693	मै. फेयरफेक्स बिजनेस इन्फार्मेशन एण्ड कन्सल्टेंट्स प्रा. लि.
2300	11698	मै. राना पेन्ट्स प्रा. लि.
2301	11701	मै. एम. वी. आई. केसेट्स प्रा. लि.
2302	11702	मै. दस्तर प्रेस प्रा. लि.
2303	11703	मै. मोगरा मार्किटिंग प्रा. लि.
2304	11704	मै. अशवान एग्रो कैमिकल्स प्रा. लि.
2305	11710	मै. हिमालया क्लब लि.
2306	11713	मै. चन्डीगढ़ डिटर्जेंट्स प्रा. लि.
2307	11719	मै. शिमला प्रोमोटर्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
2308	11721	मै. नागपाल कल्टीवेटर्स प्रा. लि.
2309	11725	मै. टी. जी. कैमिकल्स प्रा. लि.
2310	11726	मै. ए. एम. ए. एसोसिएट्स प्रा. लि.
2311	11740	मै. गोईदवाल मेटल प्रोसेसर्स प्रा. लि.
2312	11746	मै. जूपीटर जेम्स प्रा. लि.
2313	11747	मै. ग्लोरियस इंडस्ट्रीयल ड्यूब्स प्रा. लि.
2314	11749	मै. बासपुर कैमिकल्स फ्लूड प्रा. लि.
2315	11756	मै. टेकनिका इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
2316	11759	मै. इन्डोग्रीक लेबोरेट्रीज इण्डिया लि.
2317	11761	मै. संदीप रोलर फ्लोर मिल्ल प्रा. लि.
2318	11763	मै. हिमाचल कोरियर्स प्रा. लि.
2319	11764	मै. सनरेज कूरीयर्स प्रा. लि.
2320	11766	मै. अणू पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2321	11789	मै. मान आटो पार्ट्स प्रा. लि.
2322	11794	मै. धालीवाल मार्किटिंग एसोसिएट्स प्रा. लि.
2323	11796	मै. एफ. एम. पम्प प्रा. लि.
2324	11800	मै. सत्वंत रोडवेज प्रा. लि.
2325	11801	मै. टेक्सला ऑफसेट एण्ड पैकेजिंग प्रा. लि.

1	2	3
2326	11802	मै. एम. एम. हार्डवेयर प्रा. लि.
2327	11804	मै. क्रिएटिव एनेलैसिस एण्ड कन्सेप्ट्स प्रा. लि.
2328	11819	मै. दलीप लेमीनेटर्ज प्रा. लि.
2329	11828	मै. उत्तम टायर्स प्रा. लि.
2330	11829	मै. शीतल आयलज़ एण्ड फैट्स प्रा. लि.
2331	11832	मै. महरदीप रीक्लेम रबर्स प्रा. लि.
2332	11836	मै. कोसमोस माइक्रो सिस्टम्ज प्रा. लि.
2333	11840	मै. फोनिकस रबको प्रा. लि.
2334	11842	मै. क्रक्स मार्किटिंग प्रा. लि.
2335	11846	मै. आलथीआ फूड्स लि.
2336	11849	मै. डायनामिक टनरीज़ प्रा. लि.
2337	11851	मै. मालवा फैब्र प्रा. लि.
2338	11852	मै. जम्मी मिल्क फूड प्रा. लि.
2339	11853	मै. पंजाब आर्गनिक्स प्रा. लि.
2340	11858	मै. सदाशिव प्रिंट पैक वर्क्स लि.
2341	11860	मै. राधेश्याम डेयरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2342	11864	मै. विद्या रीरोलिंग्स मिल्ल प्रा. लि.
2343	11866	मै. जेड ई मैटल्स प्रा. लि.
2344	11871	मै. अतुल सीमेंट प्रा. लि.
2345	11875	मै. साहिब स्पिनर्ज प्रा. लि.
2346	11876	मै. सिद्धार्थ मीडिया पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
2347	11887	मै. ओबजॉरबर कम्पाउन्ड्स प्रा. लि.
2348	11888	मै. सी आर स्ट्राईप्स एण्ड ड्यूब्स प्रा. लि.
2349	11889	मै. नेचुरल लेमीनेट्स प्रा. लि.
2350	11898	मै. रोयल लीवज़ प्रा. लि.
2351	11905	मै. वल्लभ नैरो फैब्रिक्स प्रा. लि.
2352	11909	मै. आशा कॉटन मिल्ल प्रा. लि.
2353	11911	मै. एफ एल बोटलिंग प्लांट प्रा. लि.
2354	11912	मै. गोविंद पाईप्स प्रा. लि.
2355	11922	मै. एस. जी. एस. हाईड्रोलिक्स इंडिया प्रा. लि.
2356	11923	मै. श्री हेमकुन्ट स्पीनिंग मिल्स प्रा. लि.
2357	11928	मै. पुष्पलोक होटल्स प्रा. लि.
2358	11929	मै. एडवॉंस ब्लक कैरियर्स प्रा. लि.

1	2	3
2359	11930	मै. ईज एप्लाइसिज प्रा. लि.
2360	11935	मै. बी. एस. आहूजा एस्टेट्स प्रा. लि.
2361	11943	मै. बीर सेल्स प्रा. लि.
2362	11946	मै. आरती कलर्स प्रा. लि.
2363	11949	मै. सच्चरसन मरकेन्टइल्स प्रा. लि.
2364	11952	मै. एरो टफन्ड ग्लास प्रा. लि.
2365	11960	मै. कुलदीप कार स्कैनिंग प्रा. लि.
2366	11963	मै. सागर रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
2367	11966	मै. शिवालिक प्लास्टिक्स प्रा. लि.
2368	11971	मै. आर. एम. ओवरसीज़ लि.
2369	11976	मै. पूनमहिम इलैक्ट्रिकल्स प्रा. लि.
2370	11979	मै. सैवन स्टार वायरस प्रा. लि.
2371	11980	मै. आलमगीर प्लास्टिक्स प्रा. लि.
2372	11982	मै. एन के इंडस्ट्रीयल एडवाइज़र्स प्रा. लि.
2373	11983	मै. सन्धू लैडर्स प्रा. लि.
2374	11987	मै. सोवरिन रिसोर्ट्स एंड बिल्डर्स प्रा. लि.
2375	11989	मै. पुरी बिल्डर्स लि.
2376	11990	मै. जोदका टेक्सटाइल मिल्स प्रा. लि.
2377	11992	मै. चंडीगढ़ डैन्टल प्रा. लि.
2378	11993	मै. जी. बी. इम्पेक्स प्रा. लि.
2379	11997	मै. सिदाना फूड्स स्पेशियलिस्ट प्रा. लि.
2380	11998	मै. स्लैक्शन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
2381	12000	मै. राज व्हील्स प्रा. लि.
2382	12002	मै. सैन्चुरी इलैक्ट्रोड्स प्रा. लि.
2383	12005	मै. टीम अप इम्पेक्स प्रा. लि.
2384	12006	मै. नैमीयक्स कलर्ज प्रा. लि.
2385	12038	मै. डी. के. बिजीनेस सर्विसिज प्रा. लि.
2386	12045	मै. शंकर लाल शारदा ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
2387	12046	मै. नारायण कॉटन ट्रेडर्स प्रा. लि.
2388	12047	मै. शारदा एंड संस ट्रेडर्स प्रा. लि.
2389	12051	मै. समाज हाऊसिंग डेवलपमेंट (इंडिया) लि.
2390	12054	मै. कोमेत मार्केटिंग प्रा. लि.
2391	12061	मै. स्काईवे इम्पेक्स प्रा. लि.

1	2	3
2392	12065	मै. दासूया एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2393	12068	मै. चौहान डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
2394	12070	मै. जुपीटर टैनरीज प्रा. लि.
2395	12074	मै. मोर रबर्स प्रा. लि.
2396	12078	मै. सियरा बिल्डर्स प्रा. लि.
2397	12080	मै. डब्ल्यू एच एडवैन्सर ट्रेवल प्रा. लि.
2398	12083	मै. एस स्पोर्ट्स प्रा. लि.
2399	12088	मै. जै अम्बे स्टील्स प्रा. लि.
2400	12092	मै. परवातेश्वर होटल्स एण्ड रिजोर्ट्स प्रा. लि.
2401	12094	मै. मोईन ट्रेवल्स प्रा. लि.
2402	12096	मै. हिमाचल आयरन एण्ड स्टील प्रा. लि.
2403	12114	मै. बीर सेनेटरी वेयर्स प्रा. लि.
2404	12118	मै. ए बी डार्ड-कैम प्रा. लि.
2405	12121	मै. सेमसन्स गैसेस प्रा. लि.
2406	12124	मै. सिधूवाल सेल्स प्रा. लि.
2407	12131	मै. ग्रेहाऊंड रोड लाईन्स प्रा. लि.
2408	12132	मै. बहीया ट्रेवल्स प्रा. लि.
2409	12134	मै. संजय राकेश फुटवीयर प्रा. लि.
2410	12135	मै. विशाल केम-टेक प्रा. लि.
2411	12146	मै. नटराज रिम्ज प्रा. लि.
2412	12147	मै. आनंद कास्टिंग प्रा. लि.
2413	12150	मै. चामुण्डा होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्स प्रा. लि.
2414	12156	मै. मेक्स एक्सपोर्ट्स लि.
2415	12158	मै. टहल सिंह डिलीसियस प्रा. लि.
2416	12167	मै. एडम रिक्विंग सर्विसिस प्रा. लि.
2417	12170	मै. मोहिन्दरा ऑफसेट प्रिंटर्ज प्रा. लि.
2418	12173	मै. करन निटवीयर्स प्रा. लि.
2419	12174	मै. नीट्स केमीकल्स एण्ड एलाईड वर्क्स प्रा. लि.
2420	12176	मै. एम. एल. फूड्स प्रा. लि.
2421	12178	मै. सतलुज पोली प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2422	12192	मै. भाइका लेदरवेयर प्रा. लि.
2423	12196	मै. किसकीन स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
2424	12200	मै. हिमालयन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
2425	12206	मै. सोनू इन्टरप्राइजिस प्रा. लि.
2426	12210	मै. अरदन एनर्जीज लि.
2427	12217	मै. थापर टायर्स लि.
2428	12223	मै. थापर आर्गेनिक्स लि.
2429	12224	मै. खालसा टैक्सटाइल्स प्रा. लि.
2430	12225	मै. थापर टी लि.
2431	12226	मै. थापर सीमेंट्स लि.
2432	12227	मै. जी केमीकल्स प्रा. लि.
2433	12232	मै. लखानी टायर्स प्रा. लि.
2434	12236	मै. सिंगला पोलीमर्स प्रा. लि.
2435	12247	मै. सुन्दर सोलवेक्स प्रा. लि.
2436	12249	मै. सुन्दर मिल्क एण्ड एलाईड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2437	12265	मै. ए. एम. आयल एण्ड फैट्स लि.
2438	12275	मै. क्रियेटिक मार्केटिंग एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2439	12280	मै. के. आर. पैकर्स प्रा. लि.
2440	12287	मै. एम. आर. एस. इम्पेक्स प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
2441	12294	मै. शाहिना मास्टर्स बिल्डर्स प्रा. लि.
2442	12300	मै. स्टर्लिंग बेकरिस प्रा. लि.
2443	12306	मै. ड्यूरेबल क्वायर प्रा. लि.
2444	12310	मै. आई. बी. पी. ओवरसीज प्रा. लि.
2445	12311	मै. पुनम इन्टरप्राइसेस प्रा. लि.
2446	12312	मै. किदारसंस मार्केटिंग कम्पनी प्रा. लि.
2447	12320	मै. फिनेक्स केम्स एण्ड गैसेज प्रा. लि.
2448	12324	मै. शिव शक्ति एल्युमिनियम प्रा. लि.
2449	12329	मै. सुल्तान कूल ड्रिंक्स प्रा. लि.
2450	12330	मै. संधु कैरियर्स प्रा. लि.
2451	12331	मै. बी. जे. एस. पेपर मिल्स प्रा. लि.
2452	12347	मै. पंजाब स्ट्रीप्स लि.
2453	12349	मै. अम्कैस होटल्स प्रा. लि.
2454	12350	मै. ए. एस. गारमेन्ट्स प्रा. लि.
2455	12353	मै. ए. पी. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
2456	12357	मै. त्रिवेनी ऑटो ससपेन्सज प्रा. लि.
2457	12358	मै. सी. पी. एस. ईस्टेड्स प्रा. लि.

1	2	3
2458	12360	मै. सुपर टेक्नो ट्रांसफार्मस प्रा. लि.
2459	12361	मै. हेवन होजरी प्रा. लि.
2460	12362	मै. मलिक इन्टरप्राइसिस प्रा. लि.
2461	12365	मै. के. के. नियो-विजन प्रा. लि.
2462	12376	मै. सेलुलॉसिक इंजिनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
2463	12377	मै. साफ्टमार्ट कम्प्युटेक प्रा. लि.
2464	12379	मै. स्वास्ति क फैट्स प्रा. लि.
2465	12384	मै. चातरथ एंड कम्पनी इम्पेक्स प्रा. लि.
2466	12387	मै. टैब ट्रीटमेन्ट क्लीनिक्स प्रा. लि.
2467	12397	मै. आशीष पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
2468	12398	मै. सुरभी ट्रेड इन्टरप्राइसेस प्रा. लि.
2469	12405	मै. ईन्डस हरबल रैमेडिस प्रा. लि.
2470	12412	मै. अमर ग्रैंड प्रा. लि.
2471	12417	मै. शानोन सेल्स प्रा. लि.
2472	12418	मै. पंजाब पेपर बाक्स प्रा. लि.
2473	12427	मै. प्रतप सुविंग मशीन्स प्रा. लि.
2474	12435	मै. वरिंदर रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
2475	12437	मै. हाईवेज एग्रोफूड्स एण्ड मिल्क प्रोसेसर्स प्रा. लि.
2476	12448	मै. संत केमी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
2477	12452	मै. एस. बी. एग्रो इन्टरप्राइसेस प्रा. लि.
2478	12453	मै. एरो कम्प्रेसर्स प्रा. लि.
2479	12455	मै. ट्रिपलैक्स फाइबर्स प्रा. लि.
2480	12456	मै. एम. एम. फाइबर्स प्रा. लि.
2481	12459	मै. मल्होत्रा कलर लैब प्रा. लि.
2482	12460	मै. यार्क लैडर प्रा. लि.
2483	12474	मै. निस्था कूलड फोरज प्रा. लि.
2484	12477	मै. मिथुल एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2485	12480	मै. हिलमैन होटल्स एण्ड रिसॉर्ट्स प्रा. लि.
2486	12482	मै. जाप एसोसिएट्स इंजीनियर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स प्रा. लि.
2487	12484	मै. ओशान होस्पिटल एण्ड मेडीकल एजुकेशन सेंटर प्रा. लि.
2488	12490	मै. बैरोन एरोटेक लि.

1	2	3	1	2	3
2489	12493	मै. अक्षय वूलन्स प्रा. लि.	2522	12681	मै. चौधरी वैलडिंग इलेक्ट्रोड्स प्रा. लि.
2490	12494	मै. पार एक्सलेंस मोटर वर्क्स प्रा. लि.	2523	12683	मै. सन डाटा मैट्रिक्स सर्विसेज प्रा. लि.
2491	12495	मै. रीजेन्सी इम्पैक्स प्रा. लि.	2524	12688	मै. नार्थ साऊथ इंजीनियरिंग प्रा. लि.
2492	12496	मै. रिशभ निटवियर्स प्रा. लि.	2525	12692	मै. पारस कास्मैटिक्स एण्ड ड्रग्स प्रा. लि.
2493	12500	मै. अरोड़ा इस्पात इण्टरप्राईसिस प्रा. लि.	2526	12702	मै. भ्राता लीजिंग एस्टेट्स एण्ड बिल्डर्स प्रा. लि.
2494	12502	मै. संग्राम सीमेन्ट्स प्रा. लि.	2527	12709	मै. त्रिमूर्ति मशीन्स लि.
2495	12503	मै. अम्बिका सिस्टम्स प्रा. लि.	2528	12712	मै. अटलांटिक रेमीडीज प्रा. लि.
2496	12513	मै. आर. वी. मेटल वर्क्स प्रा. लि.	2529	12713	मै. नंगल कैमीकल्स प्रा. लि.
2497	12518	मै. मोतानिया इलेक्ट्रिकल एप्लायंसिस प्रा. लि.	2530	12728	मै. बाठ ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
2498	12521	मै. बी. के. लैबोरेट्रीज प्रा. लि.	2531	12740	मै. मिमोरी प्रिन्टैक वर्क्स प्रा. लि.
2499	12526	मै. के. पी. रबर्स प्रा. लि.	2532	12741	मै. लिंक वे कोरियर्स प्रा. लि.
2500	12527	मै. अकाल सहाय ब्रीक वर्क्स प्रा. लि.	2533	12749	मै. ए. जी. आरगेनिक्स प्रा. लि.
2501	12540	मै. पवार सीमेंट्स प्रा. लि.	2534	12751	मै. सन्दल स्टील्स प्रा. लि.
2502	12543	मै. लासको इंजिनियर्स प्रा. लि.	2535	12757	मै. मैसो एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2503	12546	मै. कण्डी जियोलोजिकल वर्क्स प्रा. लि.	2536	12766	मै. मान्डव ट्रांसफार्मस उद्योग प्रा. लि.
2504	12547	मै. मैरीगोल्ड एप्लायंसिस प्रा. लि.	2537	12773	मै. एवरशाइन कान्कास्ट प्रा. लि.
2505	12549	मै. बीर भारती न्यूजस मीडिया प्रा. लि.	2538	12779	मै. तायल टैक्सटाइल्स प्रा. लि.
2506	12565	मै. क्वालिटी सिलीकोन स्टाम्पिंग्स प्रा. लि.	2539	12780	मै. मालवा आरगेनिक्स प्रा. लि.
2507	12580	मै. हैलीकोन पेंट्स प्रा. लि.	2540	12781	मै. एम. एल. रिजोर्ट्स प्रा. लि.
2508	12585	मै. एम. के. एस. फॉर्जिंग्स प्रा. लि.	2541	12784	मै. क्रिएटिव कंट्रैक्टर्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.
2509	12600	मै. ब्लू विंग्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2542	12792	मै. बराड़ हाइवेज मोटर्स प्रा. लि.
2510	12603	मै. अरुण रिसोर्ट्स प्रा. लि.	2543	12801	मै. अंगद एक्यूमेलेटर्स प्रा. लि.
2511	12614	मै. मून लाइट कोरियर प्रा. लि.	2544	12812	मै. बेदी टायर सैन्टर प्रा. लि.
2512	12615	मै. एम. एच. मेटलज प्रा. लि.	2545	12814	मै. एकरूप ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
2513	12625	मै. न्यू सम्राट फर्निशर्स एण्ड डेकोरेटर्स प्रा. लि.	2546	12824	मै. सुखमणी क्राफ्ट्स लि.
2514	12628	मै. नेक्टर इण्डिया लि.	2547	12825	मै. सुखमणी पेपर्स लि.
2515	12629	मै. रामपुरा सोल्वेक्स प्रा. लि.	2548	12826	मै. लुधियाना सिंथेटिक्स प्रा. लि.
2516	12638	मै. मलकियत पेपर्स लि.	2549	12834	मै. जीकोन इम्पैक्स प्रा. लि.
2517	12659	मै. कलेटोन इक्विपमेंट्स प्रा. लि.	2550	12854	मै. पंजाब पल्प प्रा. लि.
2518	12669	मै. हार्ड-ग्रिप रबर प्रा. लि.	2551	12858	मै. डिल्लों मशीन्स प्रा. लि.
2519	12675	मै. मोहित पोलीपैक्स प्रा. लि.	2552	12874	मै. पंजाब इन्सेक्टीसाइड्स लि.
2520	12676	मै. शेखों एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2553	12879	मै. औमेक्स रबर्ज प्रा. लि.
2521	12677	मै. ए. के. गुप्ता कन्ट्रैक्टर्स प्रा. लि.	2554	12883	मै. जालन्धर रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.

1	2	3
2555	12884	मै. तिनगोस फूड्स प्रा. लि.
2556	12887	मै. गंगोत्री काउन्टस प्रा. लि.
2557	12889	मै. फाइव स्टार स्पोर्ट्स प्रा. लि.
2558	12893	मै. गुरु एलाऐज लि.
2559	12894	मै. सपाकल सेनीटेरियन इंडिया प्रा. लि.
2560	12896	मै. सोबादी ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
2561	12899	मै. विकास साईकल पार्स प्रा. लि.
2562	12901	मै. सोनीका पेंट्स लि.
2563	12904	मै. बेनसिम गोरमैन्ट्स प्रा. लि.
2564	12909	मै. कलेटेक सेरामिक्स प्रा. लि.
2565	12911	मै. डी सेन्ट शूजस प्रा. लि.
2566	12915	मै. मै. जी.पी. सतलुज साईकल्स प्रा. लि.
2567	12916	मै. रोनी आटोमोबिल्स प्रा. लि.
2568	12921	मै. एन.जे. एग्रीकल्चर इम्प्लीमेन्ट्स प्रा. लि.
2569	12934	मै. शाहकोट ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
2570	12940	मै. एस्केला रेमीडी प्रा. लि.
2571	12945	मै. फुरन्टीयर ट्रेवल्स प्रा. लि.
2572	12952	मै. मेघा वूलन मिल्स प्रा. लि.
2573	12955	मै. अमृत हाऊसिंग प्रा. लि.
2574	12959	मै. चीफ एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2575	12966	मै. आर.के. व्हील्ज प्रा. लि.
2576	12972	मै. डलेव्यू रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2577	12974	मै. मोगा कॉस्टिंग प्रा. लि.
2578	12982	मै. धौलाधार फ़ैब्रिकेटर्स प्रा. लि.
2579	12983	मै. ओसवाल कोटसिन लि.
2580	12990	मै. बठिण्डा स्पिनिंग मिल्स प्रा. लि.
2581	12992	मै. ए एण्ड ए स्टील्स प्रा. लि.
2582	12993	मै. नोबिया बीमेन्ट्स प्रा. लि.
2583	12994	मै. बेलटेक्स कम्यूनिकेशन प्रा. लि.
2584	12997	मै. प्रीमीयर फ्लोरिंगस प्रा. लि.
2585	13001	मै. अशवन डिस्ट्रीब्यूटरज़ लि.
2586	13013	मै. जैपसन रेमडीज़ लि.
2587	13014	मै. लैक्सस बायोटेक प्रा. लि.

1	2	3
2588	13015	मै. किसान इलैक्ट्रोड्स प्रा. लि.
2589	13016	मै. सुखदर्शन फोरजिंग प्रा. लि.
2590	13019	मै. टूडोरोज फूड्स एण्ड बेवरेजीस इंडिया प्रा. लि.
2591	13026	मै. जगदम्बे ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
2592	13028	मै. ओलम्पिक एग्रीओथल्स लि.
2593	13034	मै. रानास डिजाइनर साडीज प्रा. लि.
2594	13035	मै. अर्जुन मोटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2595	13042	मै. शीटेक्स टेक्सटाईल्स प्रा. लि.
2596	13043	मै. नेस्ट्स बिल्डर्स प्रा. लि.
2597	13048	मै. शेल्टर बे लेदर्स लि.
2598	13058	मै. विर्क एक्सपोर्ट्स एण्ड मैनपावर मैनेजमेन्ट सर्विसज़ प्रा. लि.
2599	13059	मै. हंस एलाय वर्क्स प्रा. लि.
2600	13060	मै. दीप-फोर्ज इंडिया प्रा. लि.
2601	13068	मै. वक्त प्रिन्टर्स प्रा. लि.
2602	13084	मै. जी.के. वूलन मिल्स प्रा. लि.
2603	13085	मै. ओ बी मिल्क फूड प्रा. लि.
2604	13087	मै. नोट प्लास्टो फेब प्रा. लि.
2605	13088	मै. ओवरलाईन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
2606	13110	मै. सरदार नछतर सिंह गिल एजुकेशनल एण्ड स्पोर्ट्स क्लब प्रा. लि.
2607	13116	मै. पंजाबी मीडिया प्रा. लि.
2608	13122	मै. लल्ली इम्पेक्स प्रा. लि.
2609	13124	मै. मलकित ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
2610	13126	मै. मास्टर लैदर्स प्रा. लि.
2611	13131	मै. ताचिया प्रिन्टर्स प्रा. लि.
2612	13145	मै. भागवन्ती बिल्डर्स प्रा. लि.
2613	13174	मै. अल्का ओवरसिज़ प्रा. लि.
2614	13188	मै. इलैक्ट्रोकोहली इंडिया प्रा. लि.
2615	13208	मै. शिवम् प्रिन्टैक प्रा. लि.
2616	13220	मै. चावला फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
2617	13228	मै. जे. टी. स्टील ट्यूब्स प्रा. लि.
2618	13233	मै. फॉरवर्ड फ़ोर्जर्स प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
2619	13246	मै. महारानी दाल एण्ड जनरल मिल्स प्रा. लि.	2651	13368	मै. वीनस स्टेशनरी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2620	13247	मै. चैतन्य एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2652	13370	मै. जी.टी. स्टील प्रा. लि.
2621	13248	मै. रेनसन्स रबर्स प्रा. लि.	2653	13372	मै. जी. के. गनीज़ प्रा. लि.
2622	13253	मै. टॉवरहिल इम्पैक्स सर्विस प्रा. लि.	2654	13373	मै. दलजीत कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
2623	13254	मै. महाजन डिस्टिलरी लि.	2655	13379	मै. सूर्या प्रेशर कुकर प्रा. लि.
2624	13255	मै. संघा रियल इस्टेट प्रा. लि.	2656	13382	मै. अपेंजिल रीमेडोज एण्ड एंटरप्राइसिस प्रा. लि.
2625	13259	मै. यूनाइटेड इलैक्ट्रो इक्वीपमेंट्स प्रा. लि.	2657	13391	मै. नहरा कन्सलटैंसी सर्विसेस प्रा. लि.
2626	13262	मै. वी. एम. कम्प्यूटैक फाइनांशियल सर्विस प्रा. लि.	2658	13414	मै. सार फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
2627	13265	मै. सिम्बा कम्प्यूटर प्रा. लि.	2659	13432	मै. कुमार गैसिस प्रा. लि.
2628	13268	मै. पराकीट मोटल्स प्रा. लि.	2660	13444	मै. पटियाला कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
2629	13283	मै. ब्रॉडवे कन्सल्टैंसी सर्विस प्रा. लि.	2661	13450	मै. जे. बी. इन्सूलेटर्स प्रा. लि.
2630	13287	मै. एक्सैल इनडक्शन्स प्रा. लि.	2662	13453	मै. गांयनवाल कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि.
2631	13289	मै. टंग नर्सिंग होम्स प्रा. लि.	2663	13457	मै. कैमजस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2632	13300	मै. बुकमैन एण्ड कम्पनी प्रा. लि.	2664	13460	मै. वायु ट्रेवल्स प्रा. लि.
2633	13302	मै. गोल्डन स्टार होटल प्रा. लि.	2665	13461	मै. बी. एस. कैरियर्स प्रा. लि.
2634	13309	मै. रवीना एडवर्टाइसिंग एण्ड जनरल कन्सल्टैंट्स प्रा. लि.	2666	13463	मै. राज गैसिस प्रा. लि.
2635	13311	मै. सुप्रीम सॉफ्टवेयर प्रा. लि.	2667	13478	मै. इलास्टो स्पीनर्स प्रा. लि.
2636	13317	मै. जसवंत टैक्सटाइल प्रा. लि.	2668	13481	मै. शिवा सिनटैक्स प्रा. लि.
2637	13321	मै. एम. बी. फिल्मस प्रा. लि.	2669	13482	मै. कमल यार्न्स प्रा. लि.
2638	13330	मै. ईटन ग्लास प्लांट कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.	2670	13491	मै. लेक व्यू एम्पुसमेंट्स प्रा. लि.
2639	13331	मै. चिनार ऑरगेनिक्स प्रा. लि.	2671	13497	मै. होशियारपुर आजाद बस सर्विस प्रा. लि.
2640	13332	मै. बाबू बसन्त फीड्स प्रा. लि.	2672	13503	मै. लुधियाना ऑटो कास्ट प्रा. लि.
2641	13344	मै. जस्टैक्स रिकार्डिंग सिस्टम्स प्रा. लि.	2673	13506	मै. ओरियंटल ट्रेडलिंक्स प्रा. लि.
2642	13346	मै. हंस प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	2674	13531	मै. निज़र ट्रेवल्स प्रा. लि.
2643	13351	मै. गोयल सीमेंट प्रा. लि.	2675	13541	मै. नार्दन एग्री इनपुट्स कम्पनी प्रा. लि.
2644	13352	मै. सत्यानंद बिल्डर्स एण्ड डवलपर्स प्रा. लि.	2676	13548	मै. फ्लेम एंजेलीस बेटरी डिब्रीजिन प्रा. लि.
2645	13356	मै. कृष्णा धाम ट्रस्ट लि.	2677	13549	मै. ए. जे. यार्न मिल्स प्रा. लि.
2646	13357	मै. जयश्री प्लास्टो कैम प्रा. लि.	2678	13584	मै. बी बी फ्रीव्हील्स प्रा. लि.
2647	13358	मै. आई एम फूड्स प्रा. लि.	2679	13586	मै. परहार सेल्स प्रा. लि.
2648	13362	मै. श्रेय एंटरप्राइसिस प्रा. लि.	2680	13590	मै. डी. सी. प्लास्टिक्स प्रा. लि.
2649	13364	मै. सिलवैन रिसोर्ट्स प्रा. लि.	2681	13596	मै. नीतु कलर लैब प्रा. लि.
2650	13365	मै. बिल्स टैक्सटाइल्स प्रा. लि.	2682	13603	मै. यूनीक गैस एसोसिएट्स प्रा. लि.
			2683	13623	मै. दोआबा डाईंग एण्ड फिनीशिंग मिल्स प्रा. लि.

1	2	3
2684	13626	मै. जे. जी. सीमेंट प्रा. लि.
2685	13651	मै. आरवी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2686	13654	मै. स्पैक्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2687	13668	मै. पंजाब प्रैस प्रा. लि.
2688	13676	मै. तिरुपति एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2689	13677	मै. रोहनी अपार्टमेंट प्रा. लि.
2690	13683	मै. सिफ्टी स्टील्स प्रा. लि.
2691	13687	मै. राहुल ओवरसीज प्रा. लि.
2692	13697	मै. श्री हरिसर आटोज प्रा. लि.
2693	13699	मै. प्रीमियर यार्न्स प्रा. लि.
2694	13709	मै. रीता मशीन्स लि.
2695	13713	मै. मैरी धर्मोपेक (इंडिया) प्रा. लि.
2696	13726	मै. हेम राज शर्मा एजेन्सीज प्रा. लि.
2697	13727	मै. बसन आटो टेन्शन प्रा. लि.
2698	13738	मै. इन्दर पेपर्स प्रा. लि.
2699	13743	मै. जी टी सी ओवरसीज प्रा. लि.
2700	13746	मै. जी कुमार वायर्स प्रा. लि.
2701	13751	मै. मल्टी फोर्ज प्रा. लि.
2702	13760	मै. हिम पुन कथा प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2703	13776	मै. नार्थ इंडिया मिनरल्स प्रा. लि.
2704	13790	मै. फेयरडील बुडन इंडिया प्रा. लि.
2705	13792	मै. अनूप एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2706	13793	मै. ऐलावादी ट्रेडलिंक्स एंड इन्वेस्टमेन्ट्स लि.
2707	13795	मै. बी एस मोल्लिंग्स प्रा. लि.
2708	13810	मै. चॉइस पेन्ट्स लि.
2709	13819	मै. फ्लाईंग टेक्सटाइल्स एंड स्पिनिंग प्रा. लि.
2710	13823	मै. सी सी मेटल्स प्रा. लि.
2711	13834	मै. जन्नत होटल्स प्रा. लि.
2712	13835	मै. एस आर एम बिल्डर्स प्रा. लि.
2713	13839	मै. एक्स एल केमिकल्स प्रा. लि.
2714	13840	मै. आई सी एस नेटवर्क प्रा. लि.
2715	13841	मै. चंडीगढ़ टेक्नो कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.
2716	13842	मै. डी वी कन्स्ट्रक्शन कं. प्रा. लि.

1	2	3
2717	13859	मै. कांड्याली रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2718	13864	मै. इम्प्रेस प्रिन्टो फॉस्ट प्रा. लि.
2719	13869	मै. सूर्या मिल्क स्पेशलिटीज प्रा. लि.
2720	13876	मै. अमरदीप आयल्स प्रा. लि.
2721	13882	मै. आर. के. क्रोपिकल्स प्रा. लि.
2722	13885	मै. अमृतसर इण्डस्ट्रीयल गैसेज प्रा. लि.
2723	13889	मै. पॉल निटवियर्स प्रा. लि.
2724	13894	मै. जी वी पॉल एग्रो मिल्स प्रा. लि.
2725	13897	मै. रॉयल यार्न्स मिल्स प्रा. लि.
2726	13898	मै. भांबरी गैसेज प्रा. लि.
2727	13907	मै. मटका एजेन्सीज प्रा. लि.
2728	13908	मै. ब्रायन एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2729	13912	मै. बीस ब्रिक्स एंड कन्स्ट्रक्शनस प्रा. लि.
2730	13927	मै. दवि एक्सपोर्ट हाउस प्रा. लि.
2731	13939	मै. मेहताब स्कैनिंग सेंटर प्रा. लि.
2732	13946	मै. नमुरा एपेरल्स प्रा. लि.
2733	13947	मै. क्रिश्ना आइसेज प्रा. लि.
2734	13952	मै. ममता पोलीमर्स प्रा. लि.
2735	13953	मै. वाई पी एस कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
2736	13955	मै. आनन्द प्रिन्ट हाउस प्रा. लि.
2737	13957	मै. विट्रो फूड्स फ्रेगरेन्स प्रा. लि.
2738	13977	मै. दनसन फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
2739	13978	मै. अजन्ता सीमेन्ट लि.
2740	13981	मै. वशिष्ठ रिसोर्ट्स प्रा. लि.
2741	13984	मै. अर्थ फैशन्स प्रा. लि.
2742	13990	मै. एन्सिएन्ट हर्ब्स लि.
2743	13995	मै. अग्रवाल ट्रेवल्स प्रा. लि.
2744	14001	मै. पुनलैण्ड अम्बूजमेन्ट्स प्रा. लि.
2745	14003	मै. आस्कर निटवियर्स प्रा. लि.
2746	14005	मै. डी एंड टी टेक्सटाइल्स प्रा. लि.
2747	14012	मै. अगम एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2748	14022	मै. सुकृती एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
2749	14026	मै. कैपिटल्स हेल्थ केयर सिस्टम्स प्रा. लि.

1	2	3
2750	14027	मै. रीयल वेल्थ फीड्स प्रा. लि.
2751	14029	मै. नार्दर्न कोलजोब प्रा. लि.
2752	14041	मै. क्वीन्स साइकिल प्रा. लि.
2753	14047	मै. सैनसम इम्पेक्स प्रा. लि.
2754	14061	मै. हंस मिलक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2755	14080	मै. सुदेश प्रोटीन्स प्रा. लि.
2756	14083	मै. ड्रीम कोरियर्स लि.
2757	14084	मै. जांगरा एडवर्टाइजिंग प्रा. लि.
2758	14094	मै. फाल्कन आटोज प्रा. लि.
2759	14102	मै. माउंटन फेब्रिकेटर्स एंड इंजिनियर्स प्रा. लि.
2760	14105	मै. स्काई हार्ड एपेरल्स लि.
2761	14117	मै. सतनाम सेल्स प्रा. लि.
2762	14131	मै. न्यु वूल इंडिया प्रा. लि.
2763	14146	मै. एक्सीकोन इंजीनियर्स प्रा. लि.
2764	5818	मै. हाइलैंड आरगेनिक्स प्रा. लि.
2765	15766	मै. माया क्रेपिटल्स सर्विसेज प्रा. लि.
2766	9146	मै. महक फाइनैशियल सर्विसेज प्रा. लि.
2767	21371	मै. सीगेट फूड्स प्रा. लि.
2768	15738	मै. दोआबा कैंटल फीड्स प्रा. लि.
2769	15698	मै. डियर बॉर्न मिलक प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
2770	17507	मै. रूहताब हाउसिंग प्रा. लि.
2771	3584	मै. बी बी प्रीव्हील्स प्रा. लि.
2772	16632	मै. साइमन एक्सपोर्ट्स लि.
2773	16265	मै. अभिषेक टेलीकाम प्रा. लि.
2774	4451	मै. रायल बिस्किट्स प्रा. लि.
2775	15810	मै. बसिल सिक्योरिटीज लि.
2776	15818	मै. हाइलैंड आरगेनिक्स प्रा. लि.
2777	13471	मै. अरदास कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
2778	15913	मै. दुसन्ज ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
2779	15752	मै. श्रीजी एक्विजम प्रा. लि.
2780	16321	मै. मेगना मेटल कास्ट प्रा. लि.
2781	9651	मै. केप्रिहिम लैंडर्स प्रा. लि.
2782	17830	मै. भद्रीश बिल्डर्स प्रा. लि.

1	2	3
2783	18122	मै. एचि पैकेजिंग इंडिया लि.
2784	17993	मै. स्मिता लैंडर्स लि.
2785	7260	मै. ओरिएण्टल फाइनैशियल डवलपमेन्ट प्लान्स लि.
2786	14810	मै. ए एम एस ब्लो प्लास्टिक्स प्रा. लि.
2787	18684	मै. स्योर टेक कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
2788	6939	मै. मोहाली कारपेट्स लि.
2789	7353	मै. बी जे कम्प्यूनिकेशन प्रा. लि.
2790	15750	मै. एल ए एक्सपोर्ट्स एंड राना इम्पोर्ट्स लि.
2791	18098	मै. अमेजन केमिजोन प्रा. लि.
2792	18681	मै. गोबिन्द पार्सल्स प्रा. लि.
2793	7271	मै. जैक्स शार्पेक्स फोटो फिल्म लि.
2794	2288	मै. निट सिल्वीकल्चर प्रा. लि.
2795	5054	मै. जतिन्द्रा इंजिनियरिंग प्रा. लि.
2796	17467	मै. ऐज फार्मास्युटिकल्स लि.
2797	17506	मै. जी वी सिक्योरिटीज लि.
2798	15009	मै. बाम्बे पेट्रोटेक लि.
2799	16822	मै. परमहंस पब्लिकेशन्स प्रा. लि.

मनमोहन जुनेजा
रजिस्ट्रार आफ कम्पनीज
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

जालन्धर-144003, दिनांक 2007

सं. 560(5) 2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियों विघटित हो गई हैं। उपरोक्त अधिसूचना के साथ ही निम्नलिखित कम्पनियों का नाम काट दिया गया है:--

क्र.सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	3505	मैसर्स विद्या मा एन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
2.	3016	मैसर्स नवीन वायर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
3.	26740	मैसर्स नेक्स्ट जेनरेशन आई टी साल्यूशन्स प्रा. लि.
4.	13622	मैसर्स गुडविल कास्मेटिक्स प्रा. लि.
5.	16420	मैसर्स गुप्ता निट एक्सपो प्रा. लि.

1	2	3
6.	24796	मैसर्स कानव कन्सलटेन्स प्रा. लि.
7.	20924	मैसर्स सेन्चुरी डायमंड्स लि.
8.	2958	मैसर्स कानकास्ट प्लास्टिक्स प्रा. लि.
9.	12059	मैसर्स फजिल्का आयल्स प्रा. लि.
10.	11891	मैसर्स नोवा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
11.	11472	मैसर्स एम्म डी एग्रो फूड्स प्रा. लि.
12.	17548	मैसर्स लौवेरा गारमेन्ट्स प्रा. लि.
13.	25862	मैसर्स बाबा बालकनाथ मोटर्स प्रा. लि.
14.	11861	मैसर्स पेलिकन प्रोमोटर्स प्रा. लि.
15.	11662	मैसर्स मोगा राइस एंड जनरल मिल्स (इं.) प्रा. लि.
16.	8808	मैसर्स माधोपुर पैकेजिंग प्रा. लि.
17.	4449	मैसर्स फार्मा जैल प्रा. लि.
18.	11844	मैसर्स क्लिफ फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि.
19.	5504	मैसर्स यूनिटेक्स प्रोसेसर्स प्रा. लि.
20.	24097	मैसर्स गलिमर ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स
21.	22085	मैसर्स यूनिक्स विजन्स प्रा. लि.
22.	7656	मैसर्स सुखचैन गैसेज प्रा. लि.
23.	25884	मैसर्स गुलाब डाईंग लि.
24.	16069	मैसर्स गुडविल मोटल लि.
25.	22251	मैसर्स हिमालय एक्वा प्रा. लि.
26.	8029	मैसर्स सन्देश फूड्स प्रा. लि.
27.	5787	मैसर्स स्टील पब्लिकेशन प्रा. लि.
28.	4424	मैसर्स शिव शक्ति एलॉयज लि.
29.	11467	मैसर्स शीतल आयल मिल्स प्रा. लि.
30.	8662	मैसर्स चेतन कास्टिंग्स प्रा. लि.
31.	14250	मैसर्स डी जी फूड्स प्रा. लि.
32.	12884	मैसर्स टिंगोज फूड्स प्रा. लि.
33.	7684	मैसर्स तोश नर्सिंग होम प्रा. लि.
34.	10836	मैसर्स थापत आयरन एंड स्टील कं. लि.
35.	2644	मैसर्स यदविन्द्र इण्डस्ट्रीज (डिक्स एंड एजेन्सीज) प्रा. लि.
36.	13265	मैसर्स सिम्बा कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
37.	11764	मैसर्स सनरेज कोरियर्स प्रा. लि.

1	2	3
38.	12314	मैसर्स क्लीनजोकेम प्रा. लि.
39.	21932	मैसर्स चंडीगढ़ कारगो प्रा. लि.
40.	26707	मैसर्स बेस्ट हैंड केटरर्स प्रा. लि.
41.	8304	मैसर्स डीलक्स गारमेन्ट्स प्रा. लि.
42.	26681	मैसर्स जिमिदर होटल्स एंड रेस्टोरेन्ट्स प्रा. लि.
43.	3461	मैसर्स परकाश टी प्रा. लि.
44.	18444	मैसर्स लखन पॉल टूल्स प्रा. लि.
45.	25119	मैसर्स केनटस इलेक्ट्रोनिक्स एंड एप्लायंसेज प्रा. लि.
46.	24861	मैसर्स केविन मेट्रिक्स साफ्टवेयर प्रा. लि.
47.	12895	मैसर्स मातेश्वरी कन्स्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
48.	25013	मैसर्स चिंतपूर्ण ट्रांसपोर्ट कं. प्रा. लि.
49.	23634	मैसर्स आर एस एनवायरमेंटल कन्सलटेन्ट्स प्रा. लि.
50.	24818	मैसर्स जे एच आर इंजीनियर्स प्रा. लि.
51.	25139	मैसर्स पिरामिड कन्ज्यूमर नेटवर्क प्रा. लि.
52.	19169	मैसर्स शिव शम्भु बिल्डर्स एंड डवलपर्स प्रा. लि.
53.	18172	मैसर्स मेजर टूल्स लि.
54.	22314	मैसर्स सेन्चुरी निटफेब लि.
55.	25290	मैसर्स पिरिमिड वेलटेक प्रा. लि.
56.	18173	मैसर्स मेजर मशीन्स लि.
57.	18328	मैसर्स नार्दन न्यूज एंड पब्लिशर्स प्रा. लि.
58.	19648	मैसर्स डिके जनरल ट्रेडिंग कं. प्रा. लि.
59.	9810	मैसर्स एच एन सिंह ड्रिलिंग कं. प्रा. लि.
60.	9953	मैसर्स सुप्रीम स्टोनवार्स प्रा. लि.
61.	27347	मैसर्स व्यू इन्स्टीट्यूट ऑफ हेल्थकेअर मैनेजमेंट प्रा. लि.
62.	15862	मैसर्स दशमेश टेलीकाम सर्विसेज लि.
63.	17587	मैसर्स दाने फूड्स इंडिया लि.
64.	4914	मैसर्स क्राउन फिनिशर्स प्रा. लि.
65.	26707	मैसर्स बेस्ट हैंड्स केटरर्स प्रा. लि.
66.	8074	मैसर्स रुबिना सिल्क इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
67.	18073	मैसर्स ग्रेवर लेजर बिजन सेंटर प्रा. लि.
68.	27022	मैसर्स जोश वेटमार्ट प्रा. लि.
69.	9545	मैसर्स जहांगीर स्पिनर्स प्रा. लि.

1	2	3
70.	19546	मैसर्स रमन मिल्क स्पेशियलिटीज प्रा. लि.
71.	12928	मैसर्स इजय डाटा मेटिक्स लि.
72.	8317	मैसर्स योर्क फुटवेयर प्रा. लि.
73.	14505	मैसर्स राजा कान्स्ट्रक्टर्स प्रा. लि.
74.	4723	मैसर्स रक्षा रोड ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
75.	21153	मैसर्स आर वी एस एंटरप्राइजेज प्रा. लि.
76.	19170	मैसर्स शुभ होम डवलपर्स प्रा. लि.
77.	22961	मैसर्स शेरिफ आरोगनिक्स प्रा. लि.
78.	2696	मैसर्स स्विच क्राफ्ट प्रा. लि.
79.	6801	मैसर्स सुखचैन फूड्स प्रा. लि.
80.	22027	मैसर्स सृजन इन्फोर्मेटिक सर्विसेज प्रा. लि.
81.	23687	मैसर्स एस के इम्पेक्स प्रा. लि.
82.	12920	मैसर्स स्काई हार्ड रिसोर्ट्स लि.
83.	8716	मैसर्स स्टीमेड फोर्जिंग प्रा. लि.
84.	12926	मैसर्स सैमसन्स स्टील्स लि.
85.	9256	मैसर्स सरदार आयल मिल्स प्रा. लि.
86.	27916	मैसर्स स्टार परिवार नेटवर्क मार्केटिंग प्रा. लि.
87.	22494	मैसर्स सूरज होजरी फैक्टरी प्रा. लि.
88.	24272	मैसर्स होटल जे सिंह प्लाजा प्रा. लि.
89.	21573	मैसर्स एस ट्रेडलिंक्स (इंडिया) लि.
90.	4075	मैसर्स हरियाणा सोलवेन्स प्रा. लि.
91.	23578	मैसर्स गुरदासपुर एरिया डवलपमेंट लि.
92.	8089	मैसर्स कान्टीनैटल गियर प्रा. लि.
93.	9745	मैसर्स चन्नो स्टील स्ट्रिप्स प्रा. लि.
94.	26142	मैसर्स के एस डायमंड्स प्रा. लि.
95.	23502	मैसर्स एस. पी. फेब निट प्रा. लि.
96.	12982	मैसर्स धौलाधार फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.
97.	14504	मैसर्स डीलक्स एन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
98.	12184	मैसर्स थापर राजस्थान सीमेन्ट लि.
99.	12185	मैसर्स थापर पेपर मिल्स लि.
100.	21064	मैसर्स पवन गोल्ड एंड जेम्स लि.
101.	26060	मैसर्स नाविक एम्बेडेड सिस्टम्स प्रा. लि.
102.	12978	मैसर्स नोनि मेगेनेटिक मीडिया प्रा. लि.

1	2	3
103.	23445	मैसर्स निओ टेक्नोलोजी प्रा. लि.
104.	11273	मैसर्स मिकाडो होम केयर प्रा. लि.
105.	3950	मैसर्स मित्तल पैटर्न्स प्रा. लि.
106.	15601	मैसर्स गिरनार कानकास्ट लि.
107.	22506	मैसर्स काइल ओवरसीज प्रा. लि.
108.	8226	मैसर्स इण्डियन स्किन कम्पनी प्रा. लि.
109.	9466	मैसर्स इजय चिकन स्पेशियलिटी लि.
110.	17303	मैसर्स एक्सल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्रा. लि.
111.	12567	मैसर्स मन्दर फोरजिंग्स प्रा. लि.
112.	26552	मैसर्स बसनोर टेक्नोलोजिज प्रा. लि.
113.	28017	मैसर्स आर कोहली कम्पोजिट स्पोर्ट्स प्रा. लि.
114.	28044	मैसर्स ओरेकल ओवरसीज एजुकेशनल कंसलटेंसी सर्विसेज प्रा. लि.
115.	28067	मैसर्स कम्सो डाटा सर्विसेज प्रा. लि.
116.	19625	मैसर्स पी. बी. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
117.	12125	मैसर्स वी आर कमर्शियल प्रा. लि.

मनमोहन जुनेजा
रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
कोलकाता, दिनांक 12 फरवरी 2007

सं.-क.र./आईपीसी/560(एसएम)/07--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उप धारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90(नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जायेंगी:--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1	47519	मैसर्स बानोजा होटल्स प्रा. लि.
2	51018	मैसर्स बंस लता फिनान्स एण्ड सेविंग्स कम्पनी प्रा. लि.
3	42055	मैसर्स बंसीलाल लीजर पावर्स लिमिटेड
4	51675	मैसर्स बेनसन फूड प्रोडक्ट्स (इण्डिया) प्रा. लि.
5	26009	मैसर्स बन्थीया मैनुफैक्चरिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
6	58066	मैसर्स बन्थान इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.

1	2	3
7	50992	मैसर्स बन्यान लैण्ड डेवलपमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
8	71234	मैसर्स बार्च इन्जीनियर्स प्रा. लि.
9	47911	मैसर्स बार्गाभीमा सेविंग्स एण्ड क्रेडिट कम्पनी प्रा. लि.
10	67474	मैसर्स बाकोल कॉमर्शियल प्रा. लि.
11	64903	मैसर्स बार्मर प्रोपर्टीज एण्ड फिनान्स प्रा. लि.
12	30184	मैसर्स बरोदा चिट एण्ड सेविंग्स प्रा. लि.
13	51193	मैसर्स बरोदाहस प्रोपर्टीज प्रा. लि.
14	44929	मैसर्स बैरकपुर फूड सप्लाइज प्रा. लि.
15	34323	मैसर्स बैरौन डेवलपमेंट इन्टरप्राइज प्रा. लि.
16	7838	मैसर्स बारुईपुर राय चौधरी इस्टेट प्रा. लि.
17	88437	मैसर्स बासु आयुर्वेदिक प्रोडक्ट प्रा. लि.
18	89014	मैसर्स बासुच फार्मासिउटिकल्स प्रा. लि.
19	48134	मैसर्स बासुकीनाथ फीड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
20	4970	मैसर्स बायबारी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
21	67163	मैसर्स बाविस्कॉन मार्केटिंग प्रा. लि.
22	66781	मैसर्स बाविस्कॉन मर्चन्ट्स प्रा. लि.
23	54147	मैसर्स बीबीएस मेडिस्कैनर्स प्रा. लि.
24	58157	मैसर्स बीसीएस केमेक्स प्रा. लि.
25	57494	मैसर्स बियाकॉन डेवलपर प्रा. लि.
26	70426	मैसर्स बीयरबुल मार्केटिंग प्रा. लि.
27	66782	मैसर्स बीयरबुल सप्लायर्स प्रा. लि.
28	23769	मैसर्स बीयरिंग स्पेशियलिस्ट्स प्रा. लि.
29	69668	मैसर्स बीटीफाई डीलकॉम प्रा. लि.
30	69673	मैसर्स बीटीफाई विनकॉम प्रा. लि.
31	58724	मैसर्स बेबाम फिनान्शियल सर्विसेज प्रा. लि.
32	69040	मैसर्स बेड रॉक गुड्स प्रा. लि.
33	49329	मैसर्स बंडियाडांगा प्रोपर्टीज प्रा. लि.
34	46663	मैसर्स बी पी फार्माकेम प्रा. लि.
35	80253	मैसर्स बीपेज प्रा. लि.
36	53096	मैसर्स बेई-इची कम्प्यूट्रनिक्स प्रा. लि.

1	2	3
37	32891	मैसर्स बेलियाघाट आईस प्लान्ट प्रा. लि.
38	32259	मैसर्स बेलियाघाट प्लाईवुड मैनुफैक्चरिंग कम्पनी प्रा. लि.
39	18875	मैसर्स बेलियाघाट टिम्बर वर्क्स प्रा. लि.
40	67904	मैसर्स बेल्लोना लेबेल्स प्रा. लि.
41	58789	मैसर्स बेल्स ट्रेडिंग प्रा. लि.
42	15052	मैसर्स बेलरुई डिसरगढ़ कोलियरी कम्पनी प्रा. लि.
43	24659	मैसर्स बेलुड इण्डस्ट्रीयल कारपोरेशन प्रा. लि.
44	50368	मैसर्स बेनेडिक्ट फूड प्रोसेसर्स प्रा. लि.
45	40266	मैसर्स बेंगाल एग्रो प्रोडक्ट्स एण्ड प्लान्टेशन प्रा. लि.
46	83291	मैसर्स बेंगाल कोको प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
47	25497	मैसर्स बेंगाल इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन प्रा. लि.
48	21556	मैसर्स बेंगाल इन्जीनियरिंग एण्ड ऑटोमोबाईल्स प्रा. लि.
49	12027	मैसर्स बेंचुल इण्डस्ट्रीयल एण्ड साईनटिफिक वर्क्स प्रा. लि.
50	75726	मैसर्स बेंगाल लिक्वुड पेट्रोल गैस इण्डिया प्रा. लि.
51	34918	मैसर्स बेंगाल महुआ इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
52	30632	मैसर्स बेंगाल मैच कम्पनी प्रा. लि.
53	89153	मैसर्स बेंगाल मेडिकल सेन्टर प्रा. लि.
54	21503	मैसर्स बेंगाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
55	30714	मैसर्स बेंगाल पाइनएम्पल्स प्रा. लि.
56	31811	मैसर्स बेंगाल रोबिन एण्ड टरपेन्टिन प्रा. लि.
57	26830	मैसर्स बेंगाल सेफ एण्ड स्टील वर्क्स प्रा. लि.
58	2660	मैसर्स बेंगाल स्टीम लाउण्ड्री कम्पनी प्रा. लि.
59	23141	मैसर्स बेंगाल स्टील एण्ड ट्युब कम्पनी प्रा. लि.
60	28397	मैसर्स बेंगाल सिन्थेटिक मोल्डर्स प्रा. लि.
61	88496	मैसर्स बेंगाल टोबैको कम्पनी प्रा. लि.
62	49489	मैसर्स बेंगाल वेनियर्स प्रा. लि.
63	88685	मैसर्स बेनिन डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
64	49780	मैसर्स बेनिसन रेवेडिज प्रा. लि.
65	10745	मैसर्स बेन्सुर इन्जीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
66	78749	मैसर्स बेन्टन ट्रेडर्स प्रा. लि.
67	64159	मैसर्स बेन्टोना मर्चन्ट्स प्रा. लि.

1	2	3
68	45276	मैसर्स बेनुगोपाल स्टील इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
69	49577	मैसर्स बेरिवाल बंधु कॉमर्शियल प्रा. लि.
70	53056	मैसर्स बेरिवाला इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
71	36903	मैसर्स बेस्कॉन (इण्डिया) प्रा. लि.
72	48394	मैसर्स बेस्ट कार्गो कैरियर्स प्रा. लि.
73	69230	मैसर्स बेस्ट्रीट विनिमय प्रा. लि.
74	59079	मैसर्स बेट्टर च्वायस एक्जीम प्रा. लि.
75	87052	मैसर्स बीजीएस एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
76	61604	मैसर्स भद्रकाली इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
77	47942	मैसर्स भगवती कोमोडिटीज प्रा. लि.
78	43700	मैसर्स भगत पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
79	15290	मैसर्स भगत प्रोपर्टीज प्रा. लि.
80	57982	मैसर्स भागीरथ स्टॉक एण्ड फिनान्स प्रा. लि.
81	26068	मैसर्स भागीरथी फूड एण्ड फाइबर्स प्रा. लि.
82	43805	मैसर्स भागीरथी माइनिंग टूल्स प्रा. लि.
83	23905	मैसर्स भगवानदास इस्टेट्स प्रा. लि.
84	78265	मैसर्स भगवती एग्रो एण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि.
85	47996	मैसर्स भाईरुदन बंसीलाल प्रा. लि.
86	46518	मैसर्स भैर्व दुर्गा बिजनेस प्रा. लि.
87	67674	मैसर्स भाकरा मर्केन्टाईल्स प्रा. लि.
88	45988	मैसर्स भालोटिया इस्पात प्रा. लि.
89	77799	मैसर्स भण्डारी मूवर्स एण्ड बिल्डर्स (इण्डिया) प्रा. लि.
90	59497	मैसर्स भंसाली बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
91	59867	मैसर्स भंसाली चड्ढा हाउसिंग एण्ड इस्टेट्स प्रा. लि.
92	63087	मैसर्स भारद्वाज टेक्नोक्राफ्ट्स प्रा. लि.
93	16695	मैसर्स भारत जनरल एजेन्सीज प्रा. लि.
94	23879	मैसर्स भारत लक्ष्मी होसियरी आईएनडीएस प्रा. लि.
95	18441	मैसर्स भारत ओरियन्ट कारपोरेशन प्रा. लि.
96	12032	मैसर्स भारत पेन्ट कलर एण्ड वर्निश वर्क्स प्रा. लि.
97	7941	मैसर्स भारती प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग कम्पनी प्रा. लि.
98	12962	मैसर्स भारती साहित्य भवन प्रा. लि.
99	15032	मैसर्स भारती ट्रस्ट प्रा. लि.

1	2	3
100	75686	मैसर्स भास्कर इन्जीनियर्स एण्ड कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
101	39543	मैसर्स भास्कर ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
102	43304	मैसर्स भट्टाचार्य एण्ड कम्पनी (1987) प्रा. लि.
103	39070	मैसर्स भट्टाचार्य एण्ड बरारी प्रा. लि.
104	21422	मैसर्स भौमिक एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
105	33114	मैसर्स भावना प्रोपर्टीज प्रा. लि.
106	47729	मैसर्स भावभूति ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
107	66164	मैसर्स भवानी पिपमेंट्स प्रा. लि.
108	78016	मैसर्स भेल मार्केटिंग प्रा. लि.
109	51781	मैसर्स भिवानीवाला स्टील्स प्रा. लि.
110	17142	मैसर्स भोलानाथ दत्त (पेपर मर्चेन्ट्स) प्रा. लि.
111	57981	मैसर्स भोमिया ट्रेडिंग प्रा. लि.
112	25490	मैसर्स भोपुरिया सेल्स प्रा. लि.
113	77472	मैसर्स भोरूका कोमोडिटीज प्रा. लि.
114	36638	मैसर्स भोतिका ऑयल एण्ड स्टील्स प्रा. लि.
115	26649	मैसर्स भूप जैन मेटल्स प्रा. लि.
116	47875	मैसर्स भूपेन्द्र नाथ टी ईस्टेट प्रा. लि.
117	50609	मैसर्स भूपेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
118	49772	मैसर्स भूवानिया कांटेक्ट्स प्रा. लि.
119	80204	मैसर्स बिग वैलु कोमोडिटीज प्रा. लि.
120	14119	मैसर्स बिहार मर्केन्टाईल यूनियन लिमिटेड
121	23778	मैसर्स बिहार इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
122	65489	मैसर्स बिजोया मर्केन्टाईल्स प्रा. लि.
123	63306	मैसर्स बिकेश स्टील प्रा. लि.
124	59765	मैसर्स बिलाटीबारी फूड एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
125	67768	मैसर्स बिलकाउण्ट ट्रेकॉन प्रा. लि.
126	67758	मैसर्स बिलड्राइट सप्लायर्स प्रा. लि.
127	59548	मैसर्स बिल बॉडी कोमोडिटीज प्रा. लि.
128	19655	मैसर्स बिमला इन्टरप्राइजेज (इण्डिया) प्रा. लि.
129	51411	मैसर्स बिमला आईस प्लान्ट प्रा. लि.
130	61389	मैसर्स बिमलेन्दु गुहा टॉउन मेकर्स एण्ड प्रोमोटर्स प्रा. लि.
131	87539	मैसर्स बिमला निटवियर प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
132	62500	मैसर्स बीना के केमिकल्स प्रा. लि.	164	75492	मैसर्स ब्लुमर सेल्स प्रा. लि.
133	26066	मैसर्स बीना मिल्स प्रा. लि.	165	51862	मैसर्स ब्लोकॉन इण्डिया प्रा. लि.
134	71834	मैसर्स बीनानी टेक्सफिन प्रा. लि.	166	85531	मैसर्स बीएलएस सीमेन्ट कम्पनी प्रा. लि.
135	70127	मैसर्स बीणापाणि मार्केटिंग प्रा. लि.	167	64620	मैसर्स ब्लू ब्रिज डीलर प्रा. लि.
136	86786	मैसर्स बिनारी टेलीकॉम प्रा. लि.	168	52089	मैसर्स ब्लू मैक्स स्मोकलेस कोल प्रा. लि.
137	79537	मैसर्स बिनय फ्यूजन सिस्टेम्स प्रा. लि.	169	63304	मैसर्स ब्लू सी मल्टीपरपस मार्केटिंग एण्ड मीडिया प्रा. लि.
138	41895	मैसर्स बिन्दल रिसोर्सेज प्रा. लि.	170	34968	मैसर्स ब्लू सी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
139	58118	मैसर्स बिन्दल सेकुरिटीज प्रा. लि.	171	89862	मैसर्स ब्लू स्काई ट्रेक्स एण्ड ट्रेवल्स (इण्डिया) प्रा. लि.
140	47023	मैसर्स बिन्धयाम इम्पेक्स ट्रेडिंग प्रा. लि.	172	84341	मैसर्स ब्लू स्टार होटल्स प्रा. लि.
141	40540	मैसर्स बायो-केम सोल्वेन्ट एक्सट्रैक्शन ऑयल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.	173	79833	मैसर्स ब्लू व्यू इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.
142	46017	मैसर्स बीर पैकेजिंग्स प्रा. लि.	174	46730	मैसर्स ब्लूबर्ड ट्रान्सपोर्टर्स प्रा. लि.
143	57069	मैसर्स बीराजी होल्डिंग्स प्रा. लि.	175	58613	मैसर्स ब्लुविंग्स एक्सपोर्टर्स प्रा. लि.
144	48468	मैसर्स बीरभूम केमिकल्स प्रा. लि.	176	66610	मैसर्स ब्लूस्टार सप्लायर्स प्रा. लि.
145	88349	मैसर्स बीरभूम डिस्टिलेरी प्रा. लि.	177	58606	मैसर्स बीएमएस ग्रेनाइट प्रा. लि.
146	26270	मैसर्स बीरभूम माइनिंग प्रा. लि.	178	63998	मैसर्स बीएमएस हैण्डेल्स हैक्स प्रा. लि.
147	26837	मैसर्स बीरखेर (एजेन्ट्स) प्रा. लि.	179	65603	मैसर्स बोर्डवे ट्रेकोन प्रा. लि.
148	47847	मैसर्स बिस्कॉन सर्विसेज प्रा. लि.	180	18347	बॉब प्रेमजी प्रा. लि.
149	40885	मैसर्स बिशन कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	181	58910	मैसर्स बोडीसॉप हेल्थ केयर प्रा. लि.
150	43194	मैसर्स विश्वबन्दिता फिनान्स प्रा. लि.	182	14310	मैसर्स बॉयरगनिया इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.
151	50446	मैसर्स विश्वबन्दिता हाऊसिंग एण्ड लैण्ड डेवलपमेंट प्रा. लि.	183	37276	मैसर्स बोलागिर स्टील एण्ड रोलिंग मिल्स प्रा. लि.
152	63781	मैसर्स बिश्वरूप पॉलीपैक प्रा. लि.	184	48195	मैसर्स बोलसन कंसल्टेन्सी सर्विसेज प्रा. लि.
153	88373	मैसर्स बिश्वास कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.	185	15462	मैसर्स बॉम्बे पिक्चर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
154	20661	मैसर्स बिश्वास मोटर सर्विस प्रा. लि.	186	40202	मैसर्स बोनान्जा एक्सपोर्टर्स (इण्डिया) प्रा. लि.
155	26685	मैसर्स विश्वश्री चित्रमन्दिर प्रा. लि.	187	66710	मैसर्स बोनाजा बार्टर प्रा. लि.
156	76705	मैसर्स बीता ऑयल्स प्रा. लि.	188	88631	मैसर्स बोनी कंफेक्शनेरी (इण्डिया) प्रा. लि.
157	16831	मैसर्स बीवाज प्रा. लि.	189	73444	मैसर्स बोंगाँव सब-डिविजनल पेस्सीकल्चर प्रा. लि.
158	67966	मैसर्स बियानी सेकुरिटीज प्रा. लि.	190	52611	मैसर्स बॉन होल्डिंग्स प्रा. लि.
159	68352	मैसर्स बीकेबी कॉमर्शियल प्रा. लि.	191	6111	मैसर्स बोनेयर एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
160	16576	मैसर्स ब्लैकवूड हौज (इण्डिया) प्रा. लि.	192	24404	मैसर्स बुक क्लब प्रा. लि.
161	58114	मैसर्स जेसिंग फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.	193	52487	मैसर्स बूस्ट ट्रेड एण्ड होल्डिंग्स प्रा. लि.
162	57825	मैसर्स ब्लीट्स फिनवेस्ट एण्ड इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.	194	89284	मैसर्स बॉनफ्री गारमेन्ट्स प्रा. लि.
163	69524	मैसर्स ब्लूम फैबट्रेड प्रा. लि.	195	63510	मैसर्स बोस इग हाउस प्रा. लि.

1	2	3	1	2	3
196	42566	मैसर्स बोटानिक सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.	229	78848	मैसर्स बरलिंगटन ट्रेकॉन प्रा. लि.
197	87714	मैसर्स बोब्रजार होल्डिंग्स प्रा. लि.	230	24372	मैसर्स बरनाह मेटल वर्क्स प्रा. लि.
198	36309	मैसर्स ब्रेबोर्न टेक्सटाईल्स (इण्डिया) प्रा. लि.	231	17797	मैसर्स बरनेट डेविस एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
199	79579	मैसर्स ब्रह्मपुत्र फेब्रिकेटर्स प्रा. लि.	232	26224	मैसर्स बिजनेस एण्ड कम्प्यूटिंग मशीन प्रा. लि.
200	16689	मैसर्स ब्रह्ममयेश मोटर सर्विस प्रा. लि.	233	31121	मैसर्स बिजनेस लाइन कंसल्टेंट्स एण्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.
201	52927	मैसर्स ब्राउन फिल्ड केमिकल्स प्रा. लि.	234	59052	मैसर्स बटरफ्लाई सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
202	48086	मैसर्स ब्राइट कलर एण्ड कम्बीनेशन प्रा. लि.	235	63655	मैसर्स बटरफ्लाई विनिमय प्रा. लि.
203	44822	मैसर्स ब्राइट कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	236	52725	मैसर्स बक्सटॉन सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट (इण्डिया) लि.
204	40707	मैसर्स ब्राइट इमेज प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	237	44968	मैसर्स बाईपास इस्टेट्स प्रा. लि.
205	39763	मैसर्स ब्राइट पेपर एण्ड बोर्ड मिल्स प्रा. लि.	238	48078	मैसर्स सी. बी. के. पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
206	48721	मैसर्स ब्राइट ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.	239	33507	मैसर्स सी. आई. पी. प्रोपर्टीज एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
207	35724	मैसर्स ब्राइटवर्ल्ड प्रा. लि.	240	32527	मैसर्स सी. एम. कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
208	35267	मैसर्स ब्रिज ऑटोमोटिक्स प्रा. लि.	241	85771	मैसर्स सी. एम. डी इन प्रा. लि.
209	83098	मैसर्स ब्रिजधाम कॉमर्शियल प्रा. लि.	242	23150	मैसर्स सी. एस. ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
210	61023	मैसर्स ब्रिजवासी व्यापार प्रा. लि.	243	57119	मैसर्स सी.बी.एन. कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
211	78285	मैसर्स ब्रिलियेन्ट मर्चेन्ट्स प्रा. लि.	244	39617	मैसर्स सी.ई.डब्ल्यू. कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
212	64341	मैसर्स ब्रिलियेन्ट विनिमय प्रा. लि.	245	43890	मैसर्स सी.एल. मर्केन्टाईल प्रा. लि.
213	66624	मैसर्स बृन्दावन निर्यात प्रा. लि.	246	74738	मैसर्स सी.एल. इन्क्लेव प्रा. लि.
214	45024	मैसर्स बृन्दावन हाउसिंग प्रा. लि.	247	46338	मैसर्स सी.एम. एजेन्सी प्रा. लि.
215	59166	मैसर्स ब्रिन्थया मोयी टेक्नोलॉजी प्रा. लि.	248	39722	मैसर्स सी.एम.सी. फार्मास्यूटिकल प्रा. लि.
216	58270	मैसर्स ब्रिस्टल ट्रेकजीम प्रा. लि.	249	53457	मैसर्स सी.पी. विनियोग एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
217	88199	मैसर्स ब्रॉड स्ट्रीट प्रोपर्टीज प्रा. लि.	250	47869	मैसर्स सी.टी. इलेक्ट्रोनिक्स प्रा. लि.
218	87866	मैसर्स ब्रदर्स ड्रग प्रा. लि.	251	33375	मैसर्स कैक्टस इंजीनियरिंग प्रा. लि.
219	84412	मैसर्स ब्राईलॉन इण्डस्ट्रीयल टूल्स प्रा. लि.	252	49644	मैसर्स कैडेट एडवर्टाइजिंग एण्ड मार्केटिंग प्रा. लि.
220	76304	मैसर्स बीटीएस फूड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	253	39697	मैसर्स कैडिला ट्रांसपोर्ट प्रा. लि.
221	49653	मैसर्स बज बज सेल्स प्रा. लि.	254	52409	मैसर्स कैल एक्जुआकेम प्रा. लि.
222	43517	मैसर्स बुध मार्ग इस्टेट्स प्रा. लि.	255	57423	मैसर्स कैल-टेक मेकेनिकल इंजीनियरिंग कम्पनी प्रा. लि.
223	88614	मैसर्स बड्स एण्ड फ्लावर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	256	1926	मैसर्स कैलेडोनियन प्रिंटिंग कम्पनी प्रा. लि.
224	40989	मैसर्स बिल्ड-कॉन इंजीनियर्स प्रा. लि.	257	32088	मैसर्स कैलकर प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
225	21031	मैसर्स बिल्डर्स एण्ड फर्नीचर्स प्रा. लि.	258	78518	मैसर्स कैलकॉन मार्केटिंग प्रा. लि.
226	74078	मैसर्स बुलबुलीतला राइस मिल प्रा. लि.			
227	65930	मैसर्स बर्दवान कम्युनिकेशन प्रा. लि.			
228	70659	मैसर्स बरलिंगटन कॉमर्स प्रा. लि.			

1	2	3
269	48107	मैसर्स कलकत्ता फॉयल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
270	7134	मैसर्स कलकत्ता फ्रेन्ड्स सोसाईटी प्रा. लि.
271	66608	मैसर्स कलकत्ता गुड्स एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.
272	16357	मैसर्स कलकत्ता लेदर हाउस प्रा. लि.
273	49454	मैसर्स कलकत्ता मेडि-इमेज प्रा. लि.
274	26731	मैसर्स कलकत्ता मॉडल वर्क्स प्रा. लि.
275	59318	मैसर्स कलकत्ता मूवर सर्विसेज प्रा. लि.
276	14697	मैसर्स कलकत्ता ऑप्टिकल कम्पनी प्रा. लि.
277	54396	मैसर्स कलकत्ता पॉलीयूरेथेन्स प्रा. लि.
278	23405	मैसर्स कलकत्ता पोर्ट सर्विस प्रा. लि.
279	20393	मैसर्स कलकत्ता प्रूफिंग एण्ड पॉलीन मैनुफैक्चर कम्पनी प्रा. लि.
280	20187	मैसर्स कलकत्ता स्टोरेज बैटरी कम्पनी प्रा. लि.
281	37536	मैसर्स कलकत्ता टेनेरीज प्रा. लि.
282	44112	मैसर्स कलकत्ता ट्रेड एण्ड पैकेजिंग इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
283	48504	मैसर्स कैलएक्जीम प्रा. लि.
284	28296	मैसर्स कैलफेब्रिक इन्जीनियर्स प्रा. लि.
285	58745	मैसर्स कैलिको इण्डिया कॉमर्स प्रा. लि.
286	61503	मैसर्स कैलिस्टो कोमोडो प्रा. लि.
287	34791	मैसर्स कैले मशीन टूल्स प्रा. लि.
288	84823	मैसर्स कैलीक्स एग्री प्रा. लि.
289	44278	मैसर्स कैमेक इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
290	57617	मैसर्स कैमेक सेप्टी प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
291	37587	मैसर्स कैम्बे मार्केटिंग प्रा. लि.
292	49365	मैसर्स कैम्को डेवलपमेंट्स प्रा. लि.
293	43720	मैसर्स कैमेलिया हिमघर प्रा. लि.
294	77327	मैसर्स कैम्लिन कॉमर्शियल प्रा. लि.
295	62304	मैसर्स कैम्परडाउन विनिमय प्रा. लि.
296	59116	मैसर्स कैन्डीड फिनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रा. लि.
297	36660	मैसर्स कैन्डीड मैनुफैक्चरिंग एण्ड ट्रेडिंग प्रा. लि.
298	57977	मैसर्स कैनिस्टार ट्रेडिंग प्रा. लि.
299	74834	मैसर्स कैन्ले इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
300	48557	मैसर्स कैनिंग अनइम्प्लायड ट्रेडर्स प्रा. लि.
301	44720	मैसर्स कैपेल्ला इन्जीनियर्स प्रा. लि.
302	63281	मैसर्स कैपिटल ऑप्शन्स प्रा. लि.
303	66764	मैसर्स कैप्लीन कोमोडील प्रा. लि.
304	70409	मैसर्स कैप्लीन इम्पेक्स प्रा. लि.
305	58635	मैसर्स कैम्पा एडवर्टीजिंग प्रा. लि.
306	44717	मैसर्स कैप्टीव डीजल सेल्स एण्ड सर्विसेज प्रा. लि.

1	2	3
307	18957	मैसर्स कार केयर प्रा. लि.
308	30663	मैसर्स कारवाँ सेविंग्स एण्ड फिनान्स प्रा. लि.
309	1537	मैसर्स कारबो सेरासिक्स लि.
310	14947	मैसर्स कार्ड बोर्ड बॉक्स ऑफ कलकत्ता प्रा. लि.
311	41341	मैसर्स कार्डमोम इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.
312	68257	मैसर्स केयर प्वायन्ट लि.
313	65488	मैसर्स केयरटेक फिनट्रेड प्रा. लि.
314	63568	मैसर्स केयरवेल विनियोग प्रा. लि.
315	48667	मैसर्स कार्लो कम्प्यूटर्स प्रा. लि.
316	78712	मैसर्स कार्लटोन विनिमय प्रा. लि.
317	67870	मैसर्स कारनेक्स विनकॉम प्रा. लि.
318	78756	मैसर्स कार्निवल मार्केटिंग प्रा. लि.
319	88438	मैसर्स कैरोना एक्सपोर्ट प्रा. लि.
320	37593	मैसर्स कास्टिंग एण्ड एलॉयड इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
321	46412	मैसर्स कास्टेल प्लाजा प्रा. लि.
322	57771	मैसर्स कास्ट्रॉन एजेन्सी प्रा. लि.
323	46343	मैसर्स कैट कंसल्टेन्ट्स एण्ड इन्जीनियर्स प्रा. लि.
324	35295	मैसर्स कैथे एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
325	45748	मैसर्स सीबीडी कम्प्यूटर कॉर्निया प्रा. लि.
326	54123	मैसर्स सीडीबी एग्री एलॉयड प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
327	86526	मैसर्स सीडीबी कॉमर्स प्रा. लि.
328	62202	मैसर्स सेलेब्रेटी सेल्स प्रा. लि.
329	77473	मैसर्स सेलुलोज मार्केटाईल प्रा. लि.
330	89005	मैसर्स सेल्टीक कॉमर्शियल प्रा. लि.
331	26285	मैसर्स सेमेटॉन प्रा. लि.
332	87571	मैसर्स सेमिको वाटरपुफ प्रा. लि.
333	45613	मैसर्स सेन्डीडीक डायनोस्टिक सेन्टर प्रा. लि.
334	5329	मैसर्स सेन्ट्रल जीनागोरा कोल कम्पनी प्रा. लि.
335	88455	मैसर्स सेन्टर इन्डो टायर एण्ड ऑटोमोबाईल प्रा. लि.
336	67110	मैसर्स सेन्चुरियन कोमोडीटीज प्रा. लि.
337	79010	मैसर्स सेन्चुरी डेक्लोकॉन प्रा. लि.
338	77673	मैसर्स सेन्चुरी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
339	79639	मैसर्स सेन्चुरी सप्लायर्स प्रा. लि.
340	44239	मैसर्स सी ई पी एल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लि.
341	27457	मैसर्स सेरामो टेक्नो प्रा. लि.
342	32866	मैसर्स चाबी ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि.
343	67203	मैसर्स छाबेरिया बिल्डर्स प्रा. लि.
344	88798	मैसर्स चइडा डिजाईन्स प्रा. लि.

1	2	3
345	31484	मैसर्स चैतक रेशम्स (इण्डिया) प्रा. लि.
346	87879	मैसर्स चैती टी कम्पनी प्रा. लि.
347	50616	मैसर्स चक्रमान मेरीटार्म प्रा. लि.
348	25885	मैसर्स चक्रवर्ती एण्ड घोष (कंस्ट्रक्शन) प्रा. लि.
349	16822	मैसर्स चलाचल प्रा. लि.
350	33557	मैसर्स चलती दुनिया प्रकाशनी प्रा. लि.
351	49535	मैसर्स चमन डेवलपर्स प्रा. लि.
352	61892	मैसर्स चैम्पियन टाई-अप सर्विसेज प्रा. लि.
353	42688	मैसर्स चैम्पो कारपेट्स प्रा. लि.
354	39207	मैसर्स चाणक्य मार्केटिंग प्रा. लि.
355	89023	मैसर्स चन्दम इन्टरटेनर्स प्रा. लि.
356	89034	मैसर्स चण्डी फ्यूल कोक प्रा. लि.
357	45920	मैसर्स चण्डिका कंस्ट्रक्शन एण्ड ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रा. लि.
358	23354	मैसर्स चण्डिका स्टोर्स प्रा. लि.
359	59339	मैसर्स चन्द्र प्रभू इम्पेक्स प्रा. लि.
360	67886	मैसर्स चन्द्र रबड़ एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
361	46328	मैसर्स चेनील इम्पेक्स प्रा. लि.
362	79286	मैसर्स चेरियट मार्केटिंग प्रा. लि.
363	61589	मैसर्स चैरिष्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
364	49132	मैसर्स चार्लेस कुरियर एण्ड कॉमर्शियल सर्विसेज प्रा. लि.
365	61240	मैसर्स चार्ट प्वायन्ट कॉन्सोलिडेशन प्रा. लि.
366	19924	मैसर्स चारू चैत्र प्रा. लि.
367	43572	मैसर्स चारू एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
368	24051	मैसर्स चारू प्रिन्टिंग हाऊस प्रा. लि.
369	38261	मैसर्स चटर्जी ब्रदर्स (होटेल इण्डस्ट्रीज) प्रा. लि.
370	56965	मैसर्स चटर्जी पॉल (मेटल) कम्पनी प्रा. लि.
371	3603	मैसर्स चटर्जी गौगुली एण्ड कम्पनी लि.
372	59882	मैसर्स चतुर्भुज एक्जीम प्रा. लि.
373	48298	मैसर्स चबाई वैली टी कम्पनी प्रा. लि.
374	64345	मैसर्स छाया बार्टर प्रा. लि.
375	14969	मैसर्स कैमिकल इन्जीनियरिंग एण्ड कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
376	57978	मैसर्स चेमी ट्रेडिंग प्रा. लि.
377	58037	मैसर्स चेरी एक्जीम प्रा. लि.
378	47364	मैसर्स चेरी रिसोर्ट्स प्रा. लि.
379	46167	मैसर्स चेस्टरफिल्ड फिनान्स प्रा. लि.
380	61026	मैसर्स चेतक एक्जीम प्रा. लि.
381	68020	मैसर्स चेतक सप्लायर्स प्रा. लि.

1	2	3
382	36355	मैसर्स छोटानागपुर कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
383	87385	मैसर्स चिदेस कॉमर्शियल प्रा. लि.
384	70014	मैसर्स चिक कंसल्टेन्सी प्रा. लि.
385	70013	मैसर्स चिक मर्चेन्डाईज प्रा. लि.
386	19001	मैसर्स चाइल्ड एण्ड कम्पनी प्रा. लि.
387	25301	मैसर्स चिल्ल (इण्डिया) प्रा. लि.
388	21964	मैसर्स चिमिका फार्मास्यूटिकल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
389	53093	मैसर्स चिरा इम्पेक्स प्रा. लि.
390	41920	मैसर्स चिराग बिजनेस सर्विसेज प्रा. लि.
391	43648	मैसर्स चिराना बिजनेस प्रा. लि.
392	16715	मैसर्स चित्रश्री प्रा. लि.
393	83392	मैसर्स च्वाइस कोम्प्रीडीटीज प्रा. लि.
394	54866	मैसर्स चौधरी हाई-टेक कम्प्यूटर सिस्टेम्स प्रा. लि.
395	86970	मैसर्स चौधरी रोडवेज प्रा. लि.
396	10055	मैसर्स चुरुलिया साधुज इस्टेट प्रा. लि.
397	61915	मैसर्स सिकोनिया इक्युटी सर्विसेज प्रा. लि.
398	71774	मैसर्स सिन्डी सेल्स प्रा. लि.
399	51881	मैसर्स सिपा ड्रास प्रा. लि.
400	78472	मैसर्स सिटिजन कॉमर्स प्रा. लि.
401	59545	मैसर्स सिट्टा कोम्प्रीडीटीज प्रा. लि.
402	66496	मैसर्स सिट्टीक मर्चेन्डाईज प्रा. लि.
403	15812	मैसर्स सिटी एक्जीबिटर्स प्रा. लि.
404	22866	मैसर्स सिटी क्लास हाऊस प्रा. लि.
405	38751	मैसर्स सिटी लेक फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
406	18178	मैसर्स सिटी स्टोर सप्लाय कम्पनी प्रा. लि.
407	87442	मैसर्स सिटी एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
408	57450	मैसर्स सिटीलिक बिल्डर एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.
409	77834	मैसर्स सिजेर कॉमर्शियल कम्पनी प्रा. लि.
410	51629	मैसर्स क्लैटर्फ कांजेंट प्रा. लि.
411	64347	मैसर्स क्लैम करेम्प्रीडीटीज प्रा. लि.
412	86898	मैसर्स क्लेरियोन इण्डस्ट्रीयल पार्क प्रा. लि.
413	17310	मैसर्स क्लेरिटा प्रा. लि.
414	88893	मैसर्स क्लार्क फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज प्रा. लि.
415	57838	मैसर्स क्लासिक कम्प्युटाय प्रा. लि.
416	75747	मैसर्स क्लासिक विनिमय प्रा. लि.
417	53808	मैसर्स क्लासिक रिसोर्ट्स एण्ड अपार्टमेंट्स प्रा. लि.
418	89016	मैसर्स क्लीप ऑडियो विडियो प्रोडक्शन्स प्रा. लि.
419	62776	मैसर्स क्लाइमेक्स सप्लायर्स प्रा. लि.
420	24956	मैसर्स क्लीनिकल इण्डस्ट्रीज प्रा. लि.
421	69449	मैसर्स क्लस्टर टाई-अप प्रा. लि.

1	2	3
422	12555	मैसर्स कोल प्रोडक्ट्स प्रा. लि.
423	67183	मैसर्स कौसेट्रा कोम्पोडीटीज प्रा. लि.
424	67184	मैसर्स कोसेट्रा गुड्स प्रा. लि.
425	59475	मैसर्स कॉक्सी डाटा बेस प्रा. लि.
426	68492	मैसर्स क्वायनसेव मर्केन्टाईल्स प्रा. लि.
427	50606	मैसर्स कोजेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
428	20683	मैसर्स कोक ओवेन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा. लि.
429	66057	मैसर्स कोल्डटाईम व्यापार प्रा. लि.
430	30262	मैसर्स कोलाबोरेट चिट एण्ड फिनांस कम्पनी प्रा. लि.
431	64344	मैसर्स कोलोनी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रा. लि.
432	88531	मैसर्स कॉम्बैट पोल्लुशन प्रा. लि.
433	44990	मैसर्स कॉमेट कंस्ट्रक्शन प्रा. लि.
434	88698	मैसर्स कमाण्ड कैपिटल सर्विसेज प्रा. लि.
435	88701	मैसर्स कमाण्ड ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्रा. लि.
436	88699	मैसर्स कमाण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
437	88697	मैसर्स कमाण्ड आयल एण्ड केमिकल्स प्रा. लि.
438	88696	मैसर्स कमाण्ड रबड़ प्रा. लि.
439	88700	मैसर्स कमाण्ड ट्रान्सपोर्ट एण्ड इन्वेस्टमेंट प्रा. लि.
440	54434	मैसर्स कॉमरकैन्ट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
441	23583	मैसर्स कॉमर्शियल रिप्रोडक्शन प्रा. लि.
442	18476	मैसर्स कॉमर्शियल ट्रस्ट प्रा. लि.
443	18832	मैसर्स कॉमनवेल्थ स्पीनिंग एण्ड निटिंग मिल्स प्रा. लि.
444	16248	मैसर्स कॉमनवेल्थ ट्रेडिंग कारपोरेशन प्रा. लि.
445	46051	मैसर्स कॉम्पैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रा. लि.
446	76050	मैसर्स कॉम्पास क्रेडिट एण्ड कैपिटल प्रा. लि.
447	59477	मैसर्स कॉम्पैक्ट व्यापार प्रा. लि.
448	67807	मैसर्स कॉम्पीग ट्रेकोन प्रा. लि.
449	26469	मैसर्स कॉम्प्लेक्स ऑयल एण्ड स्टील फाण्ट्री प्रा. लि.
450	27601	मैसर्स कम्प्लीमेन्टरी लेदर प्रा. लि.
451	88602	मैसर्स कम्प्युसेट प्रिन्ट सर्विसेस प्रा. लि.
452	45127	मैसर्स कम्प्युटर स्टडी एण्ड एलॉयड सर्विसेज प्रा. लि.
453	84873	मैसर्स कोनेज सरफेस ट्रीटमेंट्स प्रा. लि.
454	48015	मैसर्स कॉन्सेप्ट कम्प्युनिकेशन (कलकत्ता) प्रा. लि.
455	23961	मैसर्स कन्सर्न प्रा. लि.

1	2	3
456	61668	मैसर्स कॉन्कोर्ड एवियेशन इण्डिया प्रा. लि.
457	73908	मैसर्स कॉन्कोर्ड कॉमर्स प्रा. लि.
458	61667	मैसर्स कॉन्कोर्ड एक्जीम इण्डिया प्रा. लि.
459	69279	मैसर्स कॉन्कोज विनिमय प्रा. लि.
460	1790	मैसर्स कॉन्मेक सेल्स प्रा. लि.
461	81233	मैसर्स कॉन्कर्ड टेक्नोलॉजी प्रा. लि.
462	32547	मैसर्स कॉन्सर्व (इण्डिया) प्रा. लि.
463	50006	मैसर्स कॉन्सोलीडेटेड फाइबर्स प्रा. लि.
464	89256	मैसर्स कॉन्सोर्टियम सोलुशन प्रा. लि.
465	86482	मैसर्स कन्सुमर ट्रेडिंग्स प्रा. लि.
466	45510	मैसर्स कॉन्ट्राई फिनांस एण्ड हायर पर्चेज प्रा. लि.
467	43322	मैसर्स कॉन्टेम्पोरेरी मैनेजमेंट सर्विसेज प्रा. लि.
468	18424	मैसर्स कॉन्टीनेन्टल बोटल कम्पनी प्रा. लि.
469	88005	मैसर्स कॉन्टीन्यू ट्रेड्स प्रा. लि.
470	68372	मैसर्स कॉन्ट्र-गेट विनिमय प्रा. लि.
471	34167	मैसर्स कॉन्ट्रोल इन्जीनियरिंग प्रा. लि.
472	64343	मैसर्स कॉन्वर्टेक्स डीलर्स प्रा. लि.
473	67454	मैसर्स कुल ब्रेन विनिमय प्रा. लि.
474	58350	मैसर्स कुलटेक्स कोम्पोडीटीज प्रा. लि.

उज्जवल राय
कम्पनी रजिस्ट्रार
प. बंगाल

कम्पनी अधिनियम 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में
पाँडिचेरी, दिनांक 27 फरवरी 2007

सं. 1903, 1449/560(3)/2007--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी:-

सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम	रजिस्ट्रेशन दिनांक
1	1903	मै. मारुति चिट्स एंड फाईनॉन्स कम्पनी प्रा. लि.	23.09.2005
2	1449	मै. सम्पूर्ण एजुकेशनल करिकलम प्रा. लि.	26.02.1999

एम. कण्णन
कम्पनियों का रजिस्ट्रार
पाँडिचेरी

**UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION
EXAMINATION NOTICE NO. 08/2007-NDA-II**

(Last Date for Receipt of Applications 16th April 2007)

**NATIONAL DEFENCE ACADEMY AND
NAVAL ACADEMY EXAMINATION (II), 2007**

(Commission's Website <http://www.upsc.gov.in>)

New Delhi, the 17th March 2007

No. F.77/2006 E.1(B) : An Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 19th August, 2007, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 120th Course and Naval Academy for the 40th 10+2 (Executive Branch) Course commencing from July, 2008. The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 335 (195 for the Army, 39 for Navy, 66 for the Air Force and 35 for the Executive Branch of Naval Academy).

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in Col. 17(I) of the Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Before indicating their preferences for different courses, the candidates should first decide their preference for the two Academies viz. National Defence Academy and Naval Academy (Executive Branch). If a candidate opts for National Defence Academy as his first choice, he must first indicate his preferences for different wings of National Defence Academy viz Army, Navy and Air Force followed by his preferences for Naval Academy (Executive Branch). Alternatively, if a candidate opts for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, he must first indicate his preference for Naval Academy (Executive Branch) as his first choice, followed by his preferences for different wings of National Defence Academy. Thus candidates opting for Naval Academy (Executive Branch) Course as well as other courses of National Defence Academy must give Naval Academy (Executive Branch) as their first preference or the last preference. Naval Academy (Executive Branch) cannot be given as 2nd or 3rd preference. Even if Naval Academy

(Executive Branch) is given as 2nd or 3rd preference by the candidate, it will be deemed to be the last preference.

(iv) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

2. Centres of Examination : The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizwal, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwar, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion, allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his application form for the Examination, he must send a letter addressed to the Secretary, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 16th May, 2007 will not be entertained under any circumstances.

3. Conditions of Eligibility :

(a) Nationality : A candidate must either be :

- (i) a Citizen of India, or
- (ii) a subject of Bhutan, or
- (iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1989 and not later than 1st January, 1992 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in Column 8 of the application form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4 : Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications :

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 (Executive Branch) Course at the Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward the certificates alongwith photocopies thereof to 'Additional Directorate General of Recruiting, Army HQ, West Block-III, R.K. Puram, New Delhi-110 066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR (R&R) Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011' by 10th June, 2008 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note 1 : Candidates appearing in the 11th class examination are not eligible for this examination.

Note 2 : Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 10th June, 2008) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination or delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

Note 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

Note 4 : Those candidates who have failed INSB/PAT earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and

Naval Academy Examination (II), 2007 as per guidelines given in Appendix-V.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary Grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

4. Fee :

(i) A candidate seeking admission to examination must pay to the Commission a fee of Rs. 50/- (Rupees Fifty only) through a single Central Recruitment Fee Stamp. Central Recruitment Fee Stamp (NOT postage stamp) of the requisite denomination may be obtained from the post office and affixed on the application form in the space provided therein. The stamp must be got cancelled from the issuing Post Office with the date stamp of the Post Office in such a manner that the impression of the cancellation mark partially overflows on the application form itself but within the space provided on the application form itself. The impression of the cancellation mark should be clear and distinct to facilitate the identification of date and the Post Office of issue.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador or representative abroad as the case may be for credit to account head '051—Public Service Commission—Examination Fees' and attach the receipt with the application.

Application not complying with this requirement will be summarily rejected. This does not apply to the candidates who are seeking remission of the prescribed fee under the following paragraph.

Candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes are not required to pay any fee. No fee exemption is, however available to OBC Candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

'Postage Stamps' will in no case be accepted in lieu of Central Recruitment Fee Stamp.

Candidates should note that the fee sent through Indian Postal Orders, Bank Draft, Money Orders, Crossed Cheque, Currency Notes or Treasury Challan etc. will not be accepted by the Commission and such applications will be treated as without fee and will be summarily rejected.

(ii) The children of Junior Commissioned Officers, Non-Commissioned Officers and Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force and children of Ex-Junior Commissioned Officers, Ex-Non-Commissioned Officers and Ex-Other Ranks of the Army and equivalent ranks in the Indian Navy and the Indian Air Force are not required to pay the prescribed fee if they satisfy the following conditions, viz.

(a) they are studying in the Military Schools (formerly known as King George's Schools), Sainik Schools run by the Sainik Schools Society, and

(b) their applications are forwarded by the Principal of the concerned School.

Note : Applications of candidates from the Military Schools/Sainik Schools forwarded by the Principals of the concerned Schools will be scrutinised in the Commission's Office to determine whether such candidates are entitled to remission of fee in terms of para 4(ii) of the Notice above. The Principals of the Military Schools/Sainik Schools should however, satisfy themselves that students of their Schools fulfil the requirements of the aforesaid provision of the Notice. While forwarding the application, the name of the applicant and his application Form No. (8 digit) should be indicated in the forwarding letter. The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form. The Commission will not take any responsibility for any acts of omission or commission committed by the Principals.

No claim for a refund of fee once paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5. How to Apply :

(a) The UPSC have developed an application form common for all their examinations which can be processed on computerised machines. This application form along with an Information Brochure containing general instructions for filling up the form, an acknowledgement card and an envelope for sending the application will be obtainable from the designated Head Post Offices/Post Offices throughout the country as listed in Appendix-III of Notice against cash payment of Rs. 20/- (Rupees Twenty only). Form should be purchased from the designated Head Post Offices/Post Offices only and not from any other agency. This form can be used only once and for only one examination. Candidates must use the form supplied with the Information Brochure only and they should in no case use photocopy/reproduction/unauthorisedly printed copy of the Form. Since this form is electronically scanned, due care should be taken to fill up the application form correctly. While filling up the application form, please refer to detailed instructions given in Appendix-II of this Notice. The candidates should also fill up in the relevant places of the Acknowledgement Card, their Application Form Number (8 digit) and the name of the examination. The applicants are required to affix the postage stamp of Rs. 6/- on the Acknowledgement Card and send the same along with application form to UPSC. If an applicant fails to affix the postage stamp of requisite amounts his acknowledgement cards will not be dispatched and Commission will not be responsible for non-receipt of acknowledgement cards by the applicant. The duly filled in application form and the acknowledgement card should then be mailed in the special envelope supplied with the Information Brochure. The candidate should also write the name of examination viz. "National Defence Academy and Naval Academy Examination (II), 2007" on the envelope

before despatching it to "Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069". Candidates should mention their Tele No./ Fax No.

(b) All candidates whether already in Govt. service, Government owned industrial undertakings or other similar organisations or private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late, the application, even if submitted to the employer before the closing date, will not be considered. Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises are however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for this Examination.

Candidates should note that in case a communication is received from their employer by the Commission withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidature will be liable to be cancelled.

Candidates serving in the Armed Forces must submit their application through their Commanding Officer who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form number (8 digit).

The applications of Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officer.

Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools (formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society should submit their applications through Principal of College/School concerned who will forward it to the Commission indicating in the forwarding letter the name of the applicant and his application form Number (8 digit). The forwarding letter should not be tagged or pinned with the application form.

NOTE 1 : WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION. MORE THAN ONE APPLICATION FROM A CANDIDATE GIVING DIFFERENT CENTRES WILL NOT BE ACCEPTED IN ANY CASE. EVEN IF A CANDIDATE SENDS MORE THAN ONE COMPLETED APPLICATION, THE COMMISSION WILL ACCEPT ONLY ONE APPLICATION AT THEIR DISCRETION AND THE COMMISSION'S DECISION IN THE MATTER SHALL BE FINAL.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN

HIS ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE 2 : APPLICATIONS NOT ACCOMPANIED BY THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE OR DEFECTIVE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT ALONGWITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTE/SCHEDULED TRIBE/OBC AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE ENSURE THAT THEY FULFIL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFIL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF NOVEMBER, 2007.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB INTERVIEW. SOON AFTER THE INTERVIEW, THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIM IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using any mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination.
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates along with their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period
 - (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
 - (ii) by the Central Government from any employment under them; and
 - (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rules shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS

(i) The completed application form must reach the Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi-110069 on or before 16th April, 2007.

(ii) In respect of applications received only by post (by post/speed post) from candidates residing in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Lahaul Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of

Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep or abroad, the last date for receipt of applications is 23rd April, 2007.

The benefit of extended time will be available only in respect of applications received by post/speed post from the above mentioned areas/regions. In the case of applications received by hand or through courier service, benefit of extended time will not be available regardless of the place of residence of the applicant.

Candidates who are claiming the benefit of extended time should clearly indicate in column 13 (II) of the application form, the area code of region (e.g. Assam, Meghalaya, J&K etc.) where they are residing. In case they fail to do so, the benefit of extended time will not be allowed to them.

NOTE I : Candidates should clearly note that the Commission will in no case be responsible for non-receipt of their application or any delay in receipt thereof on any account whatsoever. No application received after the prescribed last date will be entertained under any circumstances and all the late applications will be summarily rejected. They should, therefore, ensure that their applications reach the Commission's Office on or before the prescribed last date.

NOTE II : Candidates can also deliver their applications personally at the Commission's counter against proper acknowledgement. The Commission will not be responsible for the applications delivered to any other functionary of the Commission.

NOTE III : Applications received through Couriers or Courier Services of any type shall be treated as having been received "By hand" at the Commission's Counter.

7. ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS :

Immediately on receipt of an application from a candidate, the Acknowledgement Card submitted by him alongwith the application form will be despatched to him by the Commission's office in token of receipt of his Application. If a candidate does not receive the Acknowledgement Card within 30 days, he should at once contact the Commission by quoting his Application Form No. (8-digit) and name & year of examination. Candidates delivering the application form in person at the Commission's Counter will be issued Acknowledgement Card at the Counter itself.

The mere fact that a candidate's application has been acknowledged by the Commission does not mean that his candidature for the examination has been accepted by the Commission. Candidates will be informed at the earliest possible about their admission to the examination or rejection of their application.

8. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS.

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) Admission certificates, indicating the Roll Nos., Centre and the Courses to which admitted will be issued to the candidates who are admitted to the examination. The admission certificate will bear the photograph of the candidate. If a candidate does not receive his admission certificate or any other communication regarding his candidature for the examination three weeks before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission Certificate or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over phone Nos. 011-23385271, 23381125, 23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his admission certificate at least three weeks before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his Admission Certificate. It may be noted that the Admission Certificate will be issued at the address as photo-copied from the application form filled in by the candidate. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the application form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the application form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions by the UPSC.

- (ii) In the event of a candidate receiving more than one admission certificate from the Commission, he should use only one of these admission certificates for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iii) If a candidate receives an admission certificate in respect of some other candidate on account of processing error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate issued in respect of another candidate.
- (iv) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or

otherwise for admission to the Examination shall be final.

- (v) Candidates should note that the name in the Admission Certificate in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vi) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT : ALL COMMUNICATIONS TO THE COMMISSION SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :

1. NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION.
2. APPLICATION FORM NO. (8 DIGIT).
3. ROLL NUMBER (IF RECEIVED).
4. NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK LETTERS).
5. POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN THE APPLICATION.

N.B. (i) COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii) IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATION FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO;

For candidates with Army as First Choice—Army Headquarters, A.G's Branch RTG. (NDA Entry), West Block III, Wing 1, R. K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment R & R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi-110011, Phone No. 23011213.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, New Delhi-110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING

THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview direct as follows;

For candidates with Army as First choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block III, Wing-I, R.K. Puram, New Delhi-110066, Phone No. 26175473.

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhavan, New Delhi-110011, Phone No. 23011213.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, New Delhi-110011, Phone No. 23010231.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the month of December, 2007—March, 2008 or as suitable to Recruiting Directorate.

9. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES : The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Executive branch of Naval Academy will be assessed on officers potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for officers potentiality.

Two Stage Selection Procedure

Two Stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and intelligence test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation

pass certificate, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy and Naval Academy should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination and (ii) Officer potentiality test, as fixed by the Commission in their discretion, and candidates for the Air Force should secure the minimum qualifying marks separately in (i) Written examination (ii) Officer potentiality test, and (iii) Pilot Aptitude Test as fixed by the Commission in their discretion.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in the final order of merit on the basis of total marks secured by them in the Written examination, and the Services Selection Board Tests in three separate lists—one for the Army and the Navy, the second one for the Air Force and the third for the Course at the Naval Academy. The names of candidates who qualify for all the Services of NDA and the Naval Academy will appear in all the three Merit Lists. The final selection for admission to the Army and Naval Wings of the National Defence Academy will be made in order of merit upto the number of vacancies available from the merit list for the Army and Naval Wings, for the Air Force Wing from the merit list for the Air Force; and for the Executive Branch of Naval Academy upto the number of vacancies available from the merit list for the Naval Academy, subject to medical fitness and suitability in all other respects. The candidates who are common to all the three merit lists will be considered for selection from all the three lists with reference to their order of preferences and in the event of their final selection from one list, names will be cancelled from the other lists.

N. B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided

by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

10. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the Executive Branch of Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Naval Academy on medical grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

11. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

12. The details regarding : (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy; and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

VINAYA PRAKASH SINGH

Joint Secy.
UPSC

APPENDIX-I

(The scheme and syllabus of examination)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2-½ Hours	300
General	02	2-½ Hours	600
Ability Test			
Total			900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART "B" OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

PAPER-I

MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks-300)

1. ALGEBRA

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams, De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube root of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its application. Logarithms and their applications.

2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications - Solution of system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

3. TRIGONOMETRY :

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angle formulae. Inverse trigonometric functions. Applications - Height and distance, properties of triangles.

4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS :

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola.

ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications. Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equation, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force, and in geometrical problems.

8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample

space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER-II

GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks-600)

Part 'A'—ENGLISH

(Max. Marks : 200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE (Max. Marks : 400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, Elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non-conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X-Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask,

Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass, Lightning Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination* (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen* and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches, and Gun-Powder.

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic, Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non-living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co-operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world, Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence, French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution, Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel,

Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes. Concept of time, International date Line, Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification. Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti-cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation. Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE :

Out of maximum marks assigned to Part 'B' of the paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

Intelligence and Personality Test

In addition to the interview the candidates will be subjected to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be subjected to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.

Note : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED

PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE, THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speedup finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

The undermentioned ailments are considered, common minor ailments :

- (a) Wax (Ears)
- (b) Deviated Nasal Septum
- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to out-patients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to in-patient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests; or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

(a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of military duties.

(b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under-weight. The Candidate should not be over weight or obese.

(c) The minimum acceptable height is 157.5 cms (162.5 cms for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North-Eastern region of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

**HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE
TABLE-I**

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16-17 years	17-18 years	18-19 years
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.5	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

**HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY
TABLE-II**

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16 years	18 years	20 years
1	2	3	4
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

A $\pm 10\%$ (A ± 6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table I above is to be considered within

normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad build as well as individuals with thin but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

	Minimum	Maximum
Leg length	99.00 cms.	120.00 cms.
Thigh Length	—	64.00 cms.
Sitting Height	81.50 cms.	96.00 cms.

On account of lowerage of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

- (d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.
- (e) There should be no disease of bones and joints of the body. X-ray of spine of candidates will not be carried out as a routine except for Air Force. It will, however, be done on the advice of surgical specialist wherever clinically indicated. Minor congenital defects which are not likely to interfere in the performance of military duties may be acceptable on merit.

Spinal Conditions

- (f) The following past medical history is disqualifying for Air force duties :
 - (i) Disease or injury of the spine or sacroiliac joint either with or without objective sign which has prevented the candidate from successfully following a physically active life.
 - (ii) Prolapse intervertebral disc and surgery for the condition.
- (g) Thorough Clinical examination of the spine including its shape, local tenderness if any, spinal movements etc. is to be carried out. For candidates for aircrew duties only, X-ray of lumbosacral cervical spine (AP and Lateral views); is to be carried out.

- (h) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.
- (i) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.
- (j) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Air Force :
 - (i) Granulomatous disease of spine.
 - (ii) Arthritis/spondylosis
 - (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
 - (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis
 - (v) Spondylolisthesis/Spondylosis.
 - (vi) Herniated nucleus pulposus.
 - (vii) Compression fracture of Vertebra.
 - (viii) Sacralisation Disease
 - (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
 - (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
 - (xi) Atlanto-occipital, and atlanto-axial anomalies.
 - (xii) "Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral"
 - (xiii) Spinabifida other than SV 1 and LV 5
 - (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (k) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (l) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for Air Force. Audiometric loss should not exceed + 20 db in frequencies between 250Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.
- (m) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.
- (n) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (o) Un-operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, minimum of 1 year must have passed prior to final selection.

medical examination before commencement of the course.

- (p) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (q) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (r) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (s) A candidate should be able to read in a distant vision chart 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5D and hypermetropia not more than 3.5D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP-III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity, will be permanently rejected for all the services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

Vision standard for Naval candidates

Uncorrected without glass 6/6

Corrected with glass	6/6
Limits of Myopia	-0.75
Limits of Hypermetropia	+1.5
Binocular vision	III
Limits of colour preception	I

Ocular Muscle Balance Hetrophoria with the Maddox Rod Test must not exceed:

- (i) At 6 metre— Exophoria 8 prism dioptries,
Esophoria 8 prism dioptries,
Hyperphoria 1 prism dioptries.
- (ii) at 33 cm Exophoria 16 prism dioptries,
Esophoria 6 prism dioptries,
Hyperphoria 1 prism dioptries.

For Air Force, the criteria are :—

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force.

Distant vision	6/6, 6/9 and correctable to 6/6 only for Hypermetropia. No Manifest Myopia permitted.
----------------	---

Near Vision N-5 each eye

Colour Vision CPI (MLT)

Manifest Hypermetropia Must not exceed +2.00 D Sph

Myopia Nil

Astigmatism +0.75 Cyl

Hetrophoria with the Maddox Rod must not exceed—

- (i) at 6 metres Exophoria 6 prism dioptries,
Esophoria 6 prism dioptries,
Hyper/Hypophoria 1 prism dioptre.
- (ii) at 33 cms. Exophoria 16 prism dioptries,
Esophoria 6 prism dioptries,
Hyper/Hypophoria 1 prism dioptre.
- (iii) Binocular Vision Must possess good binocular vision (fusion and Stereopsis with good amplitude and depth).
- (t) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.
- (u) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.
- (v) "Physical conditioning" Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—
 - (a) Running 2.4 Km in 15 minutes
 - (b) Skipping
 - (c) Pushups and sit ups (minimum 20 each)
 - (d) Chin ups (minimum 08)
 - (e) Rope climbing 3-4 metres.

APPENDIX-III

(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) a certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 175.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs. 175.00 p.m. for the 1st and 2nd years. Rs. 175.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 175.00 p.m. for the further specialised training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be granted by the Government. No cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 1500/- per month and Rs. 2000.00 per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune-411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there :

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 175.00 per month.	Rs. 875.00
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 3200.00
(c) Incidental Expenditure during 1st Semester	Rs. 425.00
Total :	Rs. 4500.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidate in the event of financial aid being sanctioned to them :

(a) Pocket allowance for five months at Rs. 175.00 per month	Rs. 875.00
(b) For items of clothing and equipment approximately.	Rs. 475.00

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy :

(1) **PARSHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is granted to boys who belong to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre-commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex-serviceman. The Scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) **KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIPS**—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College and Naval Academy, Cochin where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) **ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted the scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) **UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH.

merit-cum-means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) **KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—One merit scholarship of the value of Rs. 480/- per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the all India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) **BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE**—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) **ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit-cum-means of the cadets whose parents' or guardians' income does not exceed Rs. 5,000/- per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) **WEST BENGAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Following categories of scholarships are awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

Scheme-I

Number of Scholarships	- Six per year.
Distribution of Scholarships	- One each for Army, Navy and Air Force for each of two terms commencing every year.
Financial grant per Award	- 1st year - Lumpsum clothing grant of Rs. 2500/- and Pocket Allowance of Rs. 125/- per month. 2nd/3rd/4th year—Pocket Allowance of Rs. 125/- per month.

Scheme-II

Number of Scholarships	- Six per year.
Distribution of Scholarships	- As in Scheme-I.
Financial grant per Award	- 1st/2nd/3rd/4th year - Lumpsum grant of Rs. 100/- each year.

(10) **PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL SCHOLARSHIP**—One Scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) **HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parents' income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) **TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/- per month plus an outfit allowance of Rs. 400/- (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parents'/guardians' monthly income does not exceed Rs. 500/-. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) **KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—The Government of Karnataka has awarded 18 scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/- (Rupees Four hundred and eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/- per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/ RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) **ALBERT EKKA SCHOLARSHIP**—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit scholarships at Rs. 50/- per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/- one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(15) **FG. OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Gp Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/- each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on

completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(16) FINANCIAL ASSISTANCE TOWARDS OF EX-SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE

The wards of Maharashtrian ex-service officers/men who are undergoing training as cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses prescribed by the Training Establishment at the following rates:

Ex-Officers :	50%	of total pocket expenses for entire duration of training.
Ex-JCOs :	75%	-do-
Ex-ORs :	100%	-do-

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the academy, showing the rates of pocket money, based on which the amount will be remitted to the applicant's parents.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE-411 023.

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d) is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

Training

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter-Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B.Sc. (Computer)/B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy,

Dehra Dun, Naval Cadets to the Cadets Trainingship and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD..

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable to leading infantry Sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Engineering and Electrical Branches of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given sea training on the Cadet Trainingship for a period of six months on successful completion of which they are promoted to the rank of Midshipmen. After a further training of 6 months in the respective branches to which they are allocated they are promoted to the rank of acting Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional commission in the rank of Flying Officer after successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy :

(i) Stipend for Cadet Training

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 8000/- p.m. On successful completion of training the stipend admitted will be converted as pay for all purposes. However, the period of training shall not be treated as commissioned service.

(ii) Pay

(a) Rank	Pay Scale
Lt.	Rs. 8250-300-10050
Capt.	Rs. 9600-300-11400
Major	Rs. 11600-325-14850*

*On promotion to the rank of Major and equivalent in substantive capacity the pay will be fixed initially at the stage of Rs. 11,925 in the pay scale of Rs. 11,600-325-14,850, in addition to Rank pay.

Lt. Col.	Rs. 13500-400-17100
Col.	Rs. 15100-450-17350
Brig.	Rs. 16700-450-18050

(b) In addition to pay, Rank pay will also be given as under :—

Capt.	Rs. 400
Major	Rs. 1200

“Due to restructuring of the officer's cadre, on recommendation of AVS committee, promotion period has been reduced and Time Scale promotion has been increased upto the rank of Col. and rank of Lt. Col (TS) has been abolished. Col. (TS) are entitled to rank pay of Lt. Col. which is currently Rs. 1600/- p.m.

Col.	Rs. 2000
Brig.	Rs. 2400
(c) Rank	Pay Scale
Maj. Gen.	Rs. 18400-500-22400.
Lt. Gen.	Rs. 22400-525-24500.

Vice-Chief of
the Army Staff
and Army Cdrs Rs. 26000 (Fixed)

Chief of the
Army Staff Rs. 30,000 (Fixed).

(iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed qualifications are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 3000/-, 4500/-, 7500/- or 10,000/- based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 250/- p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 200/- p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 140/- p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 200/- p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 140/- p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

- (a) Brig & above Rs. 5250/-
- (b) Maj to Col. Rs. 7000/-
- (c) Capt. Rs. 5500/-
- (d) Lt. Rs. 4500/-

(iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Compensatory (City) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 200/- p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 3390/- to Rs. 4200/- p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 2100/- to Rs. 2600/- p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 800/- to Rs. 1000/- p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Area Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. to 15000 ft. and areas above 15000 ft. High Altitude category I (9000 feet to 15000 feet an uncongenial Areas below 9000 feet) High Altitude category II (above 15000 feet) would be admissible at the rate of Rs. 530/- to Rs. 1060/- and Rs. 800/- to Rs. 1600/- p.m. respectively.

(e) Siachen Allowance at the rate of Rs. 7000/- per month will be admissible in addition to Compensatory Field Area Allowance to officers of all ranks. This allowance is, however, not admissible in conjunction with High Altitude/uncongenial climate allowance. Personnel entitled to Siachen Allowance and Flying Allowance can draw either of the two and not both concurrently.

(f) Outfit allowance : Initial Outfit allowance is Rs. 6000/-. Renewal outfit allowance Rs. 6000/- after seven years of effective service.

(g) Free rations are provided to all officers.

(h) Transport Allowance : Transport allowance @ Rs. 800/- p.m. in 'A-1' and 'A' class cities and Rs. 400/- p.m. at other places shall be admissible to officers not provided with Government accommodation within a distance of 1 Km from the place of duty or within a campus housing the places of work and the residence.

12. (a) With effect from 01 Jan., 2003 Army Group Insurance Fund provides insurance cover for Rs. 8 Lacs on payment of one time premium of Rs. 4250/- for 3 years paid in advance in lumpsum to the cadets including Naval and Air Force cadets of NDA from the date of joining for Pre-Commission training till completion of training at NDA. In case of relegation an additional Premium of Rs. 770/- per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability proportionately reduced to Rs. 80,000/- for 20 per cent disability. Disability due to alcoholism and drug addiction will not qualify for disability benefits and any ex-gratia payments.

(b) At IMA when in receipt of stipend of Rs. 8000/- per month the Gentleman Cadets are provided insurance cover of Rs. 15 lac. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability i.e. Rs. 7.5 lac for 100 per cent disability proportionately reduced to Rs. 1.5 lac for 20 per cent disability. Gentleman Cadets being boarded out with less than 20 per cent disability will be given an ex-gratia grant of Rs. 20,000/-. Disability due to alcoholism and drug addiction will not qualify for disability benefits and any ex-gratia payments. On commissioning/Gentleman Cadets would be covered under the Main Army Group Insurance Scheme as applicable to Regular Army Officers.

13. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casually pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

14. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

VINAYA PRAKASH SINGH

Joint Secy.

Union Public Service Commission

New Delhi, the 31st January 2007

No. A-38012/04/2006-Admn. I—The President is pleased to permit Miss Saroj, CSS, working as Under Secretary in UPSC to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 31st January 2007.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 7th February 2007

No. A-38012/05/2007-Admn. I—Consequent upon his death on 22nd January 2007, the name of Shri P. K. Bose, CSS, Under Secretary, UPSC has been struck off from the rolls of UPSC.

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

The 28th February 2007

No. A-38014/10/2006-Admn. II—Consequent upon his attaining the age of superannuation Shri Phool Singh, Manager (EDP) (Ad-hoc) in the office of Union Public Service Commission has retired from Government Service with effect from the afternoon of 28.02.2007 (Twenty Eighth, February, 2007)

DINESH KUMAR
Under Secy. (Admn.)

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi 110003, the 6th March 2007

No. DP/PERS. I/2007/054/3/43/93—Shri Sabha Chand relinquished charge of the post of Office Superintendent, Central Bureau of Investigation on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 28th February, 2007.

SURINDER MOHAN
Administrative Officer (Pers.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**DIRECTORATE GENERAL, CRPF**

New Delhi, the 21st February 2007

No. D. I. 12/2003 Pers. I—Consequent on his selection for appointment to the post Chief Drill Instructor in the SVP National Police Academy, Hyderabad on deputation basis for a period three years, services of Shri K. Senthinathan, Assistant Commandant, 83 Bn, CRPF, (IRLA-5894) are placed at the disposal of SVP National Police Academy Hyderabad from 30.12.2006 (FN).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

The 26th February 2007

No. O.II.3729/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Jahangir Ahmad as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 10.2.2007 till further order. He is posted to CH, CRPF, Rampur (UP).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O.II.3730/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Jatendra Kumar Sahu as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 10.2.2007 till further order. He is posted to 46 Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

No. O.II.3731/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Sanjoy Rajak as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 12.2.2007 till further order. He is posted to 2nd Bn, CRPF.

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

The 3rd March 2007

No. O.II.3732/07-CRC (MOs)—The President is pleased to appoint Dr. Shrawan Kumar as Medical Officer (Assistant Commandant) in Central Reserve Police Force in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- in temporary capacity from the forenoon of 10.2.2007 till further order. He is posted to Composite Hospital, CRPF, Hyderabad (AP).

RANJIT SINGH
Addl. DIG (Pers-I)

DIRECTORATE GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi-3, the 28th February 2007

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers. II/542—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri . Thavasi Muthu, relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF, NISA Hyderabad in the afternoon of 31.01.2007.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen. (CISF)

No. E-28017/6/Noti/2007/Pers. II/543—Consequent to his retirement from Govt. service on attaining the age of superannuation, Shri M. Lal, relinquished the charge of the post of Deputy Commandant, CIFS Unit, BHEL Haridwar in the afternoon of 31.01.2007.

Sd/- ILLEGIBLE
Dir. Gen. (CISF)

MINISTRY OF FIANCE

CURRENCY NOTE PRESS NASIK ROAD

A UNIT OF SECURITY PRINTING & MINTING
CORPORATION OF INDIA LTD.

New Delhi, 6th February 2007

No. 24/ESC-1-11—On the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group-B) Shri S. D. Chaudhari, Sectional Officer, Currency Note Press is hereby promoted to the post of Administrative Officer (Group 'B', Gazetted), on officiating basis in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- w.e.f. 01-03-2007.

He will be on probation for a period of 02 (Two) years.

This has approval of the General Manager.

R. G. BHOYTE
Chief Administrative Officer

No. 25/ESC-1-10—On the recommendations of Departmental Promotion Committee (Group-B) Shri U. D. Vasave, (ST), Inspector Control, Currency Note Press is hereby promoted to the post of Deputy Control Officer (Group 'B', Gazetted), on officiating basis in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 23-02-2007.

He will be on probation for a period of 02 (Two) years.

This has approval of the General Manager.

R. G. BHOYTE
Chief Administrative Officer

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES

New Delhi-110002, the 6th March 2007

No. Admn. I/O.O. No. 310—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri K. N. Johar, Audit Officer of this office will retire from Government Service on 31.3.2007 (AN).

His date of birth is 22.3.1947 and he joined Government service on 15.7.1969.

K. PRASAD
Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
ECONOMIC AND SERVICE MINISTRIES

New Delhi-110002, the 2nd March 2007

No. AMG-I/Admn. I/2 (1)/Vol. XIII/2002-07/833—The Principal Director of Audit, Economic and Service Ministries, New Delhi has ordered promotion of the following Section Officers as Assistant Audit Officer (Group 'B' Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,450-225-11,500/- from the date shown against them :—

Sl. No.	Name	Date of promotion
	(S/Shri)	
1.	Smt. Megha Kaushik	02.01.2006
2.	Shailender Singh Negi	02.01.2006
3.	Atul Naya	02.01.2006
4.	Sanjeev Kumar Sajjan	02.01.2006
5.	Ms. Rashmi Verma	02.01.2006
6.	Smt. Anita Behl	02.01.2006
7.	Kuldeep Negi	02.01.2007
8.	Smt. Uman Grover	02.01.2007
9.	Ahmed Feroze	02.01.2007
10.	Ramesh Kumar	02.01.2007

SANTOSH KUMAR
Dy. Dir. (Admn.)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
GUJARAT

Ahmedabad, the 2007

The Accountant General (A&E) is pleased to promote S/ Shri J. M. Rathod and H. R. Prajapati both DAIO-I as Sr.

Divisional Accounts Officer, Gr. 'B' (Gazetted) in the pay scale of Rs. 7,500-250-12,000/- w.e.f. 14.9.2006 and 2.1.2007 respectively.

The Accountant General (A&E) is also pleased to promote following five DAO-II officials as DAO-I Gr. 'B' Gazetted in the pay scale 7,450-225-11,500/- w.e.f. the dates shown against their name.

1. Sh. H. R. Makwana as Divisional Accounts Officer-I, w.e.f. 14.09.2006.
2. Sh. K. R. Shah as Divisional Accounts Officer-I, w.e.f. 14.09.2006.
3. Sh. J. A. Patel as Divisional Accounts Officer-I w.e.f. 02.01.2007.
4. Sh. D. D. Dangar as Divisional Accounts Officer-I, w.e.f., 02.01.2007.
5. Sh. R. C. Meena as Divisional Accounts Officer-I, w.e.f. 02.01.2007.

V. N. KOTHARI
Dy. Accountant General

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT
LABOUR BUREAU

Shimla-171004, the 28th February 2007

No. 5/1/2007-N.C.P.L.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base : 2001=100 remained stationary at 127 (one hundred & twenty seven) for the month of January, 2007.

VIRENDER SINGH
Dy. Dir.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
(SMALL SCALE INDUSTRIES)

New Delhi, the 26th February 2007

No. A-20011(10)/94-Admn. (HE).—On attaining the age of superannuation, Smt. Rekha Bakshi, Asstt. Director (EI), Headquarters Office under Small Industry Development Organisation retired from Government Service on the afternoon of 31st January, 2007.

MAHINDER SINGH
Dy. Dir. (Admn.)

MINISTRY OF MINES
GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA
Kolkata-16, the 28th February 2007

No. 448A/A-32013/4-Dir. (Drilling)(SG)/9/19B—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following

Director (Drilling), Geological Survey of India to the post of Director (Drilling) Non-Functional Selection Grade in the same department in the scale of pay of Rs. 14,300-400-18,300/- with effect from the dates mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of Officer	Date of grant of NFSG	Present place of posting
1.	Sh. Dinesh Kumar	01.01.2004	Coal Wing GSI, Kolkata
2.	Sh. P.N. Sinha	01.02.2006	Southern Region GSI, Hyderabad

- (i) Their pay in Director (Drilling), Non-Functional Selection Grade will be fixed in accordance with the rules. The officers may, however, exercise option for fixation of their pay under FR-22(I)(a)(2) with effect from the date of appointment to the post of Non-Functional Selection Grade as mentioned against each above or with effect from the date of increment in the post of Director (Drilling). The option for fixation of pay is to be exercised within one month from the date of issue of this Notification.
- (ii) Their inter-se-seniority in the grade of Director (Drilling) will not change as a result of appointment to Selection Grade.

S. K. SINGH
Regional Administrative Officer
For Dir. G

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 28th February 2007

No. 10/2/2005-M—In exercise of the powers conferred under rule 6 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains rules, 1959, I, D. R. Gehlot, Director (Monuments) hereby direct that no entry fee shall be charged at the temple of Lord Adinathji at Fort of Kanakpur on the occasion of Annual function from 1st to 3rd March 2007.

D. R. GEHLOT
Dir. (Monuments)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 22nd February 2007

Ref. PD/11(1)/2006-R-III/2007/1948—Control of Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Komalavalli, Assistant, BARCF, Kalpakkam to officiate as Assistant Personnel Officer on ad-hoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/-, with effect from 15.11.2006 (FN) to 15.12.2006 (AN).

D. DASARATHI
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 23rd February 2007

No. 20/3(6)/2006-CCS/6—The President is pleased to appoint Shri Kanhunny Bala Gangadhara Thilakan, Administrative Officer-III (Scale of pay of Rs. 10,000—15,200/-), Bhabha Atomic Research Centre, Rare Materials Project, Mysore of this Department as Chief Administrative Officer (Scale of pay of Rs. 12,000—16,500/-) in the same Project at Mysore with effect from 06.02.2007 (FN) until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

The 27th February 2007

No. 20/3(6)/2006-CCS/7—The President is pleased to appoint Shri T. N. Nair, Administrative Officer-III (Scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/-), Department of Atomic Energy, Mumbai as Chief Administrative Officer (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-), in the Raja Ramanna Centre for Advanced Technology, Indore with effect from the afternoon of 31.01.2007 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

The 5th March 2007

No. 1/6(3)/2005-Power/172—The President is pleased to appoint Shri V. K. Verma, Scientific Officer/Engineer-C of this Department who is on permanent deputation to Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL) to the grade of Scientific Officer/Engineer-D in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- in an officiating capacity w.e.f. 01.02.2006 (FN) until further orders.

2. Shri V. K. Verma relinquished charge of the lower post held by him w.e.f. 01.02.2006 (FN).

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400001, the 23rd February

No. 6 (2178)/965-Admn. 1287—In continuation of this Department's Notification of even No. 356, dated 10.3.2003, the President is pleased to extend the tenure of Shri K. Raveendran, Deputy Secretary (Scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-) in the Department for a further period from 26.2.2007 to 31.5.2007.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

The 26th February 2007

No. 6(2453)/2007-Admn./1365—Special Secretary to the Government of India, Department of Atomic Energy, hereby

appoints Shri R. Chandrasekaran, Assistant Accounts Officer (Scale of Pay of Rs. 7,450-225-11,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai as Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/-, in the Department of Atomic Energy Secretariat, Mumbai with effect from the forenoon of February 9, 2007.

P. P. MADHAVAN KUTTY
Under Secy.

Kalpakkam-603102, the 27th February 2007

Ref. GSO/17(27)/2007-R/165—In continuation of this office Notification Ref No. GSO/17(27)/2005-R/78 dated 22.1.2007, the Director, GSO extends the officiating appointment of Shri N. Subramani, Assistant Accounts Officer of General Services Organisation, Kalpakkam as Accounts Officer on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,500-250-12,000/- upto 28.02.2007 in the same unit.

T.Y. PRAHALAD RAO
Chief Administrative Officer

Ref. GSO/17(27)/2007-R/166—In continuation of this office Notification Ref No. GSO/17(27)/2005-R/79 dated 22.1.2007, the Director, GSO extends the officiating appointment of Shri R. Chakrapani, Assistant Accountant of General Services Organisation, Kalpakkam as Assistant Accounts Officer on ad hoc basis in the scale of pay of Rs. 7,450-225-11,500/- upto 28.02.2007 in the same unit.

T.Y. PRAHALAD RAO
Chief Administrative Officer

DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES & ESTATE MANAGEMENT

Mumbai-400094, the 7th February 2007

Ref. DCS&EM/1(95)/2005-Vig./1337—"Whereas it is alleged that Shri D. P. Rane, while functioning as Security Guard in the Directorate of Construction, Services & Estate Management has remained absent from duty unauthorisedly for the following periods :—

1. 17.04.2005 to 20.04.2005	04 days
2. 28.04.2005 to 10.05.2005	13 days
3. 19.05.2005 to 20.09.2005	125 days
Total	142 days

Earlier Shri Rane was imposed with penalties for the same misconduct. In the first occasion, vide Order No. DCSE/54/99-vig./510 dated 04.04.2001, the next increment of Shri Rane was withheld for 3 years without cumulative effect. In the second occasion, next increment of Shri Rane was withheld for 2 years without cumulative effect vide order No. DCS&EM/91/2001/vig./659A dated 30.11.2004.

By his aforesaid conduct, the said Shri Rane has shown lack of devotion to duty and has acted in a manner unbecoming of a Govt. Servant, thereby contravening the provisions of sub-rule 1 (ii) & (iii) of Rule 3 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964".

AND WHEREAS the said Shri Rane was informed of the charge and of the action proposed to be taken against him under Rule 14 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 vide Memorandum No. DCS&EM/1(95)/2005-Vig./980 dated 24.11.2005.

AND WHEREAS the said Shri Rane has acknowledged the Memorandum on 30.11.2005.

AND WHEREAS the said Shri Rane did not submit any written statement of defence against the Memorandum dated 24.11.2005.

AND WHEREAS an Inquiring Authority was appointed to inquire into the charges framed against Shri Rane vide Order No. DCS&EM/1(95)/2005-Vig./1066 dated 23.12.2005.

AND WHEREAS the said Shri Rane again remained absent unauthorisedly for duty from 08.01.2006 onwards and did not attend any of the preliminary or regular hearings.

AND WHEREAS the Inquiring Authority conducted the inquiry 'ex-parte'.

AND WHEREAS the Inquiring Authority, after holding the inquiry as per the procedures laid down under Rule 14 of the CCS (CCA) Rules, 1965 submitted the report dated 31.10.2006 holding the charge as proved beyond doubt.

AND WHEREAS a copy of the inquiry report was forwarded to Shri Rane vide Note No. DCS&EM/1(95)/2005-Vig/1136 dated 13.11.2006 wherein he was requested to submit his representation, if any, in the matter within a period of 15 days from the date of receipt of the said communication.

AND WHEREAS the said Shri Rane did not acknowledge the receipt of the copy of inquiry report dated 31.10.2006 and was returned undelivered by the Postal Authorities.

AND WHEREAS the undersigned considering all aspects of the case, inquiry report dated 31.10.2006 and all relevant records, hold the charges against Shri Rane as proved beyond doubt. Even though enough opportunities were given for improving to Shri Rane, considering his service, family problems and other factors, it is noticed that the said Shri Rane is not taking the action taken against his so far seriously and not realising his misconduct by remaining absent from duty continuously. It is concluded that Shri Rane is not interested to continue in Government Service and therefore it is decided that the ends of justice would be met in this case by imposing the penalty of 'Removal' from Government Service.

NOW THEREFORE, the undersigned, in exercise of the powers conferred under clause (b) of sub-rule (2) of rule 12 of the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 read with DAE Notification

No. 1/6(2)/96-Vig/791 dated 20.10.97 hereby Orders that Shri D.P. Rane be removed from Government Service with immediate effect. All the periods of unauthorised absence till removal from service in respect of Shri Rane be treated as 'dies-non'.

Shri D. P. Rane is informed that an appeal against the above order lies with the Chief Administrative Officer, Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy, Vikram Sarabhai Bhavan, 2nd Floor, Anushakti Nagar, Mumbai-400094, who is the Appellate Authority. The appeal, if any, should be submitted to the Appellate Authority within 45 days from the date of receipt of this order.

G. MURALIDHARAN
Administrative Officer-III
& Disciplinary Authority

1. Shri D. P. Rane,
C.C. No. 253/300
Security Guard,
DCS&EM

Through : Dy. CSO

2. Shri D. P. Rane,
Shreekrishna Niwas,
Tele Galii,
V. G. Pingle Marg,
Chinchpokali,
Mumbai-400012

—By Regd. Post A/D.

3. Shri D. P. Rane,
At Post : Sukalwadi,
Taluka : Malvan,
Distt. Sindhudurg,
Maharashtra.

—By Regd. Post A/D.

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400094, the 15th February 2007

Ref. HWB/R/1(16)-M/2007/225—Chief Executive Heavy Water Board appoints Smt. Vibrampuram Vijaya Upper Division Clerk, Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, Hyderabad to officiate as Assistant Accounts Officer in the scale of pay of Rs. 7,450/- 225-11,500/- in Heavy Water Plant (Manuguru) with effect from the forenoon of 16th January 2007 until further order.

N. J. SIMO
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500062, the 2nd March 2007

Ref. NFC/PAR. 11/8-2006/549—The President is pleased to appoint the undermentioned Scientific Officers/Engineers and Scientific Assistants of Nuclear Fuel Complex Hyderabad in the grades and with effect from the date

shown against each in the same unit, in an officiating capacity, until further orders.

Sl. No.	Name	Promotion From Gr. To Gr.	Date of Promotion
---------	------	------------------------------	----------------------

Scale of pay of SO/E: Rs. 12,000-375-16,500/-

(S/Shri/Smt.)			
01.	B. Bhaskar Rao	SO/D SO/E	01.08.2006
02.	C. Nageswara Rao	SO/D SO/E	01.08.2006
03.	M. Bhaskara Rao	SO/D SO/E	01.08.2006
04.	K. V. Ananthakrishna	SO/D SO/E	01.08.2006
05.	M. V. K. Sastri	SO/D SO/E	07.08.2006
06.	G. Prakash	SA/F SO/E	01.08.2006

Scale of pay of SO/D : Rs. 10,000-325-15,200/-

01.	K. Samueal Rest	SO/C SO/D	01.08.2006
02.	B. Jayaramaiah	SO/C SO/D	01.08.2006
03.	T. Lakshmi Reddy	SO/C SO/D	01.08.2006
04.	V. Vijaya Kumar	SO/C SO/D	10.08.2006
05.	Vasanth Ramamurthy	SO/C SO/D	01.08.2006
06.	P. K. Maity	SO/C SO/D	01.08.2006
07.	Tarak Debnath	SO/C SO/D	01.08.2006
08.	G. Kiran Kumar	SO/C SO/D	01.08.2006
09.	A. K. Nayak	SO/C SO/D	01.08.2006
10.	Ansar Ahmad	SO/C SO/D	01.08.2006
11.	Swarup Acharya	SO/C SO/D	01.08.2006
12.	N. K. S. Dubey	SO/C SO/D	01.08.2006
13.	V. B. Deshmukh	SO/C SO/D	01.08.2006
14.	Prakash	SO/C SO/D	01.08.2006
15.	J. V. Ramana Murthy	SO/C SO/D	01.08.2006
16.	D. Ravi	SO/C SO/D	01.08.2006
17.	K. Pathita Pavan	SO/C SO/D	01.08.2006
18.	B. V. Ramana Murthy	SO/C SO/D	02.08.2006

Scale of pay of SO/C : Rs. 8,000-275-13,500/-

01.	S. Nageswar Rao	SO/SB SO/C	01.08.2006
02.	P. Gurunadha Prasad	SO/SB SO/C	01.08.2006
03.	K. Shyam Sunder	SA/D SO/C	01.08.2006
04.	Khaja Mazharuddin	SA/D SO/C	01.08.2006
05.	G. Rajeshwer	SA/C SO/C	01.08.2006

G. KOTESWARA RAO
Admn. Officer

No. Ref. NFC/PAR. 11/8-2006/550—Chief Executive, N.F.C., appoints the undermentioned Scientific Assistants grade 'C' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad in the grade of Scientific Officer/Engineer 'SB' (Scale of pay—Rs. 7,450-225-11,500/-) with effect from 01.08.2006 in the same unit, in an officiating capacity, until further orders.

Sl. Name
No.

(S/Shri/Smt.)	
01.	B. Vijaya Lakshmi
02.	P. S. Madhavi
03.	T. Shoba
04.	D. Hemasunder
05.	N. Lakshmi Satyamurthy
06.	T. S. V. R. Nageswara Rao
07.	A. Ramakrishna
08.	K. Ramesh Babu

G. KOTESWARA RAO
Admn. Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION & RESEARCH

Hyderabad-500016, the 28th February 2007

No. AMD-1/9/2004-Rectt. (Vol. III)/1821—The President is pleased to appoint the under mentioned individual as Scientific Officer-C (Geology) in the Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Department of Atomic Energy, in a temporary capacity in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the date mentioned below until further orders :

Sl. No.	Name	Date of Assumption of charge
01.	Sh. R. Sivasubramaniam	01.02.2007 (FN)

(Dr.) ANJAN CHAKI
Dir.

MINISTRY OF WATER RESOURCES CENTRAL GROUND WATER BOARD

Faridabad, the 16th February 2007

No. 3-1587/2007-Sci-Estt.-723—On the recommendations of the DPC (Group-B Gazetted), the following, Head surveyors have been promoted to the post of Officer Surveyor (Group-B, Gazetted) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- per month plus usual allowances applicable

thereon in the temporary capacity from the date shown as under :

Sl. No.	Name of Officer	Place of Posing	Date of Joining
1.	Sh. S. K. Saini	CGWB, NWHR, Jammu	15.11.2006 (FN)
2.	Sh. A. K. Ghosh	CGWB, ER, Kolkata	17.01.2007 (FN)

They will be on probation for a period of two years from the date of their joining which can be extended by the competent authority at his discretion.

S. K. SINHA
Dir. (Admn.)

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s M.R.K. Milk Products Limited

Kanpur-208001, the 27th February 2007

No. 560 (5)/SES-05/19135/3397— Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. M.R.K. Milk Products Limited has this day been struck off from the Register of Registrar of companies and are dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s A.S.M. Sales Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 27th February 2007

No. LC/560 (3)/20-25735/3399— Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. A.S.M. Sales Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s V. K. Bearing Industries Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 1st March 2007

No. LC/560 (3)/20-16033/3430— Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. V. K. Bearing Industries Pvt.

Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
M/s Sunshine Footwear Pvt. Ltd.

Kanpur-208001, the 1st March 2007

No. LC/560 (3)/20-12154/3433— Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sunshine Footwear Pvt. Ltd. unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

K. L. KAMBOJ
Registrar of Companies
UP & Uttaranchal

In the matter of Companies Act 1956 and of
following companies :

Jalandhar City-144001, the 2007

Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following Companies has this day been struck off from the Register of Registrar of Companies and are dissolved :

Sl. No.	Company No.	Name of the Company
1.	22267	M/s. Kairon Car Finance Private Limited
2.	13989	M/s. Lotus Financial Services Private Limited.
3.	16100	M/s. Bains Financial Services Private Limited.
4.	3035	M/s. Dhillon financiers Private Limited
5.	15734	M/s. Gold Star Fincap Private Limited
6.	15820	M/s. Sharan Fincaps Private Limited.
7.	14578	M/s. A. R. Financial Consultants Private Limited.
8.	12186	M/s. Thappar Financial Trust Limited
9.	13660	M/s. Vamda Financial & Investment Company Limited.
10.	8432	M/s. Dabb Hire Purchase Private Limited
11.	21113	M/s. Sat Pralhad Finvest Company Private Limited.
12.	9539	M/s. Unique Hire Purchase Private Limited.
13.	3006	M/s. Gurbex Finance Private Limited

S. No.	Company No.	Name of the Company
14.	18049	M/s. Veerjee Finance & Leasing Limited.
15.	18370	M/s. J. J. Fincap Private Limited.
16.	15337	M/s. Behlson Land & Finance Private Limited.
17.	3976	M/s. Syal Brothers Hire Purchase Private Limited.
18.	14560	M/s. Mata Gujri Finance Private Limited.
19.	7147	M/s. Dhandevta Finance & Investment Limited.
20.	17964	M/s. S.D.S. Financial Services Limited.
21.	5700	M/s. Rampa Finance Limited.
22.	10907	M/s. Sarpriya Deposits India Limited.
23.	15289	M/s. Drishiti Capital Services Private Limited.
24.	9750	M/s. Nakodar Leasing & Investment Private Limited.
25.	17889	M/s. Dee Kay Fincap Limited.
26.	16989	M/s. E. K. Onkar Finance Private Limited.
27.	17997	M/s. I. P. S. A. Leasing & Marketing Services Limited.
28.	14757	M/s. Blue Chip fiscal Services Private Limited.
29.	3984	M/s. Snow View Finance Company Private Limited.
30.	2991	M/s. Kishore Finance & Chit Fund Company Private Limited.
31.	9422	M/s. Sequoia Leasing Company Limited.
32.	8516	M/s. Sukhmani Hire Purchase Private Limited.
33.	11969	M/s. Sangrur Finance & Leasing Private Limited.
34.	18902	M/s. V.R.S. Finance Private Limited.
35.	8689	M/s. Sumit Financiers Private Limited.
36.	20301	M/s. A. J. Fincap Private Limited.
37.	2788	M/s. Mukti Chit Fund & Finance Private Limited.
38.	20302	M/s. Bright Finlease Private Limited.
39.	9489	M/s. E. K. Jot Leasing Private Limited.
40.	11361	M/s. Sarbjot Leasing Private Limited.
41.	22313	M/s. Royal Finman (India) Private Limited.
42.	12962	M/s. Siddharth Bahl Investments Finance Private Limited.
43.	19439	M/s. Manohar Financial & Investment Services Private Limited.
44.	11291	M/s. Duke Industrial Finance Private Limited.
45.	13277	M/s. Mukanda Financial Services Private Limited.
46.	13900	M/s. H.S.N. Finance Private Limited.
47.	10567	M/s. A.K.T. Leasing Limited.
48.	16132	M/s. Cube Leasing & Finance Private Limited.
49.	9096	M/s. Bimal General Financiers Limited.
50.	15253	M/s. Lamardar Hire Purchase Private Limited.
51.	5549	M/s. Manu Trading & Finance Company Private Limited.
52.	9799	M/s. Golden Temple Finance Private Limited.
53.	16491	M/s. K.A.J. Investments & Finance Private Limited.
54.	21929	M/s. Shiv Jyoti Finvest Private Limited.
55.	13899	M/s. King Fisher Investments Limited.
56.	14053	M/s. Team Up Investments Limited.
57.	22008	M/s. Golden Mines Multilink Financial & Trading Co. Private Limited.
58.	14034	M/s. Nagra Hire Purchase Private Limited.
59.	17683	M/s. Harman Leasing & Advances Private Limited.
60.	17468	M/s. A. D. Financiers Private Limited.
61.	12462	M/s. Amrinder Finance & Leasing Private Limited.
62.	8984	M/s. Preet Hire Purchase Private Limited.
63.	16793	M/s. Swami Finance Private Limited.
64.	9952	M/s. Nikita Hire Purchase Private Limited.
65.	11532	M/s. S.M.D. Fincap Private Limited.
66.	10046	M/s. New Look Finvest Private Limited.
67.	10699	M/s. Sidhant Deposits & Advances Private Limited.

In the matter of Companies Act, 1956 and Under Section 560 and the following Companies :

Jalandhar-144001, the 2007

No. SES-2005/560—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following Companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company shall be dissolved :

S. No.	CIN	CMPNY NAME
1	U51909PB1934PTC000126	POWERS PVT LTD.
2	U24291CH1935PLC000161	NORTHERN INDIA MATCHES LTD.
3	U28939PB1936PTC000175	UPPER INDIA METALS WORKS LTD
4	U24229PB1939PTC000292	LAXMI ROSIN AND TARPENTINE MFG CO PVT LTD
5	U36939PB1939PTC000322	RATTAN SPORTS PVT LTD
6	U51909PB1941PTC000414	FORWARD TRADING CO PVT LTD
7	U99999PB1943PLC000545	NORTH LAND RUBBER MILLS LTD
8	U26101PB1945PLC000871	HIMALAYA POTTERIES LTD
9	U51909PB1947PTC001275	MANGAT RAM HAZARIMAL AND CO PVT LTD
10	U60210PB1949PTC001442	NEW JHANG TRANSPORT CO PVT LTD
11	U99999HP1949PTC001466	DHINGL LABORATORIES PVT LTD
12	U99999HP1956PTC001915	SAHIB SINGH TRADERS PVT LTD
13	U60210PB1951PTC002106	SANGRUR BUS SERVICE PVT LTD
14	U60210PB1951PLC002110	PAKHO BUS AND TRANSPORT SERVICE LTD
15	U60221PB1953PTC002137	NEW HITHAR BUS SERVICE PVT LTD
16	U40210PB1954PTC002150	CALCUTTA BUS SERVICE PVT LTD
17	U45201PB1957PTC002204	PARMARA CONSTRUCTIONS PVT LTD
18	U22219PB1958PTC002243	BHARAT CALICO PRINTING MILLS PVT LTD
19	U17117PB1959PTC002265	PUNJAB WOOLLENS PVT LTD
20	U45212PB1959PTC002282	AUTO PARTS PVT LTD
21	U18101PB1959PTC002288	KNIT SILVICULTURE PVT LTD
22	U29191PB1960PTC002304	AERO-REFRIGERATION PVT LTD
23	U60221PB1960PTC002327	PARSHOTTAMLAL AND CO PVT LTD
24	U60231PB1960PTC002353	SANDHOO ROADWAYS PVT LTD
25	U29219PB1960PTC002388	ROYAL ENGINEERING WORKS PVT LTD
26	U27106PB1961PTC002398	EASTERN DAWN CORPN PVT LTD
27	U29199PB1961PTC002401	ASEA WORKS PVT LTD
28	U29199PB1962PTC002438	JHOJHWAL SPARE PARTS INDUSTRIES PVT LTD
29	U17119PB1963PTC002496	HANDLOOM AND HANDICRAFTS TRADING CO PVT LTD
30	U31909PB1964PTC002528	FLOW METERS AND ENGINEERING APPLIANCES PVT LTD
31	U51101CH1964PTC002542	BEENUE TRADERS IMPORT AND EXPORT PVT LTD
32	U26919CH1966PTC002620	BAKSHI DAS RAJ BHASIN AND SONS PVT LTD
33	U21199PB1966PTC002649	GOBIND RAM AND SONS LUDHIANA PVT LTD
34	U27106PB1966PTC002668	POLYCHEM AND STEEL INDUSTRIES PVT LTD
35	U60231PB1967PTC002706	NAWANSHAHR GOODS TRANSPORT PVT LTD
36	U29211PB1967PTC002717	MANSA AGRICULTURAL AND MARKETING CO PVT LTD
37	U25199PB1967PTC002718	WESTERN TYRE AND RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
38	U45202PB1967PTC002741	PUNJAB SMALL SCALES SOAP MANUFACTURERS FEDERATION LTD
39	U25199PB1968PTC002758	RANBIR TYRES AND RUBBER CO PVT LTD
40	U60210PB1968PTC002776	PATIALA BUS AND GENERAL PROPERTIES PVT LTD
41	U92111PB1968PTC002785	VIKAS PICTURES PVT LTD

42	U15111PB1968PTC003793	NEPTUNE TYRES PVT LTD
43	U27104HP1969PLC002810	STEE MEN LTD
44	U26914CH1969PLC002832	ASHOK TILES AND ALLIED INDUSTRIES LTD
45	U45201PB1969PTC002835	FAIRDEAL COLONISERS AND BUILDERS PVT LTD
46	U19201PB1969PLC002842	PUNJAB FOOTWEARS LTD
47	U45201PB1969PTC002846	MALICK HOUSE BUILDERS PVT LTD
48	U51509CH1969PTC002896	EAGLE MANUFACTURERS AND EXPORTERS PVT LTD
49	U51509PB1970PTC002912	TARA EXPORT ENTERPRISES PVT LTD
50	U51909PB1970PTC002917	FRIENDS AUTO AGENCIES PVT LTD
51	U22012PB1970PTC002928	DASHMESH PAPER BOARD MILLS PVT LTD
52	U45202HP1961PTC002936	PUNJAB HIMACHAL PRADESH AND KASHMIR PIPE DEALERS PVT LTD
53	U60210PB1970PTC002948	NIRANKAR TRANSPORT CO PVT LTD
54	U27104PB1970PTC002956	ACEEBEEN STEEL PVT LTD
55	U60231PB1970PTC002959	RANDHAVA GOODS CARRIERS PVT LTD
56	U63040PB1970PTC002971	SUPER NATIONAL TRAVELS PVT LTD
57	U52321CH1970PTC002974	TEXTILE EMPORIUM PVT LTD
58	U92200CH1971PTC002997	PUNJAB NEWS AGENCY CO PVT LTD
59	U45202CH1971PTC003022	CEMANT FABRICS INDIA PVT LTD
60	U29219PB1971PTC003025	ZIMINDARA EQUIPMENTS PVT LTD
61	U15549PB1971PTC003029	SPARKLE BEVERAGES PVT LTD
62	U32209PB1971PTC003032	CHANDIGARH RADIO AND ELECTRONICS PVT LTD
63	U29199HP1971PTC003040	VISHAL HIMACHAL MOHAN UDYOG PVT LTD
64	U60210HP1971PTC003060	HIM VALLEY TRANSPORT CO PVT LTD
65	U25209PB1971PTC003068	FRIENDS PLASTICS PVT LTD
66	U15312PB1971PTC003074	JALLEWALIA RICE MILLS PVT LTD
67	U60210PB1971PTC003083	PRITAM SINGH KAKA BUS SERVICE PVT LTD
68	U29211PB1972PTC003093	SULZUR ENGINEERING WORKS PVT LTD
69	U51909PB1972PTC003148	AERO INTERNATIONAL EXPORTS PVT LTD
70	U60210PB1972PTC003151	WEST END DELUXE TRANSPORT CO PRIVATE LTD
71	U17117HP1972PTC003161	HIMACHAL WOODEN FACTORY PVT LTD
72	U60210PB1972PTC003173	GOLDEN TRANSPORT CO PVT LTD
73	U60210PB1972PTC003180	TALWARA ROADWAYS PVT LTD
74	U60210PB1972PTC003197	PHILLOR BUS AND TRANSPORT CO PVT LTD
75	U45202CH1972PTC003198	R N V S BROTHERS PVT LTD
76	U60304PB1972PTC003211	VALLEY TOURIST ROADWAYS PVT LTD
77	U32109PB1973PTC003215	AARKKO ELECTRONICS PVT LTD
78	U60210PB1973PTC003222	SHER GILL BUS SERVICE PVT LTD
79	U45201PB1973PTC003225	S I BRICKS AND BUILDERS PVT LTD
80	U70101PB1973PTC003253	REKHA LANDS PVT LTD
81	U92120HP1973PTC003260	BEAS THEATRE PVT LTD
82	U24222HP1973PTC003261	HIMACHAL PAINTS PVT LTD
83	U24232PB1973PTC003266	SUDHA PHARMACEUTICAL PVT LTD

84	U92114CH1973PTC003269	MALWA MOVIES PVT LTD
85	U51103PB1973PTC003270	RONSON EXPORT HOUSE PVT LTD
86	U60210PB1973PTC003273	UNIQUE BUS SERVICE PVT LTD
87	U17116HP1973PTC003278	B COLUMBIA TEXTILE MFG CO PVT LTD
88	U17223PB1973PTC003293	RATTAN CHAND AND SONS PVT LTD
89	U45201CH1973PTC003323	ACCOUMEASURES PUNJAB LTD
90	U31909PB1973PTC003340	PARMAR ELECTRONICS PVT LTD
91	U31102HP1973PTC003344	JAINA TRANSFORMERS PVT LTD
92	U99999PB1973PTC003348	CARBURATION AND GENERAL INDUSTRIES PVT LTD
93	U99999PB1973PTC003349	SUDESH AGRICULTURAL FARM PVT LTD
94	U25209CH1973PTC003364	NEW ERA PLASTEEL PVT LTD
95	U21041HP1973PTC003368	OEL PAPER AND PULP UDYOG PVT LTD
96	U36102PB1973PTC003369	IKA FURNITURE PVT LTD
97	U15143PB1973PTC003374	KHARAR SOLVENT PVT LTD
98	U70200PB1973PTC003380	ARTI LANDS PVT LTD
99	U51909PB1973PTC003381	GEETA EXPERTS PVT LTD
100	U60210PB1973PTC003382	BARNALA ROADWAYS PVT LTD
101	U45202PB1974PTC003393	KALA DARPAN STUDIOS PVT LTD
102	U31909PB1974PTC003395	KHALSA ELECTRICALS PVT LTD
103	U27106PB1974PTC003403	STERLING STEELS AND WIRES LTD
104	U27310PB1974PTC003405	AJAY FOUNDRY AND FORGE PVT LTD
105	U28910CH1974PTC003408	UNION SPUN PIPES AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
106	U51909PB1974PTC003410	WHITEHAWKS IMPEX PVT LTD
107	U50500PB1974PTC003430	ADVANCE OILS PVT LTD
108	U24121PB1974PTC003431	LALIT AGRO CHEMICALS PVT LTD
109	U51909PB1974PTC003433	RAJENDRA EXPORTS PVT LTD
110	U50404PB1974PTC003434	K MACHENICS PVT LTD
111	U51909CH1974PTC003444	PLEASANT ENTERPRISES (INDIA) PVT LTD
112	U60210PB1974PTC003446	NAVJEEWAN BUS SERVICE PVT LTD
113	U27310PB1974PLC003448	GEE GEE CASTINGS LTD
114	U60210PB1974PTC003451	GURU NANAK BUS SERVICE PVT LTD
115	U52334PB1974PTC003456	LARK TELEVISION PVT LTD
116	U29222PB1974PLC003458	SUTLEJ TOOLS LTD
117	U24231PB1974PTC003462	PARKASH SILICATE INDUSTRIES PVT LTD
118	U24111PB1974PTC003467	SWARN OXYGEN PVT LTD
119	U20213HP1974PTC003473	NAVKETAN BOARDS PVT LTD
120	U29212CH1974PTC003475	KISSAN ENTERPRISES KHANNA PVT LTD
121	U29219PB1974PTC003480	DIXON ENGINEERING CO PVT LTD
122	U24231CH1974PTC003482	CONSUMER CARE PVT LTD
123	U60231PB1974PTC003483	SOHAL TRANSPORT CO PVT LTD
124	U51909PB1974PTC003487	GUARDIAN EXPORTS PVT LTD
125	U22190CH1974PTC003488	CHANDIGARH PUBLISHERS PVT LTD

126	U15520PB1974PTC003489	SARDHA BREWERIES AND DISTILLERIES PVT LTD
127	U74140CH1974PTC003500	STANDARD INDUSTRIAL AND PERSONAL CONSULTANTS PVT LTD
128	U45202CH1974PTC003508	SHIVALAK YARK INDUSTRIES PVT LTD
129	U17111PB1975PTC003533	KHANNA KNITTERS PVT LTD
130	U63011HP1975PTC003535	HIMACHAL SEALS AND CONTAINERS PVT LTD
131	U24119CH1975PTC003541	GARHI CHEMICALS PVT LTD
132	U28932PB1977PTC003757	CHAND RAMAN TOOLS PVT LTD
133	U45202PB1977PTC003759	AMRITSAR CONSTRUCTION CO PVT LTD
134	U51909CH1977PTC003760	STANDARD IMPEX PVT LTD
135	U02001CH1977PLC003768	PUNJAB TIMERS LIMITED
136	U15544CH1977PTC003779	CHEEMA ICE FACTORY PVT LTD
137	U60100CH1977PTC003780	SWIFT AIR TRAVELS PVT LTD
138	U60210PB1978PTC003848	DAKHA BUS SERVICE PVT LTD
139	U24119PB1978PTC003871	MAHA DEV CHEMICAL INDUSTRIES PRIVATE LTD
140	U45202PB1978PTC003872	ROMA ARTS PVT LTD
141	U55101PB1978PTC003875	FLATTIES HOTELS PVT LTD
142	U60221PB1978PTC003901	MULLANPUR BUS SERVICE PVT LTD
143	U51396PB1979PTC003909	KAILASHPATI TRADERS PVT LTD
144	U31300PB1979PTC003911	PLAHA ENGINEERS PVT LTD
145	U15143PB1979PTC003914	FRIENDS EXTRACTIONS PVT LTD
146	U17212PB1979PTC003917	WAZIR HOSIERY MILLS PVT LTD
147	U24231PB1979PTC003919	STANNON LABORATOIRES PVT LTD
148	U15143CH1979PTC004030	MALWA SOLVEX PVT LTD
149	U17115PB1979PTC004041	ANAMICA COTTON PRODUCTS PVT LTD
150	U60231PB1979PTC004042	LIDDER TRANSPORT CO PVT LTD
151	U60231PB1979PTC004043	BABBAR DOABA HIGHWAYS TRANSPORT PVT LTD
152	U21012PB1979PTC004054	SWASTIKA PAPER MILLS PVT LTD
153	U92490PB1979PTC004060	SANDHU THEATRES PVT LTD
154	U60221PB1979PTC004061	SHAN-E-PUNJAB BUS SERVICE PVT LTD
155	U60221PB1979PTC004062	GILL TRANSPORT CO PVT LTD
156	U15311PB1979PTC004091	BALWANT FLOUR MILLS PVT LTD
157	U60231PB1979PLC004098	BLUE STAR TRANSPORT CO LTD
158	U25199HP1979PTC004105	PAONTA RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
159	U74210CH1979PTC004108	ENGIGEERS CONSTRUCTIONS CO PVT LTD
160	U28910PB1980PTC004116	ANCHOR CASTINGS AND FORGINGS PVT LTD
161	U15141PB1980PTC004129	ARORA VANASPATI PVT LTD
162	U29196CH1980PTC004130	WEIGH-WELL SCALES PVT LTD
163	U63011PB1980PTC004143	NAVDEEP ROAD LINES PVT LTD
164	U21012PB1980PTC004150	T K PAPER MILLS PVT LTD
165	U27109CH1980PTC004167	DECOR STEEL PVT LTD
166	U36939PB1980PTC004168	FAR EAST SPORTING GOODS PVT LTD
167	U21012CH1980PTC004169	SARTAJ PAPERS PVT LTD

168	U51909PB1980PTC004171	TWENTIETH CENTURY EXPO PVT LTD
169	U24232PB1980PTC004175	DORIS LABORATORIES PVT LTD
170	U24241PB1980PTC004178	MULTANI SOAP PVT LTD
171	U32301PB1980PTC004180	DIPLOMATE PVT LTD
172	U35923PB1980PTC004181	KAREN FORGINGS PVT LTD
173	U60231PB1980PTC004186	DASHMESH ROADLINES PVT LTD
174	U21012PB1980PTC004197	FARID PAPER MILLS PRIVATE LIMITED
175	U21012PB1980PLC004201	MOUNT SHIVALIK PULP AND PAPER INDUSTRIES LTD
176	U60221PB1980PTC004202	ROMANA ROADWAYS PVT LTD
177	U24232PB1980PTC004203	S G H SIGMA PVT LTD
178	U21012PB1980PTC004205	KHARATILAL DUA AND SONS PVT LTD
179	U28910PB1980PTC004207	SHIWALIK FORGINGS PVT LTD
180	U60231PB1980PTC004208	SABQA FAUJI TRANSPORT CO PVT LTD
181	U29191CH1980PTC004211	MACLYEA TECHNOCRATES PVT LTD
182	U29203PB1980PTC004212	SELECTION APPLIANCES PVT LTD
183	U15143PB1980PTC004214	SARASWATI OILS PVT LTD
184	U60221PB1980PTC004215	GREWAL BUS SERVICE PVT LTD
185	U21012CH1980PTC004220	NAVNEET PAPER PVT LTD
186	U29265PB1980PTC004221	DINAR ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
187	U21029CH1980PTC004230	TEE KAY WRAPPERS PVT LTD
188	U52322CH1980PTC004234	R K EXPORTS PVT LTD
189	U24246PB1980PTC004236	MYLOVE COSMETICS AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
190	U52322CH1980PTC004243	DAGMAR EXPORTS AND IMPORTS PVT LTD
191	U60221CH1980PTC004245	SARVATRA TRANSPORTERS PVT LTD
192	U25209HP1980PTC004246	UNDERHILL URE-CORDS PVT LTD
193	U29253PB1980PTC004248	PARVEEN CASTINGS PVT LTD
194	U24232PB1980PTC004254	NORI COSMOPHARMA PVT LTD
195	U24222HP1980PTC004255	S A CHEMICAL AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
196	U45202PB1980PTC004259	LAXMI FORGINGS PVT LTD
197	U34300PB1980PTC004261	BAWA MOTOR SPRINGS PVT LTD
198	U25199PB1980PTC004264	GLOBAL RECLAIMS AND ALLIED IND PVT LTD
199	U27106PB1980PTC004266	N S STEEL PVT LTD
200	U21012CH1980PTC004270	SHELL PAPER PVT LTD
201	U21520CH1980PTC004273	KEMO PLASTS PVT LTD
202	U31909CH1980PTC004277	BERDO-MATICS PVT LTD
203	U34300PB1980PTC004281	BAKSHI AUTOS PVT LD
204	U20299PB1980PTC004286	WOOD WORLD PVT LTD
205	U15311CH1980PTC004288	SURVIR ENTERPRISES PVT LTD
206	U27203PB1980PLC004297	SWASTIK ALUMINIUM PRODUCTS LTD
207	U74995CH1980PTC004298	AHUJA LIAISON SERVICES PVT LTD
208	U31102PB1980PTC004300	ALPINE ELECTRONIC INDUSTRIES PVT LTD
209	U28939PB1980PTC004305	PREMIER FORGINGS AND HAND TOOLS PVT LTD

210	U23201PB1980PTC004306	SHELLIK INDIA PVT LTD
211	U60221PB1980PTC004310	AJNALA BUS SERVICE PVT LTD
212	U15143CH1980PTC004317	BASSI SOLVEX PVT LTD
213	U17117PB1980PTC004328	DELUXE WOOLLENS PVT LTD
214	U21012PB1980PLC004330	AMAR INDIA PAPER MANUFACTURING CO LTD
215	U15201PB1980PTC004332	KAPFAM FOODS PVT LTD
216	U74210CH1980PTC004334	DIWAN SINGH ENGINEERS PVT LTD
217	U27203HP1980PTC004337	TRIVENI ALUMINIUM RE ROLLERS PVT LTD
218	U70101PB1980PTC004338	SUNDER NIRMAN PROPERTY DEALERS PVT LTD
219	U60210PB1980PTC004349	TARANTARAN BUS SERVICE PVT LTD
220	U60210PB1980PTC004350	UNITED BROTHERS TRANSPORT CO PVT LTD
221	U74140CH1980PTC004351	TURNKEY PROJECTS AND MANagements CONSULTANTS PVT LTD
222	U25199PB1980PTC004352	VARUN PVT LTD
223	U25209CH1980PTC004356	AARTI POLYMERS PVT LTD
224	U60221PB1980PTC004358	SUNDER NIRMAN KALGIDHAR SINGH TRANSPORT PVT LTD
225	U36939PB1980PTC004360	HIMCO RUBBERS PVT LTD
226	U28939PB1980PTC004364	HANSONS(INDIA) PVT LTD
227	U72200CH1980PTC004366	DATA CAMP INDIA PVT LTD
228	U21012PB1980PTC004367	SUPER PAPER MILLS PVT LTD
229	U18101PB1981PTC004371	SONA KNITTERS PVT LTD
230	U51909PB1981PTC004374	A B INDUSTRIAL REQUIREMENTS PVT LTD
231	U74210CH1981PTC004375	PLAN-WELL CONSULTANTS PVT LTD
232	U21012HP1981PTC004377	KANWAR PAPERS PVT LTD
233	U21029PB1981PTC004378	ARVIND CONTAINERS PVT LTD
234	U21012PB1981PTC004385	FATEH PAPER MILLS PVT LTD
235	U27310PB1981PTC004386	KGB CASTINGS PVT LTD
236	U24235PB1981PTC004390	HIM VETS PVT LTD
237	U27106PB1981PTC004391	SUMAN STEEL AND ALLOYS PVT LTD
238	U27106PB1981PTC004392	AGGARWAL MULTI STEELS PVT LTD
239	U60221PB1981PTC004394	KHARA BUS SERVICE PVT LTD
240	U60231PB1981PTC004397	APOLLO TRANSPORT CO PVT LTD
241	U60221PB1981PTC004398	VIRK BUS SERVICE PVT LTD
242	U60221PB1981PTC004399	ROUNTA BUS SERVICE PVT LTD
243	U17117PB1981PTC004404	AARTEX WOOLLENS PVT LTD
244	U45202CH1981PLC004407	GAUTAM PAPER MILLS LTD
245	U74210CH1981PTC004408	CINE EYES PVT LTD
246	U27106CH1981PTC004409	NEW EMPIRE STEELS PVT LTD
247	U27106CH1981PTC004410	VIKAS ISPAT PVT LTD
248	U60221pb1981ptc004412	BULLET ROADWAYS PVT LTD
249	U60221PB1981PTC004415	KHOSA TRANSPORT CO PVT LTD
250	U25199PB1981PTC004426	MALERKOTLA RUBBER PVT LTD
251	U45201CH1981PTC004431	CONSORT CONSTRUCTIONS PVT LTD

252	U27310PB1981PTC004433	HYPRES CASTINGS AND ALLOYS PVT LTD
253	U29293PB1981PTC004438	IDEAL PAPER AND INDUSTRIAL MACHINES PVT LTD
254	U21012PB1981PTC004442	SHANTI PAPER MILLS PVT LTD
255	U18101PB1981PTC004443	NAV BHARAT KNITWEARS PVT LTD
256	U24232CH1981PTC004450	MADICAPS PVT LTD
257	U15412HP1981PTC004451	ROYAL BISCUITS PVT LTD
258	U18101PB1981PTC004453	JAIN TEXTILES PVT LTD
259	U24232CH1981PTC004454	RATIONAL PHARMACEUTICALS PVT LTD
260	U31909CH1981PTC004456	CHAWLA ELECTRIC CO PVT LTD
261	U52190PB1981PLC004457	AJANTA DAILY NEEDS PROVISION STORES LTD
262	U27105pb1981ptc004462	SAAKSHI ENGINEERS PVT LTD
263	U21012hp1981ptc004463	ARADHNA PAPER PVT LTD
264	U51909CH1981PTC004464	HINDUSTANI MASALA TRADERS PVT LTD
265	U60221PB1981PTC004465	MATWANI TRANSPORT CO PVT LTD
266	U27105PB1981PTC004477	CAST MASTER (INDIA) PVT LTD
267	U27106CH1981PTC004481	DATA CHANNELS PVT LTD
268	U51909CH1981PTC004487	VYPAR MITRA PVT LTD
269	U31300PB1981PTC004503	GENERAL ELECTRIC CABLES PVT LTD
270	U27106CH1981PTC004509	J D ALLOY STEEL PVT LTD
271	U21012CH1981PTC004512	DURGAJEE PAPERS PVT LTD
272	U27106PB1981PTC004516	UNITY ENGINEERS PVT LTD
273	U23203HP1981PTC004519	KUMAR CYLINDERS PVT LTD
274	U27106CH1981PTC004525	KALIMA ENTERPRISES PVT LTD
275	U45201ch1981ptc004527	RELIANCE BUILDERS PVT LTD
276	U31506CH1981PTC004528	SUNGLow LAMPS PVT LTD
277	U63040PB1981PTC004529	CHEEMA TOUR AND TRAVEL PVT LTD
278	U64203CH1981PTC004533	INTERCOM SERVICES PVT LTD
279	U21098CH1981PTC004534	NAYARSONS PRINTERS PVT LTD
280	U21012HP1981PTC004537	NAV DURGA PAPER BOARD MILLS PVT LTD
281	U19129HP1981PTC004539	HIMACHAL LEATHER BOARDS PVT LTD
282	U19129HP1981PTC004540	HIMACHAL LEATHER FABRICATORS PVT LTD
283	U21012CH1981PTC004543	DINESH PAPERS PVT LTD
284	U27310PB1981PTC004551	GANESH CASTINGS AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
285	U63090PB1981PTC004558	CHOUDHURY MOTOR AGENCY PVT LTD
286	U45202CH1981PLC004560	HIMACHAL ALLOY STEELS LTD
287	U21012PB1981PTC004562	RAVI PAPER AND BOARD MILLS PVT LTD
288	U27310PB1981PTC004563	JYOTI ISPAT AMRITSAR PVT LTD
289	U27106PB1981PTC004566	RACMMANN ENGINEERS PVT LTD
290	U24299CH1981PTC004567	WOVEPACK INTERNATIONAL PVT LTD
291	U51909CH1981PTC004568	SEVA AGENCIES PVT LTD
292	U33301CH1981PTC004572	RAJAN WATCH CO PVT LTD
293	U74999PB1981PTC004574	INDUSTRIAL WATCH AND WARD PVT LTD

294	U32301HP1981PTC004577	URIK URVASHI ELECTRONIC PVT LTD
295	U74999CH1981PTC004580	SHARMA VIVEK CONSULTANTS PVT LTD
296	U21012HP1981PTC004583	KORA KAGAZ PVT LTD
297	U55101PB1981PTC004587	M P HOTELS PVT LTD
298	U21012HP1981PLC004590	MEHATPUR PAPER MILLS LTD
299	U21029CH1981PTC004595	DURA PACK PVT LTD
300	U60221PB1981PTC004599	SALWAN BUS SERVICE PVT LTD
301	U27106CH1981PTC004600	ANUDEEP ENGINEERS PVT LTD
302	U27106CH1981PTC004603	SWISSCO ENGINEERS PVT LTD
303	U74999CH1981PTC004605	APROTECH CONSULTANTS PVT LTD
304	U24232PB1981PTC004607	ELISHA PHARMACEUTICALS PVT LTD
305	U15520PB1981PTC004610	PAHWA WINES PVT LTD
306	U25209HP1981PTC004613	HIMGIRI POLYBONDS PVT LTD
307	U15143PB1981PTC004623	PUJA PROCESSORS PVT LTD
308	U21021CH1981PTC004627	FEROZE PAPERS PVT LTD
309	U22121PB1981PTC004632	OFFSET PVT LTD
310	U32109PB1981PTC004633	GEMINI ELECTRONICS PVT LTD
311	U17115PB1981PLC004635	GROWFAST FIBRES LIMITED
312	U51909PB1981PTC004636	ADDI IMPEX PVT LTD
313	U92490PB1981PTC004642	ROOPANAGAR ASSOCIATES PVT LTD
314	U45202PB1981PTC004643	RAJA VICKY PVT LTD
315	U17117CH1981PTC004646	AMRITSAR WOOLLEN SPINNING MILLS LTD
316	U74210CH1981PTC004648	SUKRIT PVT LTD
317	U45202PB1981PLC004649	CUREIDS PRIVAET LIMITED
318	U27309CH1981PTC004652	ORIENTAL DEVICES PVT LTD
319	U21015PB1981PTC004653	FARIDKOT STRAW BOARD PVT LTD
320	U27106PB1981PTC004659	ESS ESS STEEL AND ALLOYS PVT LTD
321	U17115PB1981PTC004662	SAFFRON FIRES PVT LTD
322	U21012PB1981PTC004664	UNITED MOULDINGS PVT LTD
323	U31200PB1981PTC004665	SAREEN SWITCHGEARS PVT LTD
324	U27106PB1981PTC004670	PUNJAB ELECTRODES AND METALS PVT LTD
325	U24232PB1981PTC004673	HIMGIRI PHARMACEUTICALS PVT LTD
326	U28939PB1981PTC004679	GENERAL HARDWARE PVT LTD
327	U92490PB1981PTC004682	SIMERAN ENTERPRISES PVT LTD
328	U21021CH1981PTC004685	DANGRA PAPERS PVT LTD
329	U24232CH1981PTC004686	NUTAN PHARMACEUTICALS PVT LTD
330	U21012HP1981PTC004687	LILY PAPER AND PAPER BOARD PVT LTD
331	U99999PB1981PTC004688	AQUADUTT INDUSTRIES PVT LTD
332	U99999CH1981PTC004689	UNISCAN AND SOONICS LIMITED
333	U34300PB1981PLC004691	DATA AUTOMATION LTD
334	U24232PB1981PTC004692	RITA PHARMANEEES PVT LTD
335	U51909PB1981PTC004695	BHATINDA TRADING CO PVT LTD

336	U31909PB1981PTC004703	SAWAN ELECTRICALS PVT LTD
337	U25199CH1981PTC004721	CHANDIGARH RUBBER WORKS PVT LTD
338	U45201PB1981PTC004722	PADMA CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
339	U60221PB1981PTC004723	RAKSHA ROAD TRANSPORT PVT LTD
340	U15412PB1981PTC004735	STANDARD BISCUIT PVT LTD
341	U24299PB1981PTC004737	JALAL CHEMICALS AND POLYMERS PVT LTD
342	U27106CH1981PTC004738	HEMA STEELS PVT LTD
343	U45202CH1981PTC004739	SANDHU PLANNERS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
344	U45202PB1991PTC004741	SOLAN STREET PVT LTD
345	U74999PB1981PTC004757	SUNRISE TRADE MARK CONSULTANTS PVT LTD
346	U27203PB1981PTC004758	AGGARWAL ALUM INDUSTRIES PVT LTD
347	U32109PB1981PTC004760	GIDA ELECTRONICS PVT LTD
348	U21012CH1981PTC004761	SHAHABAD PAPERS PVT LTD
349	U17222HP1981PTC004763	INDO INTERNATIONAL CARPETS AND ALLIED INDUSTRIAL PRODUCTS
350	U25209HP1981PTC004765	UNI STYLE INDIA PVT LTD
351	U25209CH1981PTC004766	DURABLE PLASTICS PVT LTD
352	U35114PB1981PTC004767	BADSHAH CHEMICALS PVT LTD
353	U36939PB1981PTC004768	VEE VEE INTERNATIONAL PVT LTD
354	U25209HP1981PTC004770	UNI-STYLE CONTAINERS PVT LTD
355	U15520HP1981PTC004771	LALJI BREWERIES PVT LTD
356	U22121CH1981PTC004773	VASISHT ENTERPRISES PVT LTD
357	U35921PB1981PTC004775	KOCHHAR CYCLES PVT LTD
358	U25199CH1981PTC004777	PESCO RUBBER AND CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
359	U47310CH1981PTC004779	SHIVALLIK FOUNDRIES PVT LTD
360	U26941CH1981PTC004780	SIDDHARTH CEMENT PVT LTD
361	U29222PB1981PTC004782	MANKOO INTERNATIONAL PVT LTD
362	U33309CH1981PLC004786	UNITED WATCH CASES LTD
363	U33112PB1982PTC004790	KATARIA SURGICAL DISPOSABLE MFRS PVT LTD
364	U18101CH1982PTC004800	NAYAR AND VERMA KNITWEARS PVT LTD
365	U18101CH1982PTC004809	NAYAR AND SAREENVERMA HOSIERY MILLS PVT LTD
366	U92490CH1982PTC004811	DASHNESH ENTERPRISES PVT LTD
367	U51420CH1982PTC004812	FERRO TRADE INDIA PVT LTD
368	U51909CH1982PTC004814	RANDEV EMPIRE EXPORTES AND IMPORTS PVT LTD
369	U17115PB1982PTC004818	WAZIR SINGH TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
370	U28910PB1982PTC004819	MAHAL FORGINGS PVT LTD
371	U63022PB1982PTC004820	BEE DEE ENTERPRISES PVT LTD
372	U21029HP1982PTC004821	SHEETAL PACKERS PRIVATE LIMITED
373	U60210PB1982PTC004823	KARAMSAR TRASPORT CO PVT LTD
374	U45201CH1982PTC004824	SHASTRI BUILDERS PVT LTD
375	U24222PB1982PTC004825	NATURAL GUMS PVT LTD
376	U31909PB1982PTC004826	EDISON LIGHTCRAFT PVT LTD
377	U36999CH1982PTC004828	UNITED ZIPPERS PVT LTD

378	U27106CH1982PTC004830	MOGA STEEL UDYOG PVT LTD
379	U21091PB1982PTC004831	ROYAL PAPER MOULDINGS PVT LTD
380	U21015CH1982PTC004834	DOGRA PAPER BOARD PVT LTD
381	U24219HP1982PTC004836	KANWAR FERTILIZERS PVT LTD
382	U21012PB1982PTC004838	VIJAYANTA PAPER CONVERSIONS (INDIA) PVT LTD
383	U24219PB1982PTC004843	SHIVALIK OIL AND FERTILIZERS PVT LTD
384	U24231CH1982PTC004844	MANSAN INDIA PVT LTD
385	U74300PB1982PTC004845	ADVISTA PVT LTD
386	U27109PB1982PTC004855	CONTINENTAL CANNING CO. PVT LTD
387	U24231PB1982PTC004856	MITSON PHARMACEUTICALS PVT LTD
388	U27106PB1982PTC004858	DHURI STEEL INDUSTRIES PVT LTD
389	U24231PB1982PTC004859	GITA PHARMA PVT LTD
390	U45202CH1982PTC004861	FALCON TOURISM PVT LTD
391	U33129HP1982PTC004862	N D THERMOMETERS PVT LTD
392	U92112HP1982PTC004867	VIDEOTECH PVT LTD
393	U17115PB1982PTC004869	MODEL SPINNING AND GENERAL MILLS PVT LTD
394	U33119CH1982PLC004871	UNITED CROWNS AND CRYSTALS LTD
395	U15312PB1982PTC004872	S K PACKING AND GENERAL MILLS PVT LTD
396	U15146CH1982PTC004873	HIM BISCUITS PVT LTD
397	U51909CH1982PTC004874	FERRO IMPEX PVT LTD
398	U45202PB1982PTC004877	ARUNACHAL PROPERTIES AND INVESTMENTS PVT LMT
399	U63040PB1982PTC004879	RELIANCE TRAVELS PVT LTD
400	U18101PB1982PTC004880	KNITMAN PVT LTD
401	U27106PB1982PTC004881	BARUNALA STEEL INDUSTRIES PVT LTD
402	U45201HP1982PTC004883	EXPERT ENGINEERING AND CONSTRUCTION CO PVT LTD
403	U22110HP1982PTC004885	CARSDN SCIENTIFIC INSTRUMENTATION AND PUBLISHERS PVT LTD
404	U24231PB1982PTC004886	KEWA PHARMA PVT LTD
405	U26941HP1982PLC004887	K K CEMENTS INDIA LTD
406	U36939HP1982PTC004889	COUGAR ATHLETIC EQUIPMENT MFG PVT LTD
407	U15499CH1982PTC004893	CHANDIGARH AGRO INDUSTRIES PVT LTD
408	U35921PB1982PTC004896	SURYIA CYCLE UDYOG PVT LTD
409	U01222CH1982PTC004898	KENTUCKY HATCHERIES PVT LTD
410	U35921PB1982PTC004900	SETH CYCLES PVT LTD
411	U15139PB1982PTC004902	NAGINA SEWAK FOOD PROCESSORS PVT LTD
412	U74999CH1982PTC004905	EMM ASSOCIATES PVT LTD
413	U72100CH1982PTC004910	CHANDIGARH DATA PROCESSING PVT LTD
414	U45202PB1982PTC004915	SOORAJ AUTOMOBILES PVT LTD
415	U25202PB1982PTC004916	IMPERMEABLE INDIA PVT LTD
416	U24121PB1982PTC004924	ORBIT CHEMICALS PVT LTD
417	U63040PB1982PTC004926	R K INTERNATIONAL PVT LTD
418	U45202CH1982PTC004928	DIAMOND PRECISING TOOLS PVT LTD
419	U17111PB1982PTC004932	ANKUR SPINNERS PVT LTD

420	U31103PB1982PTC004933	ALANKAR ELECTRIC MOTORS PVT LTD
421	U28991PB1982PTC004938	SIMPLEX AUTO INDUSTRIES 1960 PVT LTD
422	U24121CH1982PTC004939	PUNJAB AGRICULTURAL INPUTS PVT LTD
423	U99999CH1982PTC004944	BHARAT OVERSEAS CONSTRUCTION PVT LTD
424	U28939CH1982PTC004946	PHEROZE INDUSTRIAL MANUFACTURING AND ENGINEERING CO PVT L
425	U17299CH1982PTC004947	APPU ASSOCIATES PVT LTD
426	U55101PB1982PTC004948	SUNIL HOTELS PVT LTD
427	U28939PB1982PTC004954	BONHEUR PVT LTD
428	U15209CH1982PTC004957	LIVE STOCK ENTERPRISES PVT LTD
429	U17111PB1982PTC004968	HARSONS SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
430	U55101PB1982PTC004973	KARAM HOTELS PVT LTD
431	U28939CH1982PTC004987	BRUNO VALVES PVT LTD
432	U92132PB1982PTC004997	SAMRAT THEATRES PVT LTD
433	U17111PB1982PTC004999	SWASTIK WOOL SPINNERS PVT LTD
434	U24241PB1982PTC005000	MOHAN OIL AND SOAP MILLS PVT LTD
435	U21012PB1982PTC005001	DOABA STRAW BOARDS AND PAPER MILLS PVT LTD
436	U24304CH1982PTC005005	HIMACHAL SYNTEX PVT LTD
437	U99999CH1982PTC005016	TOTAL EXPORTS PVT LTD
438	U24129CH1982PTC005017	SATLUJ CHEMICALS PVT LTD
439	U15143CH1982PTC005023	RAGHUNATH EXTRACTIONS PVT LTD
440	U45202PB1982PTC005027	SINGLA CEMENTS INDIA PVT LTD
441	U45202PB1982PTC005029	SANRAJ PROPERTIES PVT LTD
442	U17111PB1982PTC005032	GRACE WOOLLEN MILLS PVT LTD
443	U24299PB1982PTC005034	NORTHERN INDIA GELATINE PVT LTD
444	U45202CH1982PTC005037	SUNBEAM CARBIDE AND CHEMICALS PVT LTD
445	U17299PB1982PTC005039	TEE KNITS PVT LTD
446	U92490CH1982PTC005045	HARINDER SINGH AND ASSOCIATE PVT LTD
447	U34102CH1982PTC005048	VIJ VEHICLE PVT LTD
448	U32109CH1982PTC005049	DYNAMIC INSTRUMENTATION PVT LTD
449	U27105PB1982PTC005054	JATINDRA ENGINEERING PVT LTD
450	U24233PB1982PTC005062	EVEREST AYURVEDIC MEDICINES AND INK MANUFACTURING COPVT
451	U18101CH1982PTC005063	TUBE-TEX LTD
452	U15142PB1982PTC005070	RATTAN FOODS PRIVATE LTD
453	U21012PB1982PLC005072	MALERKOTLA PULP AND PAPER MILLS LTD
454	U24232CH1982PTC005076	PHARMA LABS PVT LTD
455	U24239PB1982PTC005077	CHIRON PHARAMCEUTICALS (INDIA) PVT LTD
456	U45201CH1982PTC005078	AMAN ENTERPRISES PVT LTD
457	U26941CH1982PTC005081	CHANDIGARH CEMENT UDYOG PVT LTD
458	U28939PB1982PTC005089	G A SEWER PIPE AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
459	U29222CH1982PTC005090	CONSORT ENGINEERS AND TRADERS PVT LTD
460	U21015PB1982PTC005091	SHRI BALAJI STRAW BOARD PVT LTD
461	U34300CH1982PTC005093	AUTO KAMANIS PVT LTD

462	U15142PB1982PTC005097	THY OIL INDUSTRIES PVT LTD
463	U32109CH1982PTC005098	ASCON INDIA PVT LTD
464	U20239PB1982PTC005099	B S PACKERS AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
465	U24239PB1982PTC005101	BIOREX PHARMACEUTICALS PVT LTD
466	U24119CH1982PTC005104	NANA CHEMICALS PVT LTD
467	U26941PB1982PTC005108	SHIVALIK CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
468	U72100CH1982PTC005111	INTEL COMPUTER SERVICES PVT LTD
469	U45202PB1982PTC005113	DEEP CONSTRUCTIONS PVT LTD
470	U29222PB1982PTC005117	M A ENGINEERING WORKS PVT LTD
471	U60231PB1982PLC005121	GAGAL CARRIERS LTD
472	U51909CH1982PTC005124	BXR (EXPORTS AND IMPORTS) PVT LTD
473	U45202CH1982PTC005129	SALIALIVI BUILDERS PVT LTD
474	U27105CH1982PTC005131	GURUASRA INTERNATIONAL PVT LTD
475	U27105PB1982PLC005135	PUNJAB ENERGY DEVICES LTD
476	U92132PB1982PTC005140	SUBHRAJ CINEMA PVT LTD
477	U36939PB1982PTC005144	MEX SPORTS PVT LTD
478	U27105HP1982PTC005145	PEE GEE ENTERPRISES PVT LTD
479	U21014HP1982PTC005150	HIMACHAL PRADESH STATE FRUIT PACKING CO PVT LTD
480	U24232CH1982PLC005155	PUNJAB GLUCONATES LTD
481	U31909PB1982PTC005157	M. I. CONVERTORS PVT LTD
482	U28939PB1982PLC005159	PUNJAB DIAMOND TOOLS LTD
483	U26931HP1982PTC005160	DAMTAL BRICKS TILES INDUSTRIES PVT LTD
484	U27106CH1982PTC005165	PANKAJ ALLOY STEELS PVT LTD
485	U17111PB1982PTC005167	PEEKAY WORSTED SPINNERS PVT LTD
486	U32109PB1982PTC005168	KUNOO ELECTRONIC INDIA PVT LTD
487	U21012PB1982PTC005169	TANGRI PAPER MILLS PVT LTD
488	U17121PB1982PTC005170	KATHURIA DYING AND FINISHING MILLS PVT LTD
489	U45202PB1982PTC005174	ADJ DREAMLAND BUILDERS AND ENGINEERS PVT LTD
490	U17115PB1982PTC005176	SHRI BHARAT PROCESSORS PVT LTD
491	U17111CH1982PLC005179	AMRITSAR SHODDY SPINNERS LTD
492	U17111CH1982PLC005181	PUNJAB SHODDY SPINNERS LTD
493	U24239PB1982PTC005190	THY PHARMACEUTICALS PVT LTD
494	U17111CH1982PTC005193	SANJEEV FIBRES PVT LTD
495	U26956HP1982PTC005196	BHARTI MORTAR AND CONCRETE PRODUCTS PVT LTD
496	U45201PB1982PTC005197	SHANTI NIKETAN PVT LTD
497	U63040HP1982PTC005200	SIMLA TRAVELS INDIA PVT LTD
498	U25209CH1982PTC005201	FORTUNE PLAST PVT LTD
499	U45202PB1982PTC005203	DONARA HOUSING AND CONSTRUCTION CO PVT LTD
500	U24119PB1982PTC005205	OMY CHEMICALS PVT LTD
501	U36911CH1982PTC005210	UNITED STRAPS PVT LTD
502	U24239CH1982PTC005212	UNITED PHARMA INTERNATIONAL LTD
503	U17232HP1982PTC005213	SIRMOUR POLY JUTE PVT LTD

504	U45202PB1982PTC005215	NOBLE CONSTRUCTIONS PVT LTD
505	U24119CH1982PTC005220	SAMMIT CHEMICALS PVT LTD
506	U27109CH1982PTC005222	STEELWARE MANUFACTURERS INDIA PVT LTD
507	U21012PB1982PTC005227	DALMIA PAPER PRODUCTS PVT LTD
508	U27310CH1983PTC005238	CHANDIGARH FORGINGS PVT LTD
509	U32901PB1983PLC005239	JYOTIK ELECTRONIC CAPACITORS LTD
510	U92113PB1983PTC005244	BHATINDA CINE ARTS PVT LTD
511	U24119PB1983PTC005246	CHHATAR CHEMICALS PVT LTD
512	U22012CH1983PTC005247	KATARIA PAPERS PVT LTD
513	U27310PB1983PTC005253	SEHGAL FORGINGS PVT LTD
514	U45201CH1983PTC005254	B D MITTAL CONSTRUCTION COMPNAY PVT LTD
515	U15311CH1983PTC005255	SAHEED SARDAR SEWA SINGH PVT LTD
516	U63040PB1983PTC005256	LINK TRAVELLERS PVT LTD
517	U15319PB1983PTC005258	CROWN RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD
518	U22211CH1983PTC005270	FUTURE INFORMATION SERVICES PVT LTD
519	U51909PB1983PLC005272	SHASHI TRADING CO LTD
520	U51909PB1983PLC005273	SARAD TRADING COMPANY LTD
521	U17219PB1983PTC005274	VISHAL FINISHERS PVT LTD
522	U22110CH1983PTC005282	KANTH INDIA PRINTERS AND PUBLISHERS PVT LTD
523	U45201PB1983PTC005285	MUKTI CONSTRUCTION PVT LTD
524	U26942CH1983PTC005288	AVON CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
525	U15311PB1983PTC005290	SHAKTI ROLLER FLOUR AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
526	U24221CH1983PTC005291	MEDISURG PVT LTD
527	U18101CH1983PTC005292	FINITY APPARELS PVT LTD
528	U91120CH1983PTC005295	ARA CONSULTANTS PVT LTD
529	U45202PB1983PLC005302	PUNJCAN FASTENERS LIMITED
530	U26942HP1983PTC005304	SHASHI CEMENTS PVT LTD
531	U17121PB1983PLC005308	INDIAN DYEING AND FINISHING MILLS LTD
532	U91120PB1983PTC005310	ACCREDITED DETECTIVES PVT LTD
533	U27105PB1983PTC005316	JAY PEE ASSOCIATES (INDIA) PVT LTD
534	U29219PB1983PLC005322	MANUFACTURING TECHNOLOGIES (INDIA) LTD
535	U26942PB1983PTC005323	SURINDRA CEMENTS PVT LTD
536	U45202PB1983PTC005334	JIT INDIA PVT LTD
537	U24232CH1983PTC005335	BAGGA PHARMACEUTICALS PVT LTD
538	U15319PB1983PTC005342	EAGLE FEEDS PVT LTD
539	U01112PB1983PTC005345	QUALITY SEEDS COMPANY PVT LTD
540	U17219CH1983PTC005347	KIRAN TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
541	U26101PB1983PTC005352	PUNJAB GLASS WORKS PVT LTD
542	U24231HP1983PTC005354	Cox AND WEBROUNEY PHARMACEUTICALS PVT LTD
543	U00000CH1983PTC005355	GREWAL INDUSTRIES PVT LTD
544	U29219PB1983PTC005356	MANDAR MECHANICAL WORKS PVT LTD
545	U45201CH1983PTC005357	HAR-JAS PVT LTD

546	U17219PB1983PTC005360	UNISON TEXTILES PVT LTD
547	U24119CH1983PTC005361	RITURAJ CHEMICALS AND FERTILIZERS PVT LTD
548	U45202CH1983PTC005363	STRESSCON BUILDERS INDIA PVT LTD
549	U60210PB1983PTC005373	AMRITSAR BOMBAY CARRIERS PVT LTD
550	U29219HP1983PTC005374	SUNSHINE ENGINEERING INDUSTRIES PVT LTD
551	U17111CH1983PTC005382	DYNAMIC VENTURES PRIVATE LIMITED
552	U00000CH1983PTC005383	JANDORIA BRICK KLIN INDUSTRY PVT LTD
553	U29219PB1983PTC005386	SHRI SAI BABA ENGINEERS AND FARMS PVT LTD
554	U74999PB1983PTC005387	KWALITY ENTERPRISES PVT LTD
555	U74999PB1983PTC005388	SONA ENTERPRISES PVT LTD
556	U20211PB1983PTC005390	PUNJAB PLYWOODS PVT LTD
557	U74999PB1983PTC005391	GAURAV MULTI INCENTIVES PVT LTD
558	U45202CH1983PTC005392	VAIDYA ASSOCIATES PVT LTD
559	U74999CH1983PTC005396	DEEPAK ENTERPRISES PVT LTD
560	U63040PB1983PTC005405	HARVEER TRAVEL CONSULTANTS PVT LTD
561	U22012PB1983PTC005406	KAY PAPERS PVT LTD
562	U01222PB1983PTC005407	MAHARANI POULTRY BREEDING FARMS PVT LTD
563	U72200CH1983PTC005408	ASSOCIATED COMPUTERS PVT LTD
564	U32109CH1983PTC005410	KUMAR ELECTRO STAMPINGS PVT LTD
565	U29219HP1983PTC005412	BHARDWAJ MACHINES AND EQUIPMENTS PVT LTD
566	U31909HP1983PTC005413	B MEHRA APPLIANCES AND ELECTRICALS PVT LTD
567	U92490HP1983PTC005415	V K ENTERPRISES PVT LTD
568	U45202PB1986PLC005418	OMAX AUTO LTD
569	U80302PB1983PTC005419	SANDHU INSTITUTES OF PSYCHIATRY PVT LTD
570	U17219PB1983PTC005422	TRIPLE S TEXTILES PVT LTD
571	U27310HP1983PTC005423	M.H.FORGINGS PVT LTD
572	U45201CH1983PTC005434	TULI CONSTRUCTION CO PVT LTD
573	U27310PB1983PTC005435	SAI-BA FOUNDRY PVT LTD
574	U45202HP1983PTC005436	BASSI LABORATORIES PVT LTD
575	U17121PB1983PTC005439	ANEEL WEAVERS PVT LTD
576	U91120CH1983PTC005442	Y P ASSOCIATES PVT LTD
577	U74995CH1983PTC005450	DYNAMIC DATA SERVICES PVT LTD
578	U15143PB1983PTC005455	EMBROCIA OILS PVT LTD
579	U51909PB1983PTC005456	SEKOY MARKETEERS PVT LTD
580	U15141PB1983PTC005457	DEESONS OIL INDUSTRIES PVT LTD
581	U45201CH1983PTC005460	BHANGU CONSTRUCTION CO PVT LTD
582	U74999CH1983PLC005461	BHANGU ENTERPRISES LTD
583	U24119PB1983PTC005470	PUNJAB PHOSPHATE PVT LTD
584	U29209CH1983PTC005475	CHAWLA MECHANISED KILN PVT LTD
585	U45202CH1983PTC005476	MUNAK BUILDERS PVT LTD
586	U92113PB1983PTC005487	SARWAN THEATRE PVT LTD
587	U51909PB1983PTC005490	ADARSHLOK TRADE LINKS PVT LTD

588	U27104PB1983PLC005497	DEEPS SPECIAL STEELS LTD
589	U51909PB1983PTC005500	NEW WORLD TRADING AND SERVICES PVT LTD
590	U51909PB1983PTC005511	KITCO INDIA PVT LTD
591	U24232CH1983PTC005515	INDIAN PHARMACEUTICALS PVT LTD
592	U51909PB1983PTC005517	HAVELI RAM BANSI LAL PVT LTD
593	U45202PB1983PTC005521	DERBY ENTERPRISES PVT LTD
594	U15321PB1983PTC005522	H G ARORA RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD
595	U25191CH1983PTC005527	B T POLY PRODUCTS PVT LTD
596	U60210PB1983PTC005534	PUREWAL EX-ARMY BUS SERVICE PVT LTD
597	U29219CH1983PTC005538	SUMAC ENGINEERING PVT LTD
598	U32109CH1983PTC005540	JAGAT ELECTRO-CHEM PVT LTD
599	U99999PB1983PTC005543	GICCO PVT LTD
600	U25199HP1983PLC005544	ROCKLAND RUBBERS AND CHEMICALS LTD
601	U55520CH1983PTC005545	NABHA DISTILLERY PVT LTD
602	U32109PB1983PTC005548	RAJ ELECTRONICS PVT LTD
603	U15311CH1983PTC005550	SHIVALIK FLOUR MILLS PVT LTD
604	U29219HP1983PTC005554	NAVJYOTI ENGINEERING PVT LTD
605	U85110CH1983PTC005558	CANAL VIEW NURSING HOME PVT LTD
606	U29219CH1983PTC005559	KULDIP INDUSTRIAL CO PVT LTD
607	U27104PB1983PTC005561	GOBINDGARH STEEL PVT LTD
608	U21099HP1983PTC005572	AZEET INTERNATIONALS PVT LTD
609	U36939PB1983PTC005577	SILVER SPORTS PVT LTD
610	U45202HP1983PTC005580	MAGNUM FASTEERS PVT LTD
611	U45202CH1983PTC005581	BHAJALI ENTERPRISES PVT LTD
612	U24295HP1983PTC005582	GALLOP GELATINES PVT LTD
613	U28992HP1983PTC005585	R M CONTAINERS PVT LTD
614	U27104PB1983PTC005586	S R STEELS PVT LTD
615	U29219PB1983PTC005587	TEE ESS ENGINEERING PVT LTD
616	U24232CH1983PLC005588	CAPRI DRUGS AND PHARMACEUTICALS LTD
617	U24232PB1983PTC005599	PUNJAB PHARMA IMMUNITY PVT LTD
618	U26942PB1983PTC005602	RAJINDRA CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
619	U24232PB1983PTC005608	CUREX LABORATORIES PVT LTD
620	U51909PB1983PTC005615	KUMAR SALES AND SERVICE PVT LTD
621	U27104CH1983PTC005616	VARDHMAN ALLOYS AND STEELS PVT LTD
622	U17117CH1983PTC005617	P S T WOOLWAYS PVT LTD
623	U51909CH1983PTC005624	SHIRAJ EXPORTS PVT LTD
624	U24232HP1983PTC005633	HIMANI DRUGS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
625	U72900PB1983PTC005634	PARAM COMPUTERS PVT LTD
626	U26942HP1983PTC005635	B AND B CEMENT WORKS PVT LTD
627	U26101CH1983PLC005638	HIMACHAL BOTTLE LTD
628	U55101PB1983PTC005640	UPKAR HOTELS AND APARTMENTS PVT LTD
629	U60210PB1983PTC005649	JODHPUR TRANSPORT PVT LTD

630	U55101HP1983PTC005653	HOTEL HILL HUTS PVT LTD
631	U24111PB1983PTC005654	JIWAN CYLINDERS PVT LTD
632	U55101CH1983PTC005656	SARDAR MOTELS PVT LTD
633	U26942HP1983PLC005659	ARIHANT CEMENTS LTD
634	U50101PB1983PTC005667	DEWAN MOTORS PVT LTD
635	U00000CH1983PTC005669	US INDUSTRIES PVT LTD
636	U34201HP1983PTC005671	HIM AUTOMOBILES PVT LTD
637	U51909HP1983PTC005672	KHERA OVERSEAS PVT LTD
638	U15143PB1983PTC005673	MODERN SOLVEX PVT LTD
639	U17297CH1983PTC005674	K D ZIPPERS PVT LTD
640	U17117HP1983PTC005675	NAYYAR WOOLEN INDIA PVT LTD
641	U26954HP1983PTC005676	MAHAVIR BRICKS PVT LTD
642	U25199HP1983PTC005683	HIMACHAL RUBBER MILLS PVT LTD
643	U51909CH1983PTC005685	C S A EXPORTERS PVT LTD
644	U70101PB1983PTC005689	CHANDIGARH ESTATES DEVELOPMENT CO PVT LTD
645	U27105PB1984PTC005691	ADITYA ASSOCIATES PVT LTD
646	U51909CH1984PTC005696	VIJETA EXPORTERS PVT LTD
647	U24239PB1984PTC005715	VIKRANT SURGICAL COTTON PRIVATE LIMITED
648	U24119PB1984PTC005723	BHANDARI CHEMICALS PVT LTD
649	U24119PB1984PTC005728	MONTARI CHEMICALS PVT LTD
650	U51909CH1984PTC005731	SHRI GOBIND (INDIA) PVT LTD
651	U14107HP1984PTC005734	HIM MINES PVT LTD
652	U26943CH1984PTC005735	HIMALAYAN FOOTHILLS CEMENT PVT LTD
653	U26921HP1984PTC005738	RAMSAN CERAMICS PVT LTD
654	U15147HP1984PTC005745	BVR FOOD PRODUCTS PVT LTD
655	U52190HP1984PTC005747	HIMACHAL SALES PVT LTD
656	U51909PB1979PTC005748	MONIQUE ENTERPRISES PVT LTD
657	U27105PB1984PTC005750	RAJ PAUL AND SONS PVT LTD
658	U52190PB1984PTC005752	R K MARKETING PVT LTD
659	U45202PB1984PTC005754	VIMLA POLY PRODUCTS PVT LTD
660	U23203CH1984PTC005758	UNITED LPG CYLINDERS PVT LTD
661	U31909CH1984PTC005760	PRAGATI INDUSTRIAL MOTORS PVT LTD
662	U15143HP1984PTC005770	HIM EXTRACTIONS PVT LTD
663	U21098CH1984PTC005771	KALYANI CARBONS PVT LTD
664	U24232HP1984PTC005772	HIMACHAL REMIDIES PVT LTD
665	U51909HP1984PTC005774	LALJI IMPEX PVT LTD
666	U45201CH1984PTC005779	BIRIS CONSTRUCTION AND ENGINEERING PVT LTD
667	U15147HP1984PTC005782	HIGHLAND FOODS PVT LTD
668	U31909HP1984PTC005785	B P INTERNATIONAL PVT LTD
669	U28939HP1984PTC005790	TRIVENI TOOLS PVT LTD
670	U29930CH1984PTC005791	BELTRON APPLIANCES PVT LTD
671	U51909CH1984PTC005797	GOLDEN STAR INTERNATIONAL PVT LTD

672	U19119CH1984PTC005805	LUXMI LEATHERS PVT LTD
673	U24231CH1984PTC005807	TEG CHEMICALS PVT LTD
674	U24299HP1984PTC005808	PRAV CHEMICALS PVT LTD
675	U45202PB1984PTC005809	AMBAR TRAVEL SERVICE PVT LTD
676	U45202PB1984PTC005811	LAXMI CLAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
677	U70101PB1984PTC005816	S K B BUILDERS AND FABRICATORS PVT LTD
678	U72200PB1984PTC005830	LUDHIANA COMPUTER AND MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LTD
679	U25192PB1984PTC005832	CONVEYOR CHAINS CO PVT LTD
680	U26921PB1984PTC005835	SUTLEJ BRICKS PVT LTD
681	U35303PB1984PTC005838	SANDS AVIATION ENGINEERING CO PVT LTD
682	U60210PB1984PTC005840	DURGA TRANSPORT CO PVT LTD
683	U01211PB1984PTC005843	IAFCO FEED MILLS PVT LTD
684	U22130CH1984PTC005846	UNITED MEDIA INDIA PVT LTD
685	U45202CH1984PTC005847	HIMACHAL PHARMACEUTICAL PVT LTD
686	U17115HP1984PTC005857	SHRI GAUTTTAM SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
687	U24231PB1984PLC005858	BLOOM CAP GEL INDIA LIMITED
688	U24119PB1984PTC005863	VARDHAMAN ENGINEERS PVT LTD
689	U01409PB1984PTC005869	KARTAR AGNO MILLS PVT LTD
690	U19119HP1984PTC005871	RENUKA FOOTWEARS PVT LTD
691	U28113HP1984PTC005872	MEERAJ CONDUCTORS PVT LTD
692	U52395PB1984PTC005874	HINDMURTI FURNACE PVT LTD
693	U64203CH1984PTC005876	ARMR COMMUNICATIONS PVT LTD
694	U60201PB1984PTC005880	SANDHU AUTOS PVT LTD
695	U51909CH1984PTC005881	SARVI PRODUCTS PVT LTD
696	U24299HP1984PTC005884	RUBCHEM INDUSTRIES PVT LTD
697	U32303HP1984PTC005887	MAGS MAGNETS PVT LTD
698	U63040CH1984PTC005890	HIMCHEM SYNTHETICS PVT LTD
699	U45202CH1984PTC005891	AQUA CHUMAND PVT LTD
700	U45202HP1984PTC005892	HIM STAR TOURISM PVT LTD
701	U27109PB1984PTC005895	K L STEELS PVT LTD
702	U24239PB1984PTC005900	VISHAL PHARMACEUTICALS PVT LTD
703	U51909CH1984PTC005908	KALPANA ASSOCIATES PVT.LTD.
704	U24231HP1984PTC005917	PANACEA DRUGS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
705	U70101HP1984PTC005924	ONKAR BUILDERS PVT LTD
706	U29219HP1984PTC005931	FORM TECHNICS (INDIA) PVT.LTD.
707	U51909PB1984PTC005935	ONKAR SYSTEMS PVT LTD
708	U63040HP1984PTC005936	TRANS-ORIENT TRAVELS PVT LTD
709	U51909PB1984PTC005937	TRIPLE LIFE CORPORATION PVT LTD
710	U52342CH1984PTC005940	PAL CEMENT PVT LTD
711	U51909CH1984PTC005941	R K ENTERPRISES PVT LTD
712	U24123CH1984PTC005942	PRIYA CHEMICALS AND FERTILIZERS PVT LTD
713	U24299CH1984PTC005945	EVEREST GELATINES PVT LTD

714	U60210PB1984PTC005947	VARINDER BUS SERVICE(P) LTD
715	U74940CH1984PTC005956.	PUNJAB PHOTO CIRCUITS PVT LTD
716	U51909PB1984PTC005958	PUSHP ENTERPRISES PVT LTD
717	U25199HP1984PTC005964	EASTMAN RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
718	U63040PB1984PTC005974	SRD TRAVELS ENTERPRISES PVT LTD
719	U51909PB1984PTC005977	KAPOOR SONS PVT LTD
720	U22012HP1984PTC005982	SRI VISHNU PAPER AND BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
721	U27104HP1984PTC005983	R.B.METALS PVT LTD
722	U35921PB1984PTC005985	RISHI LUGS PVT LTD
723	U29264PB1984PTC005990	ALLIEDFAB ENGG PVT LTD
724	U17113PB1984PTC005995	SANSARPUR WOOLLEN TEXTILE MILLS PVT LTD
725	U55101CH1984PTC006000	JOSHI HOTELS PVT LTD
726	U45202HP1984PTC006008	HIMACHAL COAL ANDOOKINGPVT LTD
727	U27107PB1984PTC006012	N K ALLOYS AND STEELS PVT LTD
728	U52311CH1984PTC006016	MARRY AND MYO DRUGS PVT LTD
729	U29309HP1984PTC006018	SHIVALIK SPRINGS PVT LTD
730	U45202PB1984PTC006021	GRADUATE BUS SERVICE PRIVATE LIMITED
731	U51909PB1984PTC006022	MAGNUM INDIA PVT LTD
732	U24231HP1984PTC006026	WADHWA PHARMOCHEM PVT LTD
733	U26101HP1984PTC006027	HIMALYA GLASS INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
734	U40200HP1984PTC006030	S K S FUELS PVT LTD
735	U15312PB1984PTC006036	AMRITSAR RICE MILLS PRIVATE LIMITED
736	U45202PB1984PTC006040	TRI MURTI CONSTRUCTION AND ENGINEERING CO PVT LTD.
737	U45201PB1984PTC006048	SARUP BUILDERS PVT LTD
738	U33112CH1984PTC006049	V YANTRAKAR PVT LTD
739	U45203PB1984PTC006053	SOHAN LAL SHEKHAR KUMAR PVT LTD
740	U31102HP1984PTC006054	PEEDEECO WELDING AND ELECTRICALS PVT LTD
741	U29221PB1984PTC006062	SINGH ENGINEERING PRODUCTS PVT LTD
742	U29223PB1984PTC006068	CHETAK INDIA PVT LTD
743	U60210PB1984PTC006069	BOOH TRANSPORT CO P LTD
744	U34300HP1984PTC006071	TINA RADIATROS PVT LTD
745	U27203PB1985PTC006086	PUNJAB ALUMINIUM CO PVT LTD
746	U45202CH1985PTC006090	HARNBANS SINGH TULI AND SONS BUILDERS PRIVATE LIMITED
747	U25209CH1985PTC006091	DINKUM POLY PRODUCTS PVT.LTD.
748	U25199PB1985PTC006092	PUNJAB RUBBER TECH PVT LTD
749	U17115PB1985PTC006097	PUNAM SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
750	U25209PB1985PTC006098	GURDEEP POLY PACKS PVT LTD
751	U21098HP1985PTC006101	FANTOM STATIONERY AIDS PVT LTD
752	U15420CH1985PTC006107	KUNAL PRECISIONS PRIVATE LIMITED
753	U51103CH1985PTC006111	BAJWA IMPORT EXPORT PVT LTD
754	U24294PB1985PTC006114	VIJAY COLOR LAB PVT LTD
755	U45201PB1985PTC006129	CYME CONSTRUCTION CO PVT LTD

756	U36939PB1985PTC006132	GINA SPORTS PVT LTD
757	U25191PB1985PTC006135	UNIVERSAL POLYFIBRES PVT LTD
758	U60210PB1985PTC006142	GATTA BUS SERVICE PVT LTD
759	U27106CH1985PTC006143	CHET RAM STEELS AND ALLOYS CASTINGS PVT LTD
760	U92490CH1985PTC006145	NIDHI PUBLIC COMFORTS PVT LTD
761	U45202HP1985PTC006154	BHUTORIA CEMENT INDUSTRIES PVT LTD
762	U24299HP1985PTC006155	MARKANDA CHEMICALS PVT LTD
763	U25199PB1985PTC006157	LUDHIANA RUBBER AND HARD BOARD MILLS PRIVATE LIMITED
764	U45202PB1985PTC006158	HARBHAJAN PROPERTY DEALERS PVT LTD
765	U25209CH1985PTC006177	POOJA POLY PRODUCTS PVT LTD
766	U29246PB1985PTC006178	ANAND SCHINDER PVT LTD
767	U27209HP1985PTC006179	HEMKUND METALS PVT LTD
768	U23201PB1985PTC006182	SHAKTI PETROCHEM PVT LTD
769	U51909CH1985PTC006183	MATRA PRIVATE LIMITED
770	U51909CH1985PTC006185	RAM BABU SINGHAL ENTERPRISES PVT LTD
771	U55102PB1985PTC006187	CHADHA ASSOCIATES PVT LTD
772	U51909PB1985PTC006192	VARINDER AGRO PRODUCTS PVT LTD
773	U24232CH1985PTC006196	ORBIT DRUGS PVT LTD
774	U28999PB1985PTC006201	ASHOKA GALWIRES PVT LTD
775	U26954PB1985PTC006209	SHIVALIK PIPE ENGINEERS PVT LTD
776	U25201PB1985PTC006211	KAMLA PLASTICS PVT LTD
777	U32109CH1985PTC006217	ENBEE ELECTRONICS PVT LTD
778	U31200PB1985PTC006218	DOLPHIN FIRE EQUIPMENTS PVT LTD
779	U32101PB1985PTC006219	G R ELECTRONICS PVT LTD
780	U27109PB1985PTC006226	VISHAL FOUNDRY AND AGRO INDUSTRIES PVT LTD
781	U55101PB1985PTC006229	SVIK INDIA PVT LTD
782	U60210PB1985PTC006230	DELHI PUNJAB GANGANAGAR CARRIERS PVT LTD
783	U24232CH1985PTC006231	ULTRAMAX BIO-MEDICALS PRIVATE LIMITED
784	U17111CH1985PTC006233	GEMINI FABRICS PVT LTD
785	U24231PB1985PTC006234	CRONUS PHARMACEUTICALS PVT LTD
786	U25199PB1985PTC006240	ANKUR RUBBERS PVT LTD
787	U24239HP1985PTC006248	SANTOSA PHARMACEUTICALS PVT LTD
788	U72200PB1985PTC006249	PUNJAB COMPUTER SOFTWARE PVT LTD
789	U74140PB1985PTC006250	BUYERS CLUB PVT LTD
790	U25191HP1985PTC006256	HIMSHIVA PLASTICS PVT LTD
791	U29191HP1985PTC006259	MAHALAKSHMI REFRACTORIES PVT LTD
792	U40107PB1985PTC006264	PUNJAB ENERGY SUBSTITATERS PVT LTD
793	U27209HP1985PTC006271	ANAND POLY PRODUCTS PVT LTD
794	U51909CH1985PTC006273	TULIP EXPORTS PVT LTD
795	U99999PB1985PTC006274	DMB COMPUTER INTERFACE TECHNOLOGICS PVT LTD
796	U99999HP1985PTC006284	HIMALAYAN ADVENTURES PVT LTD
797	U01222PB1985PTC006300	GOLDEN AGRO FEEDS PVT LTD

798	U24231PB1985PTC006301	JOSHI FOODS PVT LTD
799	U15490HP1985PTC006306	KAILASH FOOD PRODUCTS PVT LTD
800	U51909CH1985PTC006308	BUDH AND SUDH ENTERPRISES PVT LTD
801	U70200CH1985PTC006309	SAHNI BUILDERS AND CONSULTANTS PVT LTD
802	U26102PB1985PTC006311	PANJAB GLASS AND ALLED INDUSTRIES PVT LTD
803	U51909CH1985PTC006320	ANUPAM AGENCIES PVT LTD
804	U01222PB1985PTC006321	SUTLEJ HETCHERIES PVT LTD
805	U99999PB1985PTC006336	PREMIER FLOORING TILES PVT LTD
806	U24231PB1985PTC006342	MASAT BAHAR SPICES PVT LTD
807	U17114PB1985PLC006343	KISSAN FIBRES LIMITED
808	U24119PB1985PTC006348	M D NIPPON CHEMICEAL PVT LTD
809	U17117CH1985PTC006349	PUSHKAR WOOLENS PVT LTD
810	U74300CH1985PTC006350	HARBHAJAN SINGH AND CO PVT LTD
811	U51311PB1985PTC006352	HIMSONS PVT LTD
812	U32109HP1985PTC006353	PAAA ELECTRONICS PVT LTD
813	U24299HP1985PTC006358	SHIVALIK CHEMICALS AND ALLIED INDUSTRIES PVT LTD
814	U26921CH1985PTC006359	R. K. GOEL AND SONS PVT LTD
815	U25209HP1985PTC006366	BINDAL EXTRUSION PVT LTD
816	U22219PB1985PTC006376	PALLAVI TYPE FOUNDRY PVT LTD
817	U45201PB1985PTC006379	MALHOTRA BUILDERS PVT LTD
818	U70200PB1985PTC006382	DEWAN ESTATE AGENTS PVT LTD
819	U32109PB1985PTC006388	INDO ASIAN ELECTRICALS PVT LTD
820	U34300PB1985PTC006390	ESSTES AUTO PROJECTS INDUSTRIAL PVT LTD
821	U92112CH1985PTC006391	FLORA PHOTO PVT LTD
822	U34300PB1985PTC006392	PUNJAB GASKETS PVT LTD
823	U74950PB1985PTC006397	FRIENDS PACK WELL PVT LTD
824	U17303PB1985PTC006399	SHRI VIRNDABUN SYNTHETICS P LTD
825	U24299HP1985PTC006403	HIMACHAL LUBRICATING AND CHEMICALS PVT LTD
826	U31909HP1985PTC006406	HIM ELECTRODES PVT LTD
827	U921321HP1985PTC006407	GOEL TELEVISION PVT LTD
828	U50103CH1985PTC006408	CHANDA MOVIES (P) LTD
829	U99999PB1985PTC006427	ASIA SPINNERS PVT LTD
830	U27202HP1985PTC006431	SARAF TUBES PVT LTD
831	U25209PB1985PTC006433	GAUTAM POLY ENTERPRISES PVT LTD
832	U01111PB1985PLC006449	KAILASH FLOUR MILLS LTD
833	U17219PB1985PTC006453	AMAR PROCESSORS PVT LTD
834	U17117PB1985PTC006455	PEARL TEXTILE INDUSTRIES PVT LTD
835	U36939PB1985PTC006457	RADHA IMPORT AND EXPORT PVT LTD
836	U17111HP1985PTC006462	MARS TEXTILE MILLS PVT LTD
837	U29219PB1985PTC006466	JASWANT INDUSTRIAL CO PVT LTD
838	U25209CH1985PTC006468	UNITED POLYPLASTS PVT LTD
839	U25111PB1985PTC006469	PUNJAB IMPEX PVT LTD

840	U51101PB1985PLC006474	B L GUPTA ENTERPRISES LTD
841	U21012CH1985PTC006475	INDIAN CARBONLESS COPIER PVT LTD
842	U34300CH1985PLC006481	AMTECH AUTO LIMITED
843	U60210PB1985PTC006487	UNITED HIGHWAYS PVT LTD
844	U55101HP1985PTC006488	ROCKSHIRE HOTELS PRIVATE LTD
845	U99999PB1985PTC006490	HIND ALLOYS AND DIE CASTINGS PVT LTD
846	U51909CH1985PTC006501	KISHAN SINGH AND CO PVT LTD
847	U51909PB1985PLC006503	SAINSAHAI INDIA LIMITED
848	U74140PB1985PTC006504	NAM CONSULTANTS PRIVATE LTD
849	U34310PB1985PLC006505	EVEREST AUTO RADIATORS LTD
850	U25191CH1985PTC006510	FIVE STAR POLY PLAST PVT LTD
851	U27106PB1985PTC006511	AMBEY ALLOY AND STEELS PVT LTD
852	U45201PB1985PTC006512	AYYANGERS CONSORTIUM (P) LTD
853	U99999PB1985PTC006525	ORIENTAL DYEING PVT LTD
854	U99999CH1985PTC006526	OCEANIC CONSTRUCTIONS DEVELOPMENT PVT LTD
855	U35921PB1985PTC006527	PRINCE CYCLES PVT LTD
856	U27310HP1985PTC006530	HIMACHAL CON-CAST PVT. LTD.
857	U24239HP1985PTC006533	INDIAN CAPSHELLS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
858	U15326PB1985PTC006535	PARMAR CORM PRODUCTS PVT LTD
859	U55101HP1985PTC006536	REGENCY RESORTS PVT LTD
860	U25209HP1985PTC006543	SHAKTI POLYLAM INDUSTRIES PVT LTD
861	U99999PB1985PTC006544	ORIENT GROWTH FUND PVT LTD
862	U26101HP1985PTC006545	VEE KAY GLASS WORKS PVT LTD
863	U26101PB1985PTC006549	KULDIP GLASS PVT LTD
864	U22219PB1985PTC006550	RADHA PRINTERS AND PROCESSORS PVT LTD
865	U24279HP1985PTC006555	RAMSONS GRAMIN UDYOG I PVT LTD
866	U74140PB1985PTC006557	M AND M CONSULTANCY PVT LTD
867	U17111PB1985PTC006559	SHIRDI SPINNERS PVT LTD
868	U74210HP1985PTC006562	HIMACHAL ENGINEERS AND BUILDERS PVT LTD
869	U32109HP1985PLC006566	ZOOM ELECTRONICS INDIA LTD
870	U52396PB1985PTC006570	SHAKTI STATIONERY MERCHANTS PVT LTD
871	U17309PB1985PTC006576	UNITED KNITTERS PVT LTD
872	U24239CH1985PTC006577	CURIC DRUGS AND PHARMACEUTICALS PVT LTD
873	U45202CH1985PTC006578	FRONTIER CONTRACTORS AND CONSTRUCTIONS PVT LTD
874	U45202CH1985PTC006579	SUPREME CONSTRUCTIONS AND CONTRACTORS PVT LTD
875	U31909PB1985PTC006581	GURU NANK ELECTRICAL INDUSTRIES PVT LTD
876	U27310PB1985PTC006582	SINGLA CASTING PVT LTD
877	U51909PB1985PTC006585	PIONEER EXPORTS PVT LTD
878	U23209HP1985PTC006586	RAJINDRA PETROFOAM PVT LTD
879	U22219PB1985PTC006587	KAPOORSONS PRINTERS AND CONTAINERS PRIVATE LTD
880	U24232CH1985PTC006590	VENUS MEDICAMENT PVT LTD
881	U55101HP1985PLC006602	PICCADILY HOLIDAY RESORTS LTD

882	U40107PB1985PTC006603	C V ENERGY PRODUCT PVT LTD
883	U25199CH1985PTC006609	H A TYRES PVT LTD
884	U17111PB1985PTC006610	ROHITASHV FABRICS PVT LTD
885	U24114PB1985PTC006612	PARKASH COLOR LAB PVT LTD
886	U21098CH1985PTC006615	EVEREST CARBONS PVT LTD
887	U27109HP1986PTC006616	SHREE AMBICA STEELS PVT LTD
888	U17113PB1986PTC006617	TARAK WOOL COMBERS PVT LTD
889	U15147PB1986PTC006620	PUNJAB OILS AND GENERAL AGRO PVT LTD
890	U60221PB1986PTC006631	H S TRAVELS PVT LTD
891	U17219PB1986PTC006632	KAMLA SPINNING MILLS PVT LTD
892	U27109CH1986PTC006634	T C FERRO CAST PVT LTD
893	U17219PB1986PTC006639	MALHOTRA WORSTED SPINNING MILLS PVT LTD
894	U27109HP1986PTC006640	YOGESH DIES CASTING PVT LTD
895	U27104HP1986PTC006641	R K ALLOYS PVT LTD
896	U32109CH1986PTC006644	EVERGREEN ELECTRONICS PVT LTD
897	U51909PB1986PTC006646	MALWA TRAVEL AGENCIES PVT LTD
898	U33111HP1986PLC006650	HIMACHAL INTER LINK TECHNOLOGIES LTD
899	U33111HP1986PTC006651	HIMACHAL ASSEMBLY TECHNOLOGIES PVT LTD
900	U17219PB1986PTC006656	KAPOOR SPINNING MILLS PVT LTD
901	U19129PB1986PTC006663	GOVINDWAL REXINE PVT LTD
902	U45202PB1986PTC006666	SHIVA FOODS PVT LTD
903	U36104HP1986PTC006667	UNIQUE FOAM PRODUCTS PVT LTD
904	U55101HP1986PTC006670	HAMTA VIEW RESORTS PVT LTD
905	U51909PB1986PTC006676	UNIQUE SALES AND SERVICES PVT LTD
906	U24112PB1986PTC006677	B S H ACIDS PVT LTD
907	U27109PB1986PTC006682	UNIQUE TUBES PVT LTD
908	U25199PB1986PTC006683	MAHAVIR TYRES PVT LTD
909	U60210PB1986PTC006689	KHANNA ROAD LINES PVT LTD
910	U24242PB1986PTC006690	KHANNA WAX PRODUCTS PVT LTD
911	U60221PB1986PTC006691	MAHILPUR ROADWAYS PVT LTD
912	U17117PB1986PTC006693	PREET PROCESING INDUSTRIES PVT LTD
913	U99999CH1986PTC006695	PRIYA PROPERTIES PVT LTD
914	U99999HP1986PTC006699	LEO PHARMACEUTICALS (INDIA) PVT LTD
915	U55101PB1986PTC006701	PREET PALACE HOTEL AND RESTAURANT PVT LTD
916	U51909PB1986PTC006702	ALCON INDIA PVT LTD
917	U17117PB1986PLC006714	JANDIALA WOOLLEN SPINNING MILLS LTD
918	U25209CH1986PLC006717	ERIDAN THERMOPLASTS LTD
919	U15134PB1986PTC006719	PUNJAB JUICY FRUIT PRODUCTS PVT LTD
920	U25200PB1986PTC006722	SOBHAGYA COMMERCIALS PVT LTD
921	U17115CH1986PLC006726	COSMOS SPINNING LTD
922	U17110CH1986PLC006741	PUNJAB PETRO FABRICS LTD
923	U25191HP1986PTC006742	SHUBHA RUBBER PVT LTD

924	U22210PB1986PTC006745	SUPER STANDARD PRINTING MACHINERIES PVT LTD
925	U99999CH1986PTC006746	CHANDIGARH FEED MILLS PVT LTD
926	U15133CH1986PTC006747	INDIAN MULTITECH SYSTEMS PVT LTD
927	U32109CH1986PTC006755	R T S ELECTRONICS PVT LTD
928	U45202HP1986PTC006761	HI TECH BRICLES PRIVATE LIMITED
929	U25200HP1986PTC006762	ROSELLA PLASTOS PRIVATE LIMITED
930	U17115HP1986PTC006763	ATWAL SPINNING MILLS PVT LTD
931	U74200CH1986PLC006765	INDIAN INTEGRATED VALVES SERVICES LTD
932	U21012PB1986PTC006766	BALWANT PAPER MOULDING PVT LTD
933	U24230CH1986PTC006768	GANERIWALA PARAMA AIDS PVT LTD
934	U22110CH1986PTC006782	CLJ PUBLISHERS LIMITED
935	U72200CH1986PTC006783	B VM DATA CONTROLS PVT LTD
936	U17115HP1986PTC006789	SINSINWALS FABRICS PVT LTD
937	U99999CH1986PTC006797	AMBIKA TELETRONICS PVT LTD
938	U51432PB1986PTC006802	SHREE GANGA TRANSPORT PRIVATE LIMITED
939	U70100PB1986PTC006804	UNITED INDIA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
940	U63040HP1986PTC006806	ASSOCIATED AMAN CARRIERS PVT LTD
941	U50300PB1986PTC006808	BEAS RADIATORS PRIVATE LIMITED
942	U63040PB1986PTC006813	SINGH TPANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
943	U15520PB1986PTC006817	MALWA BOTTLING PVT LTD
944	U19129CH1986PTC006821	M.K. LEATHER BOARDS PVT. LTD.
945	U29308PB1986PTC006822	SALECH SELF ACTING DEVICES PRIVATE LIMITED
946	U15311PB1986PLC006825	INDIAN AGRO CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
947	U63090PB1986PTC006837	CHEEMA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
948	U24231HP1986PLC006838	HIMACHAL LABORATORIES LTD
949	U25202HP1986PTC006842	SIRMAUR PACKAGING PVT LTD
950	U72200CH1986PTC006845	GALAXY COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
951	U17110PB1986PLC006846	HARJEE FIBRES PUNJAB LTD
952	U34300CH1986PTC006847	AMAR CASTINGS PVT. LTD.
953	U70101HP1986PTC006853	RAVIN BHARTI LAND DEVELOPMENT AND FINANCE PVT. LTD.
954	U70100CH1986PTC006867	MAYO ESTATES PVT LTD
955	U01211PB1986PTC006869	HIGHWAY POULTRY FARMS PVT LTD
956	U51432CH1986PTC006871	VIRK STONE QUARRY PVT LTD
957	U51497CH1986PTC006872	SARASWATI AGRO CHEM INDIA PVT LTD
958	U17290HP1986PTC006874	PARVEEN TEXTILES PVT LTD
959	U25200CH1986PTC006875	SUN WOOD LAMINATES PVT LTD
960	U55101HP1986PTC006876	MONAL RESORTS PVT LTD
961	U32109HP1986PTC006878	UNITED TOYS PVT LTD
962	U72200PB1986PTC006879	KOCHAR COMPUTERS PVT LTD
963	U26931HP1986PTC006891	K K BRICK TRADERS PVT LTD
964	U32109HP1986PTC006892	HIMACHAL ELECTRONIC DEVICES PVT LTD
965	U92490CH1986PTC006894	CHINTAMANI ENTERPRISES PVT LTD

966	U30007HP1986PLC006895	OTC KOGYO LTD
967	U24116PB1986PTC006906	S S ACIDS PVT LTD
968	U25110HP1986PTC006907	REGENT RUBBERS PVT LTD
969	U25209PB1986PTC006914	MAX POLY PIPES PVT LTD
970	U28939PB1986PTC006919	A B ALLOYS AND STEELS PVT LTD
971	U24120PB1986PTC006921	SS FERTILIZERS PVT LTD
972	U25209HP1986PTC006925	SHIVA CERAMICS PVT LTD
973	U72300CH1986PTC006926	DBS CONSULTANTS PVT LTD
974	U25209HP1986PTC006928	HIM THREE SQUARE PLASTICS PVT LTD
975	U60231PB1986PTC006930	HOLY CITY TRAVELS PVT LTD
976	U23201CH1986PTC006932	JAMNI ENERGY PRODUCTS PVT LTD
977	U15203HP1986PLC006937	HIMACHAL FOODS LIMITED
978	U17117CH1986PTC006939	MOHALI CARPETS PVT LTD
979	U25209HP1986PTC006942	ELEENA FASTENERS PVT LTD
980	U17117PB1986PTC006945	DASHMESH WOOLLEN MILLS PVT LTD
981	U20212HP1986PTC006947	HIM FLUSH BOARD PVT LTD
982	U27106CH1986PTC006954	AKAL GASES AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
983	U29244CH1986PTC006955	M.S. EARTHMOVING EQUIPMENTS PVT LTD
984	U45202CH1986PTC006956	KARRIS CONSTRUCTIONS INDIA PVT LTD
985	U24230PB1986PTC006958	RED ROSE PHARMACEUTICALS PVT LTD
986	U15132HP1986PTC006960	FAIR DEAL SPICES AND FOOD PRODUCTS PVT LTD
987	U55101PB1986PTC006963	SANDEEP HOTEL PVT LTD
988	U34300PB1986PTC006971	OM LINERS PVT LTD
989	U17116PB1986PTC006972	PUNJAB AERO TEX PVT LTD
990	U32109HP1986PTC006977	BANSAL ELECTRONICS PVT LTD
991	U51420PB1986PTC006980	SANDEEP FORGINGS PVT LTD
992	U29191CH1986PTC006981	HANSON COMMERCIAL PVT LTD
993	U25190PB1986PTC006990	BRARDVIC RUBBERS PVT LTD
994	U17117PB1986PTC006991	UNIQUE HOSIERY SERVICES PVT LTD
995	U52398HP1986PTC006993	ZOOM TOYS PVT LTD
996	U31901HP1986PTC006996	PRIS CHEMICALS PVT LTD
997	U15311PB1986PTC006998	ANIL ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
998	U21011PB1986PTC007001	PROGRESSIVE PAPER AND BOARD MILLS PVT LTD
999	U17299PB1986PTC007007	CLASSIC GARMENTS PVT LTD
1000	U50400HP1986PTC007007	HIM MICRO MOTORS PVT LTD
1001	U51222CH1986PTC007008	PUNJAB AGRO MILK SPECIALITES PVT LTD
1002	U24222PB1986PTC007010	BHOLA CARBIDES PVT LTD
1003	U25110PB1986PTC007012	SKY WAYS RUBBERS PVT LTD
1004	U51221PB1986PTC007013	KHANNA AGRO PVT LTD
1005	U15311CH1986PTC007018	CHAHAL FLOOR MILLS PVT LTD
1006	U51109CH1986PTC007019	GLOBE MARKETING PVT LTD
1007	U24230CH1986PTC007020	MAGUS PHARMACEUTICALS PVT LTD

1008	U24119PB1986PTC007022	KAMAL NITRO CELLULOSE PVT LTD
1009	U51311PB1986PTC007032	RATTAN JYOTI OVERSEAS PVT LTD
1010	U34300PB1986PTC007033	PAULSONS AUTO INDUSTRIES (PB) PVT LTD
1011	U26931PB1986PTC007035	SUKHIJA CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1012	U21021HP1986PTC007036	MONGA ASSOCIATES PVT. LTD.
1013	U15311PB1986PTC007038	SWASTIK ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1014	U51397HP1986PTC007040	ADVID DRUGS PVT LTD
1015	U60231PB1986PTC007042	ANGREJ BUS SERVICE PVT LTD
1016	U17115HP1986PTC007044	AJANTA THREAD COMPANY PVT LTD
1017	U51397HP1986PTC007046	ARISHAB LABORATORIES PVT LTD
1018	U24230PB1986PTC007049	DEEPSONS PHARMACEUTICALS PVT LTD
1019	U74140PB1986PTC007050	JAISINGH INDIA PVT LTD
1020	U51398PB1986PTC007051	A.R. IMPEX PVT LTD
1021	U32109PB1986PTC007056	SUKOON ELECTRONICS PVT LTD
1022	U60231pb1986ptc007059	TERKIANA TRANSPORT COMPANY PVT. LTD.
1023	U23109HP1986PTC007063	PRIME FUEL INDUSTRIES PVT LTD
1024	U26920PB1986PTC007064	SAMANA REFRACTORIES PVT LTD
1025	U27106PB1986PTC007066	S P SOBTI AND SONS PVT LTD
1026	U15143PB1986PLC007067	NEELAM VANASPATI MILLS LTD
1027	U15311CH1986PTC007068	SURESH ROLLER AND FLOUR MILLS PVT LTD
1028	U29210PB1986PTC007069	HEYMEN FORGINGS INDIA PVT LTD
1029	U60221PB1986PTC007070	WALIA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1030	U64200HP1986PLC007074	HINDUSTAN FAXCOM SYSTEMS LTD
1031	U25200CH1986PTC007077	HEMKUNT PLASTICS AND CHEMICALS PVT LTD
1032	U55101PB1986PTC007078	SANGRUR HOTELS PVT. LTD.
1033	U27106PB1986PTC007079	RAMSONS METALS PVT LTD
1034	U25209PB1986PTC007081	S S PULP PVT LTD
1035	U27106PB1986PTC007086	SAGI STEELS PVT LTD
1036	U19201HP1986PTC007087	JAGAN SHOES PVT LTD
1037	U60231PB1986PTC007088	TIWANA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1038	U92312CH1986PTC007091	TARZAN VIDEO CASSETTES PVT LTD
1039	U45203PB1986PTC007099	PRAGATI TOWERS PVT LTD
1040	U25202CH1986PTC007100	RHINO CONTAINERS PVT LTD
1041	U1909CCH1986PTC007101	HARJINDRA SALES PVT. LTD.
1042	U17116PB1986PTC007108	JAKO FABRICS PVT LTD
1043	U15311HP1986PTC007112	PRATAP FLOUR MILLS PVT LTD
1044	U27310CH1986PTC007117	J AND K MICRO ALLOYS AND CASTING PVT LTD
1045	U32304CH1986PTC007118	TELLYBELLS ELECTRONICS PVT LTD
1046	U15331PB1986PTC007120	CONTINENTAL AGRO MILLS PVT LTD
1047	U35921PB1986PTC007124	SATNAM CYCLES PVT LTD
1048	U17117PB1986PTC007125	WOOLRICH WOLLEN MILLS PVT LTD
1049	U24114PB1986PTC007126	GOINDWAL DYEING AND PRINTING MILLS PVT LTD

1050	U55101HP1986PTC007127	VASHISHT HOTEL PVT LTD
1051	U15311PB1986PTC007128	VISHAL CEREALS PVT LTD
1052	U72206CH1986PTC007134	CAPITAL COMPUTER FORMS PVT LTD
1053	U27203PB1986PTC007138	VIKAS WIRE PRODUCTS PVT LTD
1054	U17116PB1986PTC007140	MOHARTEX SILK MILLS PVT LTD
1055	U21021PB1986PLC007144	PUNJAB SACKS LTD
1056	U29191HP1986PTC007146	HIMACHAL SWITCHGEARS PVT LTD
1057	U55101HP1986PTC007149	KAPOOR PALACE PVT LTD
1058	U25202PB1986PTC007152	THAPAR PLASTICS PVT LTD
1059	U22121HP1986PTC007156	SAMACHAR PRAKASHAN PVT LTD
1060	U24230PB1986PTC007157	MATHARU ENGINEERING SERVICES PVT LTD
1061	U40200PB1986PTC007160	S B GASES PRIVATE LIMITED
1062	U34200PB1986PTC007161	KOHLISONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
1063	U01229PB1986PTC007162	HI HATCH PRIVATE LIMITED
1064	U15331PB1986PTC007163	PARMESHWARI FEED MILLS PVT LTD
1065	U15311PB1986PTC007164	ALIWAL ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED.
1066	U32100HP1986PTC007167	SHIVA TRANSFORMERS PVT LTD
1067	U19120PB1986PTC007176	GOLDEN LEATHERS PRIVATE LIMITED
1068	U24111HP1986PTC007177	GARG AIR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
1069	U24111PB1986PTC007188	PARVATI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
1070	U22110CH1986PTC007189	ABP DATA MEDIA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
1071	U15310PB1986PLC007190	VARDHMAN SNACK FOODS LIMITED
1072	U24111CH1986PTC007191	RANA POLYMERS PRIVATE LIMITED
1073	U17303HP1986PTC007192	SHIV SYNTHETICS PRIVATE LIMITED
1074	U15311PB1986PTC007196	SANT ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
1075	U17116CH1986PTC007198	ELITE SPINNERS PRIVATE LIMITED
1076	U74210CH1986PTC007200	GTB ENGINEERS PRIVATE LIMITED
1077	U15310CH1986PTC007201	TEG FOODS PRIVATE LIMITED
1078	U15310PB1986PTC007208	MARTIAN FOODS PRIVATE LIMITED
1079	U25111PB1986PTC007210	ASIAN TYRES PRIVATE LIMITED
1080	U21029HP1986PTC007215	STANDARD CONTAINERS PRIVATE LIMITED
1081	U27320PB1987PTC007222	GUPTA CON-CAST PVT LTD
1082	U74140CH1987PTC007223	LINKERS CLUB PVT LTD
1083	U85199CH1987PTC007224	MAINI HEALTH CARE PVT LTD
1084	U63040PB1987PTC007225	ANAND ROADWAYS PVT LTD
1085	U29309CH1987PTC007227	CHANDIGARH PRESTOLAM INDIA PVT LTD
1086	U45203CH1987PTC007232	EEE AND CEE CONSTRUCTION PVT LTD
1087	U23203CH1987PLC007234	DASHAHRI FUEL CO LTD
1088	U15314PB1987PTC007238	GOBIND ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1089	U55101PB1987PLC007241	PUSHKAR PESORTS LTD
1090	U55101CH1987PLC007243	PUNEET RESORTS LTD
1091	U15412PB1987PTC007244	ACME FOOD PRODUCTS PVT LTD

1092	U34300HP1987PTC007247	HIMACHAL AUTOMOBILE WORKS PVT LTD
1093	U28991HP1987PTC007248	S K FASTNERS PVT LTD
1094	U63040PB1987PTC007249	PARAMJIT BUS SERVICE PVT LTD
1095	U30007CH1987PTC007250	INDIA AUTOTECH PVT LTD
1096	U29299PB1987PTC007253	GARG REFRACTORIES PVT LTD
1097	U21029HP1987PTC007254	DEEPAK CONTAINERS PRIVTE LTD
1098	U17117PB1987PTC007256	G M WOOLLEN AND SILK MILLS PVT LTD
1099	U31300CH1987PTC007257	SHIVALIK PVC CABLES PVT LTD
1100	U29308CH1987PTC007266	MANGLA AGRO MILLS PVT LTD
1101	U63040PB1987PTC007269	NORTHERN FRIENDS TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1102	U63040PB1987PTC007270	NORTHERN TRAVELS TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1103	U92114PB1987PLC007271	JAGS SHARPEX PHOTO FILMS LTD
1104	U28939PB1987PTC007272	BHARTI LOCKS PVT LTD
1105	U27203PB1987PTC007279	NASEEB ALUMINIUM ROLLERS PVT LTD
1106	U28932PB1987PTC007284	SURYA FORGING PVT LTD
1107	U45209CH1987PTC007287	TALGRE CONSTRUCTIONS INDIA PVT LTD
1108	U51909CH1987PTC007289	STRONG LINKS PVT LIMITED
1109	U01229PB1987PTC007290	INTERCONTINENTAL DAIRY PRODUCTS PVT LTD
1110	U24232PB1987PTC007291	VORTEX PHARMACEUTICAL PVT LTD
1111	U63011PB1987PTC007295	EKTA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1112	U19201PB1987PLC007296	EXPO LEATHERS WARES LTD
1113	U19201PB1987PTC007297	EXPO LEATHERS LTD
1114	U18201PB1987PTC007308	STAR DYEING AND FINISHING MILLS PVT LTD
1115	U85199PB1987PTC007316	KAMLA OPTICS PVT LTD
1116	U25199PB1987PTC007319	AMBICA RUBBER AND SYNTHETIC MILLS PVT LTD
1117	U31101PB1987PTC007320	ENAM ENERGY DEVICES PVT LTD
1118	U19129CH1987PLC007322	KAMS LEATHERWARE LIMITED
1119	U15311HP1987PTC007323	RAJSONS ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1120	U63040PB1987PTC007328	SARONWALIA BUS SERVICE PVT LTD
1121	U24232PB1987PTC007329	MARTIN DALE MEDICARE PVT LTD
1122	U24132PB1987PTC007332	ALLIANCE RESINS AND CHEMICALS PVT LTD
1123	U31402PB1987PTC007334	ROHINI SYNTHETICS PVT LTD
1124	U63011CH1987PTC007338	DHILLON EX-SERVICEMAN CARRIERS PVT LTD
1125	U15203PB1987PTC007339	NANAK MILKFOOD (INDIA) PVT LTD
1126	U33111HP1987PTC007344	P K GRAPHICS PVT LTD
1127	U30007HP1987PLC007351	SHIVA MAGNETICS LTD
1128	U28939PB1987PTC007359	R.K.DEVICES PVT LTD
1129	U25202PB1987PTC007362	AMRIT CONTAINERS AND MOULDERS PVT. LTD.
1130	U55101HP1987PTC007363	BROADWAY RESORTS PVT LTD
1131	U20219PB1987PTC007364	SANJWAL PLYWOOD PVT LTD
1132	U34300PB1987PTC007367	J.S.B.BEARINGS PVT LTD
1133	U31909PB1987PTC007369	MALWA ELECTROKRAFTS PVT LTD

1134	U17119CH1987PTC007371	R P K SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
1135	U20219HP1987PTC007375	MANKOO PLY BOARDS PVT LTD
1136	U27310PB1987PTC007378	SINGHSONS MECHANICAL PRODUCTS PVT LTD
1137	U31504PB1987PTC007381	JAY JAY APPLIANCES PVT LTD
1138	U51909CH1987PTC007386	TRIPLE KAY AGENCIES PVT LTD
1139	U16009PB1987PTC007391	GULMARG TOBACCO PRODUCTS PVT LTD
1140	U32109PB1987PTC007400	BEN ELECTRONICS PVT LTD
1141	U18201PB1987PTC007401	JIN-SIN YARNS PVT LTD
1142	U28991HP1987PTC007410	ANISAN FASTENERS PVT LTD
1143	U30007HP1987PTC007412	BLSND COMPUTERS PVT LTD
1144	U32105HP1987PTC007413	KRISHNA DEVICES PVT LTD
1145	U15143PB1987PTC007414	MOTHERS ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1146	U55101HP1987PTC007419	RISHI RESORTS PVT LTD
1147	U72200HP1987PLC007420	MEMORY SOFTWARE LIMITED
1148	U55101HP1987PTC007422	DUSKY MAIDEN RESORTS PVT LTD
1149	U25202PB1987PTC007425	JAY JAY PRODUCTS PVT LTD
1150	U31300HP1987PTC007429	GLOBE CABLES AND CONDUCTORS PVT LTD
1151	U36991PB1987PTC007431	MADHRA CARBONS AND RIBBONS PVT LTD
1152	U17114HP1987PTC007432	KALA HANDLOOM PVT LTD
1153	U74101CH1987PTC007434	PROFESSIONAL BUILDERS PVT LTD
1154	U25209HP1987PTC007439	P S MOULD PLAST PVT LTD
1155	U15311HP1987PTC007440	KESRI ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1156	U31300HP1987PTC007449	SHREE DURGE CABLES AND WIRES PVT LTD
1157	U70101CH1987PTC007451	SWASTIK ESTATES PVT LTD
1158	U27107PB1987PTC007454	RAJA VALVES PVT LTD
1159	U15311PB1987PTC007459	MANMOHAN ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1160	U92321PB1987PTC007462	MICKY MOUSE SPORTS PVT LTD
1161	U51909HP1987PTC007463	WELL CUT SALES PVT LTD
1162	U18201PB1987PTC007465	KARTAR PROCESSORS PVT LTD
1163	U63040PB1987PTC007467	AMBALA ROAD TRANSPORT CO PVT LTD
1164	U15499CH1987PTC007472	NEPTUNE SEA FOODS PVT LTD
1165	U33203CH1987PTC007473	NEVEDAC AND COMPANY PVT. LTD
1166	U14292CH1987PTC007476	KOTI KHANIJ PVT LTD
1167	U14292CH1987PTC007477	KOTI ENTERPRISES PVT LTD
1168	U55101CH1987PTC007479	DHILLON RESORTS PVT LTD
1169	U15332CH1987PTC007480	DHILLON AGRO MAILLS PVT LTD
1170	U51909PB1987PTC007482	TONY EXPORTS PVT LTD
1171	U27101PB1987PTC007483	VEDA STEELS PVT LTD
1172	U25191PB1987PTC007486	GOVIND PRATAP PIPE PRODUCTS PVT LTD
1173	U36999CH1987PTC007489	MOND ABRASIVES PVT LTD
1174	U55101HP1987PTC007501	SHIVANI TOURIST HOTEL PVT LTD
1175	U24299CH1987PLC007502	PUNJAB NITRATES LTD

1176	U25209CH1987PLC007503	C.LARION FILMS LTD
1177	U33111CH1987PTC007504	CLARION MAGNAMED PVT LTD
1178	U29120PB1987PTC007505	STAR VALVES PVT LTD
1179	U17297PB1987PTC007507	GURU NANAK TEXTILE PROCESSORS PVT LTD
1180	U72200CH1987PTC007510	HI TECH DATA LINKS PVT LTD
1181	U45203PB1987PTC007511	GOBIND CONSTRUCTION COMANY PVT LTD
1182	U32109PB1987PTC007513	CHAND RADIO PVT LTD
1183	U17301PB1987PTC007514	ROLAND KNITWEAR PVT LTD
1184	U24231CH1987PTC007518	JAINSON ACIDS PVT LTD
1185	U24304PB1987PTC007519	PREM LAMINATES PVT LTD
1186	U29306PB1987PTC007520	AURORA MARKETING PVT LIMITED
1187	U24294PB1987PTC007521	GILL SONS PRINTING COMPANY PVT.LTD
1188	U25209HP1987PTC007528	LAKSHMI MULTILAYER FILM PVT LTD
1189	U27202HP1987PTC007530	SHEETAL BRASS PVT LTD
1190	U24239CH1987PTC007532	SANCHO PHARMACEUTICALS PVT LTD
1191	U45203CH1987PTC007538	MAJESTIC ENGINEERS AND DEVELOPERS PVT LTD
1192	U55101PB1987PTC007541	HILSTONE HOTEL PVT LTD
1193	U27109HP1987PTC007545	DHANJAL STEELS PVT LTD
1194	U15311PB1987PTC007547	SUNDER FLOUR AND GENERAL MILLS PVT LTD
1195	U55101PB1987PTC007554	JHANKAR HOTELS PVT LTD
1196	U15312PB1987PTC007555	GARHSHANKAR RICE MILLS PVT LTD
1197	U45203PB1987PTC007556	R R CONTRACTORS PVT LTD
1198	U45202PB1987PTC007561	MODERN PLANNERS PVT LTD
1199	U24222PB1987PLC007564	TINOVA COATERS LTD
1200	U28939HP1987PTC007567	SOMBAL WIRES PVT LTD
1201	U51395CH1987PTC007568	JAI KITCHENETTES APPLIANCES PVT LTD
1202	U45209CH1987PTC007569	KOYAL AND KUKU BUILDERS PVT LTD
1203	U28991PB1987PLC007570	PUNJAB COIL SPRINGS LTD
1204	U22222PB1987PTC007576	CANSCO PRINTS PVT LTD
1205	U27107PB1987PTC007578	PIONEER BIMETAL PRODUCTS PVT LTD
1206	U51109PB1987PTC007581	K.N. EXPORT PVT LTD
1207	U74140PB1987PTC007583	ANKUS MANAGEMENT AND COMPUTER SERVICES PVT LTD
1208	U60221PB1987PTC007585	GILL PANO BUS SERVICE PVT LTD
1209	U35911PB1987PTC007586	JYOTI CYCLES PVT LTD
1210	U60221PB1987PTC007588	MANDEEP BUS SERVICE PVT LTD
1211	U15311PB1987PTC007594	VISHNU ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1212	U21012PB1987PTC007598	JALANDHAR PUBLICATIONS PVT LTD
1213	U17309HP1987PTC007599	SIMLA TEXTILES PVT LTD
1214	U28939PB1987PTC007600	PARCO ENGINEERING TOOLS PVT LTD
1215	U26931PB1987PTC007604	HORIZON BRICKS PVT LTD
1216	U21014HP1987PTC007605	PEE ESS CONTAINERS PVT LTD
1217	U17111CH1987PTC007606	ALLIANCE WOOLLEN MILLS PVT LTD

1218	U52331HP1987PTC007610	HIMACHAL TRAYS PVT LTD
1219	U25209CH1987PTC007611	A S STEEL TUBES PVT LTD
1220	U45202HP1987PTC007613	AJAY CONTAINERS PVT LTD
1221	U25209CH1987PTC007616	GALLANT PLASTIC INDUSTRIES PVT LTD
1222	U25199CH1987PTC007621	CHENAB RUBBER PVT LTD
1223	U60221CH1987PTC007624	MAND ROADWAYS PVT LTD
1224	U28991HP1987PTC007625	SHEENU STEELS PVT LTD
1225	U51909PB1987PTC007628	PAWAR EXPORTS PVT LTD
1226	U27109PB1987PTC007639	RARE METALS PVT LTD
1227	U19129PB1987PTC007640	POWER PLASTICS AND CHEMICALS PVT LTD
1228	U74210CH1987PTC007642	AVR ENGINEERING PVT LTD
1229	U19129PB1987PTC007646	CAM EXPORTS PVT LTD
1230	U17111HP1987PTC007651	HIMACHAL WEAVERS PVT LTD
1231	U23201CH1987PTC007656	SUKHCHAIN GASES PVT LTD
1232	U29298HP1987PTC007657	HIMACHAL AMPOULEX PVT LTD
1233	U51109CH1987PTC007661	ULTRA TRADE LINKS PVT LTD
1234	U29298CH1987PTC007662	HIM FUELS PVT LTD
1235	U60221PB1987PTC007664	BALJIT TRANSPORT CO PVT LTD
1236	U45202CH1987PTC007666	CHANKYA BUILDERS PVT LTD
1237	U27109CH1987PTC007667	CHANKYA STEELS PVT LTD
1238	U25209PB1987PTC007669	PUN PLAST INDUSTRIES PVT LTD
1239	U85110CH1987PTC007670	DOON VALLEY MEDICAL INSTITUTE PVT LTD
1240	U15432HP1987PTC007671	MOUNT FOODS PVT LTD
1241	U51109HP1976PLC007672	KEWAL SOLVENT LTD
1242	U24122HP1987PTC007675	STERLING PLASTICISERS PVT LTD
1243	U72100PB1987PTC007677	ANAND COMPUTERS AND TELETRONICS PVT LTD
1244	U24239PB1987PTC007681	AMANJYOTI DRUGS AND CHEMICALS PVT LTD
1245	U26933HP1987PTC007685	VISHEVKARMA TILES PVT LTD
1246	U52339PB1987PTC007687	OBLAS WATER FILTERS PVT LTD
1247	U28939PB1987PTC007690	MARSHAL ENGINEERING PVT LTD
1248	U28939PB1987PTC007691	WALIA TOOLS AND FORGINGS PVT LTD
1249	U27203HP1987PTC007693	TRINITY METALS PVT LTD
1250	U32301PB1987PTC007694	SANORA ELECTRONICS PVT LTD
1251	U24239HP1987PTC007700	ANI CHEM DRUGS PVT LTD
1252	U31506PB1987PTC007701	LUXMI TELE TRONICS PVT LTD
1253	U27109HP1987PTC007708	KAWALJIT STEEL UDYOG PVT LTD
1254	U23201HP1987PTC007709	ANIL GASES PVT LTD
1255	U25209PB1987PTC007722	SURINDRA PIPES PVT LTD
1256	U25209CH1987PTC007723	PUNIA PLAST PVT LTD
1257	U28139PB1987PTC007724	LANDRA ENGINEERING WORKS PVT LTD
1258	U15311HP1987PTC007726	TRIMURTI ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1259	U29199PB1987PTC007728	KATHURIA ENGINEERS PVT LTD

1260	U25199PB1987PTC007729	DELTA GREAVES ACCU MAX INDIA PVT LTD
1261	U27104CH1987PTC007739	SHRI DEVA ELECTRODES PVT LTD
1262	U15419HP1987PTC007746	MATRI BAKERS AND CONECTIONERS PVT LTD
1263	U21012HP1987PTC007747	NEERU PAPER AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
1264	U24241PB1987PTC007749	CAMMY SOAP INDUSTRIES PVT LTD
1265	U25112PB1987PTC007750	BEDI RUBBER FACTORY PVT LTD
1266	U24119HP1987PTC007752	RITE AND RENWELL FABRICS PVT LTD
1267	U15143PB1987PTC007755	ASHOKA VANASPATI PVT LTD
1268	U51109PB1987PTC007756	DASHMESH PLYWOOD BOARD PVT LTD
1269	U21019PB1987PTC007757	GARG PLYFIX INDIA PVT LTD
1270	U55101HP1987PTC007760	SHILZA HOTELIERS PVT LTD
1271	U15532CH1987PTC007761	HIM CIDER PVT LTD
1272	U23201HP1987PTC007762	SWASTIK GASES PVT LTD
1273	U27109PB1987PTC007763	CHAMANDA STEEL TUBES PVT LTD
1274	U45202PB1987PTC007765	NARULA CONSTRUCTIONS PVT LTD
1275	U32203PB1987PTC007777	GREAT KING TELEVISIONS PVT LTD
1276	U55101HP1987PTC007778	BEAS SPRING RESORTS PVT LTD
1277	U29214PB1987PTC007785	G G STEELSPVT LTD
1278	U01222HP1987PTC007789	KARTIKYA PROCESSED FOODS PVT LTD
1279	U55101HP1987PTC007799	ASTHA HOTELS PVT LTD
1280	U24222CH1987PTC007800	GOINDWAL ELECTRO-KRAFT INDIA PVT LTD
1281	U17123HP1987PTC007802	HEERA WOOLLEN MILLS PVT LTD
1282	U55109PB1987PTC007805	KAISER SALES PVT LTD
1283	U21012HP1987PTC007806	MOUNT PAPER MILLS PVT LTD
1284	U60210PB1987PTC007810	SARBJOT TOURIST HIGHWAYS TRANSPORT COMPNAY PVT LTD
1285	U32109PB1987PTC007814	HEMKUNT ELECTRONICS PVT LTD
1286	U15311HP1987PTC007817	MOHAN ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1287	U21012CH1987PTC007818	G D R. KRAFTS PVT LTD
1288	U60221PB1987PTC007821	AVTAR TRANSPORT PVT LTD
1289	U60221PB1987PTC007822	SHAAN TRANSPORT CO PVT LTD
1290	U24199HP1987PTC007823	HIM FERRIC ALUM PVT LTD
1291	U31300PB1987PTC007828	BRAR ELECTRO CONDUCTORS PVT LTD
1292	U21029PB1987PTC007829	SACHKHAND PACKWELL PVT LTD
1293	U72200CH1987PTC007833	HOWRAH ALL PRINT PVT LTD
1294	U27107HP1987PLC007835	KAMLA TUBES LTD
1295	U74994CH1987PTC007837	HMV TRANSFIGURATIONS PVT LTD
1296	U17111PB1987PTC007838	MALIK TEXTILES PVT LTD
1297	U24119HP1987PTC007840	BLISS CHEMICALS PVT LTD
1298	U25209PB1987PTC007842	CLASSIC PACKAGES PVT LTD
1299	U28939PB1987PTC007843	RELIANCE CRANES PVT LTD
1300	U55101CH1987PTC007844	HADIMBA RESORTS AND HOTELS PVT LTD
1301	U25199PB1987PTC007852	ATMA TYRES PVT LTD

1302	U17111CH1987PTC007853	BALAJI SYNTHETICS PVT LTD
1303	U17111HP1987PTC007854	BADDI DYEING PVT LTD
1304	U28939HP1987PTC007855	HIM SPRING CIRCLE PVT LTD
1305	U60221PB1987PTC007856	DAWN TRANSPORT PVT LTD
1306	U15203PB1987PTC007857	BLUE CIRCLE AGRO PVT LTD
1307	U23201CH1987PTC007859	POTENTIAL FUEL PVT LTD
1308	U24239PB1987PTC007862	ORSAN LABORATORIES PVT LTD
1309	U15142PB1987PTC007863	J.K. VANASPATI UDYOG PVT LTD
1310	U72100PB1987PTC007867	AXIST COMPUTERS INDIA PVT LTD
1311	U25206CH1987PTC007868	KANISHKA PLASTICS PVT LTD
1312	U22122CH1987PTC007869	VAIMIKI PUBLISHING PVT LTD
1313	U27310CH1987PTC007872	INDO PVC PRODUCTS PVT LTD
1314	U19129CH1987PTC007876	RAYUM LEATHER PVT LTD
1315	U19201PB1987PTC007877	PUNNU FOOTWEAR PVT LTD
1316	U17111PB1987PTC007882	A K YARN INDUSTRIES PVT LTD
1317	U31300PB1987PTC007883	S.P. ELECTRICALS PVT LTD
1318	U15433PB1988PLC007887	SANDY SWEET CHAMBER LTD
1319	U24291HP1988PTC007888	OM MATCH INDUSTRIES PVT LTD
1320	U31909PB1988PTC007892	SOHAM ELECTRODES PVT LTD
1321	U34103PB1988PTC007893	ASSOCIATED TECHNOCARTS PVT LTD
1322	U29298HP1988PTC007898	R K GLASSES PVT LTD
1323	U15520PB1988PTC007901	RED ROSE TRADERS PVT LTD
1324	U40105CH1988PTC007902	DEE KAY GEARINGS AND POWER TRANSMISSION PVT LTD
1325	U27105PB1988PTC007903	SUPREME PIPES PVT LTD
1326	U51432PB1988PTC007905	BAWA POLYMERS PVT LTD
1327	U55101HP1988PTC007906	SANJAY RESORTS PVT LTD
1328	U28932PB1988PTC007910	ANKUR AUTOS PVT LTD
1329	U31909HP1988PTC007914	GOLD FLAME HEATERS PVT LTD
1330	U60120PB1988PTC007917	ANAND HIGHWAYS PVT LTD
1331	U92113HP1988PTC007918	SHIVALIK VIDEO COMMUNICATIONS LTD
1332	U27202PB1988PTC007920	SONA CONDUSTORS PVT LTD
1333	U15203PB1988PTC007922	AMRIT MILK SUPPLY COMPANY PVT LTD
1334	U27310PB1988PTC007924	BABU STEELS PVT LTD
1335	U27107PB1988PTC007936	RAMA PIPES PVT LTD
1336	U70200PB1988PTC007942	GURBANI DHARMSALA DURGAPUR PROPERTIES PVT LTD
1337	U27106HP1988PTC007944	SHIVALIK ROLLINGS PVT LTD
1338	U24233PB1988PTC007957	ADVANCE INNOVATORS PVT LTD
1339	U27109PB1988PTC007960	DECENT STEELS PVT LTD
1340	U19201PB1988PTC007963	JAURA FOOTWEARS PVT LTD
1341	U63040HP1988PTC007965	MANCHANDA HOLIDAY EXPERINENCES PVT LTD
1342	U22190PB1988PTC007972	AMRITSAR PAGESSETTERS PVT LTD
1343	U22190PB1988PTC007973	AMBALA GRAPHICS PVT LTD

1344	U22190PB1988PTC007974	AMBALA PAGESETTERS PVT LTD
1345	U63040CH1988PTC007975	GURDARSHAN TRAVELS PVT LTD
1346	U21015CH1988PTC007976	MODERN BOARDS PVT LTD
1347	U22190PB1988PTC007977	AMBALA PRESS PVT LTD
1348	U22190PB1988PTC007978	LUDHIANA GRAPHICS PVT LTD
1349	U22190PB1988PTC007979	KHANNA GRAPHICS PVT LTD
1350	U22190PB1988PTC007980	AMRITSAR TYPESETTERS PVT LTD
1351	U22219PB1988PTC007984	KHANNA LASERSETTERS PVT LTD
1352	U22190PB1988PTC007985	KHANNA TYPESETTERS PVT LTD
1353	U22190PB1988PTC007988	CHANDIGARH TYPESETTERS PVT LTD
1354	U22190PB1988PTC007993	AMBALA TYPESETTERS PVT LTD
1355	U45202PB1988PTC007994	AMBALA LASERSETTS PRIVATE LIMITED
1356	U22190PB1988PTC007995	KHANNA PAGESETTERS PVT LTD
1357	U22190PB1988PTC007996	AMRITSAR GRAPHICS PVT LTD
1358	U15310PB1988PTC007997	SWASTHIA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1359	U15311CH1988PTC008000	GOPI FLOUR MILL PVT LTD
1360	U22190PB1988PTC008001	ABOHAR PRINTERS PVT LTD
1361	U22190PB1988PTC008004	LUDHIANA PRINTERS PVT LTD
1362	U22190PB1988PTC008005	LUDHIANA PRESS PVT LTD
1363	U22190PB1988PTC008006	KHANNA PRESS PVT LTD
1364	U22190PB1988PTC008007	SIMLA PAPER PUBLISHING PVT LTD
1365	U22190PB1988PTC008008	PATIALA PAGESETTERS PVT LTD
1366	U22190PB1988PTC008011	AMBALA PRINTERS PVT LTD
1367	U22190PB1988PTC008012	RAJPURA TYPESETTERS PVT LTD
1368	U22190PB1988PTC008014	TRIPUTI PAGESETTERS PVT LTD
1369	U22190PB1988PTC008015	PHAGWARA PHOTASET GRAPHICS PVT LTD
1370	U29212HP1988PTC008016	G K COMBINE PVT LTD
1371	U24117HP1988PTC008017	MOUNT PETRO PRODUCTS PVT LTD
1372	U22190PB1988PTC008018	LUDHIANA PUBLISHING PVT LTD
1373	U22190PB1988PTC008019	AMBALA PUBLISHING PVT LTD
1374	U25209CH1988PTC008034	KANGROO LIQUID PLASTICS PVT LTD
1375	U15203PB1988PTC008036	BAKERS FOODS PVT LTD
1376	U51399PB1988PTC008041	MEGHA SALES PVT LTD
1377	U22190PB1988PTC008044	RAJPURA PAGESETTERS PVT LTD
1378	U51225PB1988PTC008046	SHREE RAMA OILS PVT LTD
1379	U15203HP1988PTC008053	PAPPI OIL MILLS PVT LTD
1380	U24232PB1988PTC008056	VELOCE PHARMACEUTICALS PVT LTD
1381	U24230PB1988PTC008059	PEE KAY CHEMICALS PVT LTD
1382	U45309CH1988PTC008060	COMPLETE INSULATIONS PVT LTD
1383	U28932PB1988PTC008064	YOSHIDA TRADING PVT LTD
1384	U25202PB1988PTC008066	PREET PACK PVT LTD
1385	U70101CH1988PTC008075	ARROW IMPEX PVT LTD

1386	U55101CH1988PTC008081	RAJHANS RESORTS PVT LTD
1387	U15310PB1988PTC008082	CHAMKAUR OIL MILLS PVT LTD
1388	U15312HP1988PTC008084	ASHA ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1389	U26941PB1988PTC008085	GOPI CHAND PREM KUMAR CEMENT PVT LTD
1390	U27109PB1988PTC008091	TECHNO WIRE PRODUCTS PVT LTD
1391	U15203CH1988PTC008094	SUKHMANI DAIRIES PVT LTD
1392	U70109PB1988PTC008097	SMT ESTATES PVT LTD
1393	U28932PB1988PTC008098	MOHALI METAL FINISHERS PVT LTD
1394	U19201CH1988PTC008099	JAPSON RUBBERS PVT LTD
1395	U35923PB1988PTC008101	K.P.FASTENERS PVT LTD
1396	U15332CH1988PTC008102	DURGA OIL AND FEEDS PVT LTD
1397	U01200pb1988ptc008103	S.S.POULTRY FARMS PVT LTD
1398	U27109HP1988PTC008105	SUDARSHANA WIRES INDUSTRIES PVT LTD
1399	U51497PB1988PTC008111	INDIRA TRADING PVT LTD
1400	U17290PB1988PTC008112	BISHAN SINGH GILL COTTON FACTORY PVT LTD
1401	U17220CH1988PTC008116	FARAWAY IMPRESSIONS PVT LTD
1402	U30007PB1988PTC008117	COMPUTER CAMPUS INDIA PVT LTD
1403	U55101HP1988PTC008118	INDAR RESORTS PVT LTD
1404	U27109HP1988PTC008119	SUMITRA CHEMICALS PVT LTD
1405	U25202HP1988PTC008121	BEMRO PACKAGES PVT LTD
1406	U74140PB1988PTC008124	P.A.R CONSULTANTS PVT LTD
1407	U60232PB1988PTC008130	DEEPAK BUS SERVICE PVT LTD
1408	U15142PB1988PTC008131	GANGA BLSHAN SHUBH KARAN AND CO PVT LTD
1409	U63022PB1988PTC008133	MOHINDRA COLD STORAGE PVT LTD
1410	U28939PB1988PTC008134	SUPERTUF GLASS CO PVT LTD
1411	U24239HP1988PTC008139	J.K.PHARMACEUTICALS PVT LTD
1412	U28939PB1988PTC008147	M.B.FASTNERS PVT LTD
1413	U01210CH1988PTC008148	VEENA POULTRY FARMS PVT LTD
1414	U28939PB1988PTC008149	UNITED FASTENERS PVT LTD
1415	U28939PB1988PTC008150	U.K.MACHINE TOOLS PVT LTD
1416	U51399PB1988PTC008153	PAWAN SALES PVT LTD
1417	U28932PB1988PTC008157	PRINCE METALS PVT LTD
1418	U40200PB1988PTC008160	G R A INDUSTRIAL GASES PVT LTD
1419	U55101HP1988PTC008162	ARUN SAMEER ASSOCIATES PVT LTD
1420	U24297PB1988PTC008163	MAGNI CHEM INDUSTRIES PVT LTD
1421	U15312PB1988PTC008167	UNITED DAL MILLS PVT LTD
1422	U51433CH1988PTC008175	ASTER ENGINEERING PRODUCTS PVT LTD
1423	U17117PB1988PTC008176	RAM SAROOP AGGARWAL TEXTILES PVT LTD
1424	U29261PB1988PTC008178	PREET SPINNING AND DYEING MILLS PVT LTD
1425	U28932PB1988PTC008184	AMAR (INDIA) TOOLS MANUFACTURING CO PVT LTD
1426	U15311CH1988PTC008186	RAJU SPICES PVT LTD
1427	U27203PB1988PTC008189	JYOTI CABLES PVT LTD

1428	U25202CH1988PTC008191	APEX PACKERS PVT LTD
1429	U22219CH1988PTC008194	ASSOCIATED GRAPHICS PVT LTD
1430	U29220PB1988PTC008196	JAINSONS SALES PVT LTD
1431	U28999PB1988PTC008200	RAM PARKASH CHOPRA TUBES PVT LTD
1432	U60231HP1988PTC008201	ASA SINGH PRITAM SINGH TRANSPORTERS PVT LTD
1433	U52110CH1988PTC008209	EMM ELL DEPARTMENTAL STORES PVT LTD
1434	U21029PB1988PTC008211	TULISON CONTAINERS PVT LTD
1435	U99999PB1988PTC008222	PERFECT WHEEL AND AUTO TRADERS PVT LTD
1436	U51397PB1988PTC008230	NANDA MEDICINE CENTRE PVT LTD
1437	U51909CH1988PTC008235	SWAN OVERSEAS PVT LTD
1438	U24111PB1988PTC008236	MAHESHWARY INDUSTRIAL GASES PVT LTD
1439	U51909PB1988PTC008237	S K MARKETING AND SERVICES PVT LTD
1440	U15499CH1988PTC008244	PARMA FOOD PRODUCTS PVT LTD
1441	U25209HP1988PLC008251	NORTH PET PACKS LTD
1442	U34300PB1988PTC008256	WHEEL S WORLD AUTO PVT LTD
1443	U51909CH1988PTC008258	MANOR AGENCIES PVT LTD
1444	U17115CH1988PTC008260	R R TEXTILES PVT LTD
1445	U15419CH1988PTC008263	MOHIT CONFECTIONERY PVT LTD
1446	U18101PB1988PTC008264	BEDI KNIT WEARS PVT LTD
1447	U32109CH1988PTC008272	KANISHKA ELECTRONICS PVT LTD
1448	U27106CH1988PTC008274	AZAD STEELS PVT LTD
1449	U51909CH1988PTC008279	PAMA AGENCIES PVT LTD
1450	U18101PB1988PTC008288	DECORA FABRICS PVT LTD
1451	U35921PB1988PTC008289	AAR AAR CYCLES PVT LTD
1452	U17117PB1988PTC008293	R K DYEING AND FINISHING MILLS PVT LTD
1453	U74999PB1988PTC008294	CHALLENGE CINE SERVICES PVT LTD
1454	U51909PB1988PTC008296	M R IMPEX OVERSEAS PVT LTD
1455	U29309CH1988PTC008299	JYOTI APPLIANCES PVT LTD
1456	U28910PB1988PTC008300	CHEVRON FORGINGS PVT LTD
1457	U24231HP1988PTC008306	MOUNT CHEMICALS PVT LTD
1458	U15549PB1988PTC008307	PEE BEE OILS PVT LTD
1459	U51109CH1988PTC008308	SARATA COMMERCIALS PVT LTD
1460	U24231hp1988ptc008312	LEO REMEDIES (INDIA) PVT LTD
1461	U24231HP1988PTC008315	JATINDRA METALS PVT LTD
1462	U28939PB1988PTC008318	DIY TOOLS AND CASTINGS PVT LTD
1463	U29113PB1988PTC008323	VICTORIA AUTO PVT LTD
1464	U17115PB1988PTC008324	NAYAR SPINNING PVT LTD
1465	U15312PB1988PTC008325	SHRI MANGALAM RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD
1466	U51909CH1988PTC008330	YOUNG MARKETING GROUP PVT LTD
1467	U99999CH1988PTC008332	TEG EXPORTS PVT LTD
1468	U15419HP1988PTC008340	GOEL ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
1469	U15495PB1988PTC008341	SHRI VENKTESH SALT AND SPICES PVT LTD

1470	U70101PB1988PTC008342	KHANGURA ESTATE PVT LTD
1471	U15312PB1988PTC008347	BHANDAL RICE AND GENERAL TRADING COMPANY PVT LTD
1472	U24232CH1988PTC008354	ETHICOMB PHARMACEUTICALS PVT LTD
1473	U32301CH1988PTC008357	S ELECTROVISION PVT LTD
1474	U27106CH1988PTC008364	JASSI STEELS PVT LTD
1475	U60221PB1988PTC008369	NIRBHAI TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1476	U1017HP1988PTC008376	HIM COMPUTERS AIDS PVT LTD
1477	U99999CH1988PTC008378	HARYANA PROPERTIES PVT LTD
1478	U31909PB1988PTC008381	UNIQUE URJA SYSTEMS PVT LTD
1479	U20219PB1988PTC008383	V K GLASS AND PLYWOOD COMPANY PVT LTD
1480	U74210CH1988PTC008386	TANDY DATA ENGINEERS PVT LTD
1481	U24241PB1988PTC008396	DEEP AGRO PVT LTD
1482	U15520PB1988PLC008398	NEELAM DISTILLERIES LTD.
1483	U19116PB1988PTC008400	UNIWALK LEATHER PVT LTD
1484	U19201PB1988PTC008402	UNIWALK FOOTWEARS PVT LTD
1485	U19116PB1988PTC008403	UNIWALK SKINS PVT LTD
1486	U19113PB1988PTC008404	UNIWALK TANNERIES PVT LTD
1487	U72200HP1988PTC008405	KOSAR TECHNOLOGIES PVT LTD
1488	U99999CH1988PLC008414	NEW LIFE FORESTS (INDIA) LTD
1489	U24232CH1988PTC008415	ESKAY MEDIX PVT LTD
1490	U74940CH1988PTC008417	PACIFIC PHOTO WORKE PVT LTD
1491	U24241HP1988PTC008421	PANDIT SOAP MILLS PVT LTD
1492	U25199PB1988PTC008423	AVNEET RUBBER INDIA PVT LTD
1493	U45201PB1988PTC008426	AXIS CONSTRUCTION PVT LTD
1494	U55201HP1988PTC008427	ANAND HOLIDAY RESORTS PVT LTD
1495	U52190PB1988PTC008435	N R MARKETING PVT LTD
1496	U51909PB1988PTC008437	VIJAY SALES PVT LTD
1497	U32109PB1988PTC008438	J C D SYSTEMS PVT LTD
1498	U74210CH1988PTC008439	KARTAR ENGINEERING WORKS PVT LTD
1499	U51929CH1988PTC008445	UNIWALK EXPORTS PVT LTD
1500	U99999PB1988PTC008447	SURBHI AGRO MILLS PVT LTD
1501	U60221PB1988PTC008450	KHAIRA BUS AND TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1502	U15312PB1988PTC008456	J K RICE ENTERPRISES PVT LTD
1503	U60231PB1988PTC008457	NOBEL CARGO CARRIERS PVT LTD
1504	U45201CH1988PTC008459	A R CONSTRUCTION PVT LTD
1505	U10012CH1988PTC008463	ELMEC TECHNOCRATS PVT LTD
1506	U24290HP1988PTC008465	A S V DETERGENTS AND CHEMICALS PVT LTD
1507	U29269PB1988PTC008466	MALWA MACHINERY PVT LTD
1508	U24111CH1988PTC008467	HEMKUNT OXYGEN PVT LTD
1509	U27106PB1988PTC008469	WADHWA STEEL INDUSTRIES PVT LTD
1510	U32109HP1988PTC008472	UNIQUE TIME-TECH PVT LTD
1511	U15143PB1988PTC008474	R K EDIBLES PVT LTD

1512	U74210CH1988PTC008475	G.TECHNO ENGINEERING CO PVT LTD
1513	U25199PB1988PTC008476	SATELLITE RUBBERS PVT LTD
1514	U74999PB1988PTC008478	WINNER GASKET ASSOCIATES PVT LTD
1515	U15499PB1988PTC008479	LUCKY FOODS PVT LTD
1516	U24290HP1988PTC008493	HIMACHAL PRADESH BIOLOGICALS PVT LTD
1517	U74910CH1988PLC008494	K T EMPLOYMENT PROMOTERS AND CONSULTANTS LTD
1518	U27203hp1988ptc008495	USHA SLITTING PVT LTD
1519	U72200PB1988PTC008496	V.P. VIJH AND COMPANY (COMPUTER DIVISION) PVT LTD
1520	U18101PB1988PTC008499	JAISON FABRICS PVT LTD
1521	U15520HP1988PTC008501	BINDAL TREHAN WINES PVT LTD
1522	U26103PB1988PTC008502	AMAR NIRBHAI GLASS INDUSTRIES PVT LTD
1523	U24129PB1988PTC008503	KISSAN VIKAS COMPANY PVT LTD
1524	U15311PB1988PTC008511	JAGDAMBE RICE AND GENRAL MILLS PVT LTD
1525	U29150HP1988PTC008525	G.M.S.TOOLS PVT LTD
1526	U32101PB1988PTC008529	ONYX ELECTRONICS PVT LTD
1527	U24129HP1988PTC008531	DU PAAL AGRITECH PVT LTD
1528	U55101HP1988PTC008537	AMRITANJALI HOTELS PVT LTD
1529	U15146PB1988PTC008538	ALLIED BAKERS PRIVATE LIMITED
1530	U17225PB1988PTC008539	NORDS EXPORTS PVT LTD
1531	U23209CH1988PTC008540	UNIPEX SALES PVT LTD
1532	U15311HP1988PTC008542	KRISHNA SOYA PRODUCTS PVT LTD
1533	U15146CH1988PLC008548	PUNJAB FOODFRAFT LTD
1534	U19201HP1988PTC008549	MAHAAN RUBBERS PVT LTD
1535	U99999HP1988PTC008550	NATH COMPUTERS PVT LTD
1536	U74210PB1988PTC008552	OMNI CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1537	U27101PB1988PTC008554	STERLING WHEELS PVT LTD
1538	U85110PB1988PTC008555	PARBHAT INDO MEDICARE PVT LTD
1539	U32303HP1988PTC008558	RAI SUMAL ELECTRONICS PVT LTD
1540	U51109PB1988PTC008559	MANOJ FABRICS PRIVATE LIMITED
1541	U85110PB1988PTC008560	HOLY HOSPITAL PVT LTD
1542	U74210CH1988PTC008561	EMBASSY APPLIANCES PVT LTD
1543	U25209PB1988PTC008562	BRAR PLASTICS PRIVATE LIMITED
1544	U27106HP1988PTC008563	KAILASH WIRES PVT LTD.
1545	U15311CH1988PTC008567	SINGLA FLOUR MILLS PVT LTD
1546	U15146PB1988PTC008572	EAST INDIA FARMERS FOOD COMPANY PVT LTD
1547	U36932HP1988PTC008573	HIMGIRI SPORTS PVT LTD
1548	U31101HP1988PTC008575	GLOW ELECTRO STAMPINGS PVT LTD
1549	U24233PB1988PTC008581	AMAZON LABORATORIES (INDIA) PVT LTD
1550	U35921CH1988PTC008582	HORA ENGINEERING COMPANY PRIVATE LIMITED.
1551	U31402PB1988PLC008583	PERT MICRO SYSTEMS P B LTD
1552	U28991PB1988PTC008586	MICRO FASTNERS PVT LTD
1553	U29241PB1988PTC008587	LIFTWELL HANDLING PRODUCTS PVT LTD

1554	U27107PB1988PTC008594	KAYSUN FORGINGS PVT LTD
1555	U21012HP1988PTC008603	MANAV INSULATED TECHNICAL COATINGS PVT LTD
1556	U74300CH1988PTC008604	ORACLE COMMUNICATION PRIVATE LIMITED.
1557	U51909CH1988PTC008606	MOHAN TENT SERVICE PRIVATE LIMITED.
1558	U51505PB1988PTC008612	KARM OVERSEAS PVT LTD
1559	U29191HP1988PTC008616	MALHOTRA REFRIGERATIONS PVT LTD
1560	U51103CH1988PTC008622	PROGRESSIVE OVERSEAS PRIVATE LIMITED.
1561	U55101HP1988PTC008623	VEE VEE HOTELS PVT LTD
1562	U15146PB1988PTC008633	MANPASAND CONFECTIONERY PVT LTD
1563	U171117PB1988PTC008634	PUNJABI DYEING AND WOOLLEN MILLS PVT LTD
1564	U21098HP1988PTC008642	DIANA CARBON PAPER PVT LTD
1565	U55101HP1988PTC008643	KAROL HOTELS PVT LTD
1566	U31901CH1988PTC008644	D P K ELECTRO INDUSTRIES PVT LTD
1567	U74920CH1988PTC008666	RANA INDUSTRIAL SECURITY SERVICES PVT LTD
1568	U15146HP1988PTC008672	ROYAL CONFECTIONERS PVT LTD
1569	U24231HP1988PTC008674	FRAZER PHARMACEUTICALS PVT LTD
1570	U27203PB1988PTC008678	RELIANCE PIPES PVT LTD
1571	U27200PB1988PTC008682	ARADHNA CASTINGS PVT LTD
1572	U15142PB1988PTC008685	SAVITRI OIL AND GENERAL MILLS PVT LTD
1573	U28994HP1988PTC008688	HIM PIPES PVT LTD
1574	U51494PB1988PTC008690	ANGEL EXPORTS PVT LTD
1575	U36936PB1988PTC008692	AKAL OVERSEAS PVT LTD
1576	U17115HP1988PTC008701	KHALIQ TEXTILES PVT LTD
1577	U51109PB1988PTC008718	PARAMOUNT ALUMINIUM COMPANY PVT LTD.
1578	U24294PB1988PTC008719	PAUL POLYMERS PVT LTD
1579	U45201PB1988PTC008731	TRIPLE AAR BUILDERS PVT LTD
1580	U32303PB1988PTC008735	CHAN TAPES PVT LTD
1581	U32101PB1988PTC008742	GOLD COLOR LAB PVT LTD
1582	U21014CH1988PTC008744	KAURA KOSMOPAK ENGINEERS PVT LTD
1583	U01222CH1988PTC008746	SOOD HATCHERIES AND POULTRY PRODUCTS PVT LTD.
1584	U51228CH1988PTC008748	DIVINE SALES PVT LTD
1585	U20231PB1988PTC008754	UNIVERSAL THERMOCOL PVT LTD
1586	U15142CH1988PTC008756	VIKRAM PAUL OILS PVT LTD
1587	U29130PB1988PTC008760	GLEESON GEARS PVT LTD
1588	U45201CH1988PTC008761	S K R BUILDERS PVT LTD
1589	U24299PB1988PTC008764	LUDHIANA CHEMTECH PVT LTD
1590	U60210PB1988PTC008766	JATINDER BUS SERVICE PVT LTD
1591	U01222HP1988PTC008767	P A POULTRY PRODUCTS PVT LTD
1592	U28991PB1988PTC008770	MENUBA FASTNERS PVT LTD
1593	U15312PB1988PTC008775	SANT RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD.
1594	U17115PB1988PTC008776	INDO SPINNERS PVT LTD
1595	U24233PB1988PTC008777	NARAIN DRUGS PVT LTD

1596	U30001HP1988PTC008783	SEC ELECTRONICS ENTERPRISES PVT LTD.
1597	U51109PB1988PTC008787	SANRAW TRANSMISSIONS PVT LTD
1598	U51109PB1988PTC008791	CHANCELLOR MARKETING PVT LTD
1599	U32309PB1988PTC008792	RABAAB CREATORS PVT LTD
1600	U24241HP1988PTC008794	BALI CHEMICALS PVT LTD
1601	U32109HP1988PLC008796	HINDUSTAN HI-TECH INDUSTRIES LTD
1602	U74140CH1988PTC008799	KEYLOCK SAFETY DIVICES PVT.LTD.
1603	U63040PB1988PTC008801	PENGUIN EXPORTS PVT LTD
1604	U63109HP1988PTC008802	MOUNTVIEW STEEL FABRICATORS PVT LTD
1605	U15146HP1988PTC008803	BIRDIE CONFECTIONERY PVT.LTD.
1606	U45201PB1988PTC008805	EMM PEE CONSTRUCTIONS PVT LTD
1607	U60210PB1988PTC008811	NEW BANGA TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1608	U31300CH1988PTC008812	HARMAN WORES PVT LTD
1609	U01211PB1988PTC008822	PRITAM CATTLE FEED PVT LTD
1610	U15142HP1988PLC008824	SHRI CHANDIKA OILS FEEDS AND FOODS LTD
1611	U25111PB1988PTC008832	L K TYRE AND TUBES PVT.LTD.
1612	U64120CH1988PLC008836	SPEEDWAY COURIERS LTD
1613	U21015CH1988PTC008837	ABNASHI PACKAGES PVT LTD
1614	U26101PB1988PTC008838	BHOWRA ENGINEERS PVT LTD
1615	U33309HP1988PTC008839	PEARLESS ELECTRONICS PVT LTD
1616	U27109PB1988PTC008841	ISHER ENGINEERING WORKS PVT LTD
1617	U45201HP1988PTC008849	MEGHNA BUILDERS PVT LTD
1618	U45202CH1988PTC008854	CONCEPT PACKAGING SYSTEMS PVT LTD
1619	U70101PB1988PLC008855	PARBHAT ESTATES INDIA LTD
1620	U45201PB1988PTC008858	PEOPLE CONSTRUCTION PVT LTD
1621	U28939CH1988PTC008861	WYPEE ENGINEERS PVT LTD
1622	U31300CH1988PTC008870	S P S WIRES PVT LTD
1623	U55101HP1988PTC008873	SAKA RESORTS PVT LTD
1624	U24111HP1988PTC008881	YAMUNA CORBONATE PVT LTD
1625	U24221PB1988PTC008882	MANZIL PAINTS AND CHEMICALS PVT LTD
1626	U27200PB1988PTC008884	ABU METAL PRODUCTS PVT LTD
1627	U45201HP1988PTC008886	AMAR CONCRETE PRODUCTS PVT LTD
1628	U31501HP1988PTC008887	VIKAS INSTRUMENTS PVT LTD
1629	U17115PB1988PTC008889	CHANDOK WEAVING MILLS PVT LTD
1630	U15146HP1988PTC008891	RENUKA FOOD PRODUCTS PVT LTD
1631	U24117PB1988PTC008892	MANMOHAN OXIDES PVT LTD
1632	U45201CH1988PTC008899	SPACE PROJECTS PVT LTD
1633	U01222PB1988PTC008900	WHITE PEARLS POWLTARIES PVT LTD
1634	U19201PB1988PTC008901	COMMANDER FOOTWEAR PVT LTD
1635	U17117PB1988PTC008903	CHAHAL WOOLLEN MILLS PVT LTD
1636	U35921PB1988PTC008906	DHIMAN CYCLES PVT LTD
1637	U25199PB1988PLC008912	SHAH RUBBERS INDIA LTD

1638	U80302CH1988PTC008914	JARMAN INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY PVT LTD
1639	U29294HP1988PTC008920	HIMACHAL STAMPINGS AND LAMINATIONS PVT LTD
1640	U17117HP1988PTC008930	WESTEND TEXCO PVT LTD
1641	U27101PB1988PTC008932	GRACIOUS FLUXES PVT LTD
1642	U24219HP1989PTC008935	ROCK ORGANICS PVT LTD
1643	U51909CH1989PTC008944	APEX PROJECTS PVT LTD
1644	U28932CH1989PTC008962	STAR SPMS PVT LTD
1645	U34300PB1989PTC008966	GURU RAKHA AUTO INDUSTRIES PVT LTD
1646	U24232CH1989PTC008968	SUVIRS CHEMICALS PVT LTD
1647	U51907PB1989PTC008972	MOHAN IMPEX PVT LTD
1648	U17111HP1989PTC008973	SANDEEP KNITWEARS PVT LTD
1649	U45203PB1989PTC008976	CHANDI ENGINEERS PVT LTD
1650	U51909CH1989PTC008986	K.R. COMMERCIALS PVT LTD
1651	U34300PB1989PTC008987	PREET AUTO PVT LTD
1652	U15203PB1989PTC008997	GREEN DAIRY LAND INDIA PVT LTD
1653	U17111PB1989PTC009011	ANKURA KNITTER PVT LTD
1654	U29212HP1989PTC009013	D M AUTO MECH PVT LTD
1655	U17117CH1989PTC009019	MOUD WOOL TEX PVT LTD
1656	U33125PB1989PTC009022	DR. FREEMAN'S RESEARCH LABORATORY PVT LTD
1657	U20219PB1989PTC009023	AMRITSAR PLYWOOD PVT LTD
1658	U21001PB1989PTC009025	AXIS PAPER PRODUCTS PVT LTD
1659	U51494PB1989PTC009031	NANDA YARN TRADING COMPANY PVT LTD
1660	U15520CH1989PTC009036	SKIPPER DISTILLERIES PVT LTD
1661	U55101CH1989PTC009038	DEBCEE HOTELS PRIVATE LIMITED
1662	U63040PB1989PTC009043	JOLLY CONTINENTAL SERVICES PVT LTD
1663	U51494PB1989PTC009050	MEGACORP INTERNATIONAL PVT LTD
1664	U27106HP1989PTC009051	SAFETY STEEL ROPES PRIVATE LIMITED
1665	U85199PB1989PTC009058	GALAXY HEALTH CARE PVT LTD
1666	U18101PB1989PLC009060	FUTURA GARMENTS LTD
1667	U18101PB1989PTC009074	WARP AND WEFT APPARELS PVT LTD
1668	U52397PB1989PTC009075	AMRITSAR FERTILIZERS AGENCY PVT LTD
1669	U28991CH1989PTC009076	JAY EMM FASTNERS PVT LTD
1670	U28991HP1989PTC009093	MANJEET METAL PRODUCTS PVT LTD
1671	U17117PB1989PTC009098	ADYA WOOLLEN MILLS PVT LTD
1672	U21011PB1989PTC009101	JAIN DUPLEX BOARD MILLS PVT LTD
1673	U27109PB1989PTC009102	GOBIND FURNACE PVT LTD
1674	U63040PB1989PTC009109	BHARAT TOURS AND TRAVELS PVT LTD
1675	U24231CH1989PTC009112	ANISUN PHARMACEUTICALS PVT LTD
1676	U25209PB1989PTC009115	BINDRA PLASTICS PVT LTD
1677	U34300CH1989PTC009121	SAHAL AUTOS PVT LTD
1678	U32109CH1989PTC009127	SYGUN ELECTRONICS PVT LTD
1679	U20219PB1989PTC009132	PGJ PIONEER POLYWORLDS PVT LTD

1680	U28994PB1989PTC009133	DHILLON BRICKS PVT LTD
1681	U28932PB1989PTC009136	VEENA SPARK PVT LTD
1682	U74210PB1989PTC009142	D.S. RATTAN AND ASSOCIATES PVT LTD
1683	U34300CH1989PTC009143	CHANDIGARH AUTO PVT LTD
1684	U24296PB1989PTC009153	INDUS DIET SPECIALITIES PVT LTD
1685	U17117PB1989PTC009159	M.K. SPINNERS PVT LTD
1686	U32109PB1989PTC009168	S V G SWITCHGEARS PVT LTD
1687	U63040CH1989PTC009174	MEERA JOURNEY PVT LTD
1688	U25119PB1989PTC009184	DIAMOND COLD RETREADS PVT LTD
1689	U15142CH1989PTC009188	RAMANIA BISCUITS PVT LTD
1690	U17117PB1989PTC009213	A R WOOLLEN AND SPINNING MILLS PVT LTD
1691	U17117HP1989PTC009216	SANSARPUR SPINNERS PVT LTD
1692	U20231PB1989PTC009223	MUNDRA PACKS AND CONTAINERS PVT LTD
1693	U85110PB1989PTC009230	TARA'S HEALTH CLUB PVT LTD
1694	U51909PB1989PTC009249	HARMAN OVERSEAS PVT LTD
1695	U15326PB1989PTC009256	SARDAR OIL MILLS PVT LTD
1696	U32109PB1989PLC009260	IVY SYSTEMS LTD
1697	U74140PB1989PTC009266	BHALLA FINANCIAL CONSULTANTS PVT. LTD.
1698	U30007HP1989PTC009271	M. VIDEOTECH PVT LTD
1699	U26999CH1989PTC009272	GURU KIRPA LENSES PVT LTD
1700	U32101PB1989PTC009273	TKB CONSORTIUM TELEVISIONS PVT LTD
1701	U15311CH1989PLC009275	ATASH FLOURCAST LTD
1702	U17111PB1989PTC009281	TULSI RAM JAGAN NATH SPINNING MILLS PVT LTD
1703	U17297PB1989PTC009283	OXFORD WOOLMAKERS PVT LTD
1704	U27105PB1989PTC009284	NAGESH ALLOY STEEL PVT LTD
1705	U45203PB1989PTC009291	TERRAIN BUILDERS PVT LTD
1706	U28991PB1989PTC009294	GREENLAND METAL PVT LTD
1707	U01222CH1989PTC009295	KHANNA POULTRY PRODUCTS PVT LTD
1708	U34300CH1989PTC009296	HARJAS AUTOMOBILES PVT LTD
1709	U24298PB1989PTC009298	S G M SALT AND PESTICIDES PVT LTD
1710	U15331CH1989PTC009303	S G FEEDS PVT LTD
1711	U34300CH1989PTC009306	URBAN ENGINEERS PVT LTD
1712	U28910PB1989PTC009307	UNITED TURNERS PVT LTD
1713	U22219CH1989PLC009311	INTEGRATED PRESS LTD
1714	U31102PB1989PTC009324	JKR TRANSFORMERS INDIA PVT LTD
1715	U31909PB1989PTC009326	SAURABH ELECTRONICS PVT LTD
1716	U17117PB1989PTC009328	PEE GEE SPINNERS PVT LTD
1717	U24219HP1989PTC009329	UNIVERSAL AGRO CHEMICAL INDUSTRIES PVT LTD
1718	U15312PB1989PTC009330	BADHESHA FOODS AND EXPORTS PVT LTD
1719	U17117PB1989PTC009334	G.R. SPINNERS PVT LTD
1720	U63040PB1989PTC009340	SOBER TRAVELS INDIA PVT LTD
1721	U15143CH1989PTC009352	DAYAL AGRO MILLS PVT LTD

1722	U74140PB1989PTC009357	VEE ELL BEE ENGINEERING PVT LTD
1723	U43430PB1989PTC009358	RUBAL GEARS PVT LTD
1724	U51909PB1989PTC009360	SEKHON OIL MILLS PVT LTD
1725	U17117PB1989PTC009361	AAR CEE HOSIERY MILLS PVT LTD
1726	U51501PB1989PLC009366	PARAS AGRO ECONOMICAL CONSERVATION LTD
1727	U27101PB1989PTC009367	GOVIND IRON MILLS PVT LTD
1728	U31909PB1989PTC009369	BUBLA ELECTRODES PVT LTD
1729	U17303PB1989PTC009375	SALWAN SPINNERS PVT LTD
1730	U15493HP1989PTC009380	KUNDALS OIL MILLS PVT LTD
1731	U51494PB1989PTC009385	FITRIGHT EXPORTS PVT LTD
1732	U27203CH1989PTC009387	PUNJAB ALLOYS PVT LTD
1733	U27105PB1989PTC009394	SHAHNOOR ALLOYS PVT LTD
1734	U52335PB1989PTC009395	RAKESH SALES PVT LTD
1735	U26921HP1989PTC009397	S S BRICKS PVT LTD
1736	U51494PB1989PTC009398	NAVAL SPINNERS PVT LTD
1737	U27203CH1989PTC009406	NALAGARH AGRO AND FABRICATORS PVT LTD
1738	U17117PB1989PTC009409	SUNDER SPINNERS PVT LTD
1739	U17118PB1989PTC009412	BAJWA TEXTILES PVT LTD
1740	U36991PB1989PTC009424	CUTE PENS PVT LTD
1741	U17117PB1989PTC009427	ESS PEE KNITWEARS PVT LTD
1742	U15549PB1989PTC009429	SUTLEJ DITILLERIES PVT LTD
1743	U25219HP1989PTC009430	ESTER POUCHES PVT LTD.
1744	U24119CH1989PTC009434	FARMERS FERTILISERS PVT LTD
1745	U15311PB1989PTC009437	UTTAM AGRO MILLS PVT LTD
1746	U25199CH1989PTC009439	R R G LATEX INDIA PVT LTD
1747	U15209PB1989PTC009440	J N MILK CHILLING CENTRE PVT LTD
1748	U24231HP1989PTC009442	JAYA BLEACHING PVT LTD
1749	U32109HP1989PTC009443	SUMAR ELECTRONICS PVT LTD
1750	U23201CH1989PTC009445	S R PETROLUBES PVT LTD
1751	U18101PB1989PTC009448	DOMINION EXPORTS PVT LTD
1752	U17117PB1989PTC009449	ALLIED PROCESSORS PVT LTD
1753	U36104PB1989PTC009450	GLORY COCO-FOAM PVT LTD
1754	U15311PB1989PTC009455	LUDHIANA AGRO FOODS PVT LTD
1755	U25199PB1989PTC009459	T.G.FOOTWEARS PVT LTD
1756	U74300PB1989PTC009463	SELLMAN AD-PROMOTERS PVT LTD
1757	U01222CH1989PTC009466	EJAY CHICKEN SPECIALITIES PVT LTD
1758	U25199PB1989PTC009472	MEGH SYNTHETICS PVT LTD
1759	U24231PB1989PTC009473	GOBIND ZINCTECH PVT LTD
1760	U74140CH1989PTC009477	CHANDIGARH PROFESSIONAL ADVISORS PVT LTD
1761	U50103PB1989PTC009478	SAKHISH RAJ MOTOCAB PVT LTD
1762	U29299CH1989PTC009481	CRYSTAL MACHINES PVT LTD
1763	U17117PB1989PTC009486	KINGSWAY WOOLLEN MILLS PVT LTD

1764	U27106PB1989PLC009495	SPECIAL EXTRUDERS INDIA LTD
1765	I74999PB1989PTC009497	GRACIOUS SERVICES PVT LTD
1766	U27106PB1989PTC009498	OSAHAN STEELS PVT LTD
1767	U24231PB1989PTC009501	BEAS PHARMACEUTICALS PVT LTD
1768	U25209CH1989PTC009502	AUJLA PLASTIC PRODUCTS PVT LTD
1769	U25111PB1989PTC009505	DUTTA RUBBERS PVT LTD
1770	U17115PB1989PLC009510	SANGRUR TEXTILES LTD
1771	U24231PB1989PTC009511	DOMINION MEDICARE PVT LTD
1772	U17115HP1989PTC009514	SARVESH TEXTILES PVT LTD
1773	U27109PB1989PTC009516	HAPPY ALLOYS PVT LTD
1774	U27109PB1989PTC009517	HAPPY ISPAT PVT LTD
1775	U29246PB1989PTC009520	ARIHANT BUSHES PVT LTD
1776	U31909CH1989PTC009521	HARPAL ENTERPRISES PVT LTD
1777	U31300PB1989PTC009523	PAL WIRES PVT LTD
1778	U20213HP1989PTC009533	HIM PACS PRODUCTS PVT LTD
1779	U25209PB1989PTC009534	DEEP PLASTICS PVT LTD
1780	U21029PB1989PTC009535	RUBY BOX PVT LTD
1781	U15146PB1989PTC009542	PRITAM FOODS PVT LTD
1782	U67200CH1989PTC009559	AAR AAR SERVICES PVT LTD
1783	U25111CH1989PTC009569	KANSON RUBBER PVT LTD
1784	U17116PB1989PTC009579	OMNI SPINNING MILLS PVT LTD
1785	U51909PB1989PTC009590	VINAYAKA OVERSEAS PVT LTD
1786	U28991PB1989PTC009592	S K SPRINGS PVT LTD
1787	U17117PB1989PTC009593	JEEWAN ASHA YARN MARKETING COMPANY PVT LTD
1788	U27106PB1989PTC009594	PARKASH FURNACES PVT LTD
1789	U25111PB1989PTC009598	VENUS TYRES PVT LTD
1790	U17115HP1989PTC009600	ANNU FABRICS PVT LTD
1791	U29246HP1989PTC009601	BENNER BELTS PVT LTD
1792	U74300PB1989PTC009608	ADWORLD COMPANY PB PVT LTD
1793	U60231PB1989PTC009613	S S CARRIERS PVT LTD
1794	U23109PB1989PTC009623	BAHRI INDUSTRIAL FUELS PVT LTD
1795	U27320PB1989PTC009627	MEGH RAJ FORGINGS PVT LTD
1796	U17225PB1989PTC009628	SRI LAXMI COIR PRODUCTS PVT LTD
1797	U45202PB1989PTC009629	SHIVANI SERVICES PVT LTD
1798	U27220PB1989PTC009631	NAVYUG ALLOYS PVT LTD
1799	U27106PB1989PTC009632	SHAKTI INGOTS PVT LTD
1800	U18101PB1989PTC009634	SUNRISE FABRICS PVT LTD
1801	U24231PB1989PTC009635	GALAXY MEDICO S PVT LTD
1802	U28939PB1989PTC009644	ATUL PIPES PVT LTD
1803	U19129PB1989PTC009647	TRIPUTI LEATHERS PVT LTD
1804	U70101CH1989PTC009648	NIKET PROPERTIES PVT LTD
1805	U19129PB1989PTC009651	CAPRI HIM LEATHERS PVT LTD

1806	U63022PB1989PTC009656	PALSON DEHYDRATING COMPANY PVT LTD
1807	U19129PB1989PTC009660	MONPORTE IMPEX PVT LTD
1808	U26931PB1989PTC009668	GURU TEG BAHADUR BRICKS PVT LTD
1809	U45203CH1989PTC009674	HARMAN CONSTRUCTIONS PVT LTD
1810	U35303PB1989PTC009681	A O G AERONAUTICS PVT LTD
1811	U15146PB1989PTC009682	SIKAND FOODS PVT LTD
1812	U01222CH1989PTC009684	S G POULTRIES PVT LTD
1813	U24221PB1989PTC009687	ROHINI PIGMENTS PVT LTD
1814	U24231PB1989PTC009689	AAR BEE PHARMACEUTICALS HOUSE PVT LTD
1815	U45203PB1989PTC009694	GURPAUL ENGINEERS AND FABRICATORS PVT LTD
1816	U27203PB1989PTC009699	DURGA ALUMINIUM PVT LTD
1817	U51496CH1989PTC009704	K H OVERSEAS PVT LTD
1818	U17117PB1989PTC009707	SAHIL WOOL SPINNERS PVT. LTD.
1819	U17113PB1989PTC009708	HITESH SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
1820	U27068PB1989PTC009711	JAGS CABLES PVT LTD
1821	U67200PB1989PTC009712	PRECISE SURVEYS PVT LTD
1822	U15311PB1989PTC009717	POPULAR FLOUR MILLS PVT LTD
1823	U74300PB1989PTC009719	MEDIA SYSTEMS PVT LTD
1824	U15520HP1989PLC009730	JAIDKA HIMACHAL BREWERIES LTD
1825	U20219CH1989PLC009731	HINDUSTAN BOARDS LTD
1826	U92111PB1989PTC009743	AANAAM CINEMA PVT. LTD.
1827	U27106PB1989PTC009745	CHANNO STEEL STRIPS PVT LTD
1828	U27106PB1989PTC009746	DEEP ALLOYS PVT LTD
1829	U28991PB1989PTC009747	PUNJAB BLUE TACKS PVT LTD
1830	U55101HP1989PTC009751	SHILAZ PALACE PVT LTD
1831	U25209PB1989PTC009759	PRABHDEEP PLASTICS PVT LTD
1832	U55101PB1989PTC009762	NARAYAN SHAKTI REFRESHMENTS PVT LTD
1833	U15146PB1989PTC009765	TANDA FOOD PRODUCTS INDIA PVT LTD
1834	U55101HP1989PTC009766	SPUR RESORTS PVT LTD
1835	U24231CH1989PTC009771	JNG LABORATORIES PVT LTD
1836	U15146PB1989PTC009777	KAILSUN FOODS AND CHEMICALS PVT LTD
1837	U27109PB1989PTC009780	JASWANT FORGINGS PVT LTD
1838	U60210PB1989PTC009789	ATTARI EX SERVICEMAN ROADLINES PVT LTD
1839	U55101HP1989PTC009792	FALCON RESORTS PVT LTD
1840	U18101CH1989PTC009798	PRIYA OVERSEAS PVT LTD
1841	U25200PB1989PTC009800	SATYAM POLYMERS LTD.
1842	U24299CH1989PTC009815	APS CHEMTEX PVT LTD
1843	U24221PB1989PTC009821	AMRITSAR CHEMICALS PVT LTD
1844	U85110CH1989PTC009824	NORTHERN INDIA STONE CLINIC PVT LTD
1845	U33112PB1989PTC009827	SUNNY SURGICAL PVT LTD
1846	U52609CH1989PTC009835	NAM ENTERPRISES PVT LTD
1847	U01222CH1989PTC009841	NEVEDAC HATCHERIES AND FARMS PVT LTD

1848	U29212PB1989PTC009844	UNITED ENGINES PVT LTD
1849	U74300CH1989PTC009850	MAGNAFOCUS ADVISERS PVT LTD
1850	U45201PB1989PTC009852	SAUNDH BUILDERS AND DEVELOPERS PUNJAB PVT LTD
1851	U15311PB1989PTC009856	MANMOHAN MACHINES PVT LTD
1852	U30003PB1989PTC009857	NISHANT RUBBERS PVT LTD
1853	U27109PB1989PTC009858	LEADER METALS AND ALLOYS PVT LTD
1854	U27101PB1989PTC009870	NORTH INDIA METALS PVT LTD
1855	U26921CH1989PTC009872	SERAI BUILDING PRODUCTS PVT LTD
1856	U74300PB1989PTC009879	AMARSUN GOLD MARKETING AND ADVERTISING PVT LTD
1857	U17117PB1989PTC009881	GARNET WOOLLEN MILLS PVT LTD
1858	U70101CH1989PTC009884	SAMDARSH REAL ESTATES PVT LTD
1859	U25111PB1989PTC009885	JIWAN TYRES AND TUBES PVT LTD
1860	U99999CH1989PTC009887	INDOGLO ARTSTEEL PVT LTD
1861	U55101HP1989PTC009889	SPITI RESORTS PVT LTD
1862	U24233PB1989PTC009891	RELIABLE DRUGS PVT LTD
1863	U25199PB1989PTC009892	EVEREST FOAM PVT LTD
1864	U27105CH1989PTC009893	STELLAR SALES PVT LTD
1865	U79994CH1989PTC009894	SPACEAGE EMBELLISHIERS PVT LTD
1866	U24221CH1989PTC009897	ASIM ENTERPRISE PVT LTD
1867	U18101CH1989PTC009898	HONEYWELL OVERSEAS PVT LTD
1868	U27232PB1989PTC009899	VARDHMAN FORGINGS PVT LTD
1869	U32101PB1989PTC009905	JAGRAON ELECTRONICS PVT LTD
1870	U25111PB1989PTC009907	SANT TYRES AND TUBES PVT. LTD.
1871	U29212PB1989PTC009908	D K GEARS PVT LTD
1872	U17115PB1989PTC009909	PREET YARNS PVT LTD
1873	U17117PB1989PTC009912	D.S. WOOLLEN MILLS PVT LTD
1874	U25111PB1989PTC009916	VEEJAY RUBBER PVT LTD
1875	U29306CH1989PTC009919	TEE MEC ELECTRICALS PVT LTD
1876	U25209CH1989PTC009928	DSR METTA PLAST ENGINEERS PVT LTD
1877	U25206PB1989PLC009934	GOVIND WOOD PLAST LTD
1878	U60210PB1989PTC009940	SHRI SEES GANJ SAHIB TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1879	U51109PB1989PTC009944	SATURN EXPORTS PVT LTD
1880	U19201CH1989PTC009947	GOLDY FOOTWEARS PVT LTD
1881	U55101HP1989PTC009949	HEERA MOTI HOTELS AND RESORTS PVT LTD
1882	U27320CH1989PTC009950	UNITED ZINC PVT LTD
1883	U31300HP1989PTC009951	ATIN CABLES PVT LTD
1884	U29246HP1989PTC009954	AUM MINING EQUIPMENTS PVT LTD
1885	U27105PB1989PTC009964	S R CASTINGS PVT LTD
1886	U24231PB1989PTC009966	JDR DRUGS PVT LTD
1887	U17115CH1989PTC009967	ESS ARR NYLONS PVT LTD
1888	U15311CH1989PTC009975	PUNJAB WHEAT PRODUCTS PVT LTD
1889	U99999HP1989PTC009980	NIRALA ELECTRONICS PVT LTD

1890	U22122PB1990PTC009982	ARIHANT PUBLISHING HOUSE PVT LTD
1891	U29308PB1990PTC009984	MAGICOOK APPLIANCES PVT LTD
1892	U51225PB1990PTC009987	SUREKHA TRADERS PVT LTD
1893	U52110PB1990PTC010008	PEPSU AGRO PVT LTD
1894	U15133CH1990PTC010009	LAKHIAN FOODS PVT LTD
1895	U31300PB1990PTC010012	SAZDA CABLES PVT LTD
1896	U51228PB1990PTC010014	P P ASSOCIATES PVT LTD
1897	U24231PB1990PTC010016	AARTI SULPHUR MILLS PVT LTD
1898	U60231PB1990PTC010018	JAGPAL TRANSPORT COMPANY PVT LTD
1899	U24241CH1990PTC010022	JOSH CHEMICALS PVT LTD
1900	U55101HP1990PTC010031	MAHINDRA MOTELS PVT LTD
1901	U25209PB1990PTC010034	ANCHI CONTAINERS PVT LTD
1902	U28999PB1990PTC010037	GURU WIRES PVT LTD
1903	U45201CH1990PTC010043	WALAITI RAM GUPTA CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
1904	U28992CH1990PTC010045	CHANDIGARH CONTAINERS PVT LTD
1905	U24299CH1990PTC010048	CHETAK PLASTICIZERS PVT LTD
1906	U25209CH1990PTC010049	SHAVETA PLASTICIZERS PVT LTD
1907	U24232PB1990PTC010051	SHAKTI DRUGS PVT LTD
1908	U74210CH1990PTC010052	K V AMAR ENGINEERS PVT LTD
1909	U51109PB1990PTC010056	SUKHMANI AGENCIES PVT LTD
1910	U18101PB1990PTC010065	ANJUM GARMENTS PVT LTD
1911	U34101CH1990PTC010076	S V MOTORS PVT LTD
1912	U29302CH1990PTC010093	NOVA FLAMES PVT LTD
1913	U18101PB1990PTC010094	ANNAPURNA SPINNING MILLS PVT LTD
1914	U31102PB1990PTC010095	INDO SURGE ARRESTORES PVT LTD
1915	U35999PB1990PTC010099	DELTA RADIATORS PVT LTD
1916	U21022PB1990PTC010101	GORAYA CARD BOARDS PVT LTD
1917	U65040CH1990PTC010108	CITI MERCANTILE PVT LTD
1918	U36991CH1990PTC010115	SAHIBA STATIONERS AND DRAPERS PVT LTD
1919	U55101HP1990PTC010137	JASCO RESORTS PVT LTD
1920	U55101CH1990PTC010139	APOLLO HOTEL PVT LTD
1921	U55101CH1990PTC010140	HEAVEN HOTEL PVT LTD
1922	U74210CH1990PTC010141	RIDHA ENGINEERS AND ASSOCIATES PVT LTD
1923	U17115PB1990PTC010147	DASHMESH SPINNING MILLS PVT LTD
1924	U17117PB1990PTC010150	K P WOOL TEX PVT LTD
1925	U25209PB1990PTC010153	DELTA PLASTICS PVT LTD
1926	U74210PB1990PTC010160	WINGS ESTATES PVT LTD
1927	U29305CH1990PTC010161	ULTRA FLAME PVT LTD
1928	U51311PB1990PTC010163	NOBLE OVERSEAS PVT LTD
1929	U17115PB1990PTC010164	SANT SPINNING MILLS PVT LTD
1930	U35911CH1990PTC010173	CHAHIL AUTOHAUS PVT LTD
1931	U25209CH1990PTC010177	JASMINE WINDOORS PVT LTD

1932	U27109CH1990PTC010184	ORBIT METALS PVT LTD
1933	U01222CH1990PTC010188	UPPAM POULTRY FARMS PVT LTD
1934	U45201CH1990PTC010193	ROCKLINE CONSTRUCTIONS PVT. LTD.
1935	U45202PB1990PTC010198	JAY ENN CONSTRUCTIONS PVT LTD
1936	U26921CH1990PTC010201	B D BRICKS PVT LTD
1937	U24129CH1990PTC010204	AJAY OSSEIN AND ALLIED PRODUCTS PVT LTD
1938	U21012PB1990PTC010215	V P M PAPERS PVT LTD
1939	U27203CH1990PTC010219	R R EXTRUSIONS PVT LTD
1940	U27204CH1990PTC010221	R R ZINC PVT LTD
1941	U74140CH1990PTC010222	VERSATILE INDUSTRIAL ASSOCIATES PVT LTD
1942	U01222CH1990PTC010226	MANSI POULTRY FARMS PVT LTD
1943	U01222CH1990PTC010227	UNITECH POULTRY CONSULTANTS PVT LTD
1944	U31300CH1990PTC010229	DEE BEE INSULATION PVT LTD
1945	U24299PB1990PTC010230	RAVI CARBONATES PVT LTD
1946	U15432PB1990PTC010231	POLKA FOODS PVT LTD
1947	U26921CH1990PTC010235	GURU MECH BRICKS PVT LTD
1948	U17115PB1990PTC010240	GOBIND SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
1949	U19201PB1990PTC010247	SAPRA FOOTWEARS PVT LTD
1950	U51394HP1990PTC010251	KINNER IMPEX PVT LTD
1951	U55101HP1990PTC010252	HIM PRAVESH HOTELS PVT LTD
1952	U30003PB1990PTC010264	KISAN APPLIANCES PVT. LTD.
1953	U27106PB1990PTC010266	RIAT ALLOYS PVT LTD
1954	U47999PB1990PTC010268	YOUNGMEN DISCOUNT CARDS PVT LTD
1955	U28939CH1990PTC010272	SLEEK AUTO DOORS PVT. LTD.
1956	U70101CH1990PTC010274	R S DEVELOPERS PVT LTD
1957	U17117PB1990PTC010289	ARYANA SPINNING MILLS PVT LTD
1958	U01222CH1990PTC010292	SOBA FARMS PVT LTD
1959	U15312PB1990PTC010296	BEDI RICE AND OIL MILLS PVT LTD
1960	U35999PB1990PTC010298	A N AUTO STEEP COMPANY PVT LTD
1961	U15143CH1990PTC010303	ABC OIL MILLS PVT LTD
1962	U45201PB1990PTC010309	ESS ESS BUILDERS PVT LTD
1963	U17117PB1990PTC010310	AMAR INDIA SPINNERS PVT LTD
1964	U60231PB1990PTC010312	AVTAR GOODS CARRIERS PVT LTD
1965	U45201CH1990PTC010313	BHARDWAJ BUILDERS PVT LTD
1966	U17117PB1990PTC010319	LUDHIANA TEXTILES PVT LTD
1967	U55101HP1990PTC010320	FAGU RESORTS PVT LTD
1968	U70101CH1990PTC010321	RISHI ASSOCIATES PVT LTD
1969	U17117PB1990PTC010327	SWAMI WOOLLEN MILLS PVT LTD
1970	U31909CH1990PTC010328	ANURADHA ELECTRICALS PVT LTD
1971	U70101CH1990PTC010329	SHAMBU ESTATES PVT LTD
1972	U24299PB1990PTC010331	DHILLON ZINC SULPHATE PVT LTD
1973	U60231PB1990PTC010337	RAJ ROADLINES PVT LTD

1974	U25209CH1990PTC010338	BANSAL TUBES PVT LTD
1975	U25209PB1990PTC010348	ROLEX POLYMERS PVT LTD
1976	U51311PB1990PTC010356	LOHASH EXPORTS PVT LTD
1977	U24305PB1990PTC010362	AHUJA COATED CLOTH PVT LTD
1978	U34300CH1990PTC010366	CLASSY HEAD GEARS PVT LTD
1979	U28939CH1990PTC010376	GURNAMSON TUBEWELL PVT LTD
1980	U17117PB1990PTC010381	TARASONS WOOLLEN MILLS PVT LTD
1981	U29308PB1990PTC010389	SAREEN STEELS PVT LTD
1982	U24111HP1990PTC010405	JAWALAJI GASES PVT LTD
1983	U70101CH1990PTC010408	COMEX REAL ESTATES PVT LTD
1984	U60231PB1990PTC010409	NIRBHAI TRAVELS PVT LTD
1985	U15139CH1990PTC010410	CHANDIGARH SOYA PRODUCTS PVT LTD
1986	U18101PB1990PTC010412	CAPRICORN TOW OVERSEAS PVT LTD
1987	U70101CH1990PTC010417	AMAN REAL ESTATES PVT LTD
1988	U35203CH1990PTC010418	LORDS ENTERPRISES PVT LTD
1989	U29305PB1990PTC010424	PRANAV COOK-WARE AND APPLIANCES PVT LTD
1990	U64202PB1990PTC010426	FLASH BUSINESS AND COMMUNICATION CENTRE PVT LTD
1991	U18101PB1990PTC010432	JIWAN SYNTHETICS PVT LTD
1992	U31300PB1990PTC010434	A.S.G. INSULATIONS PVT LTD
1993	U29192PB1990PTC010441	CITY AIR CONDITIONER AND APPLIANCES PVT LTD
1994	U34300PB1990PTC010447	MANDEEP AUTO FORGE PVT LTD
1995	U21022HP1990PTC010448	KOMAL BOARDS PVT LTD
1996	U17115PB1990PTC010454	GOPAL SPINNING MILLS PVT LTD
1997	U27310PB1990PTC010455	HEMKUND CASTINGS PVT LTD
1998	U72200PB1990PTC010456	CAPITAL COMPU RITE BUSINESS SERVICES PVT LTD
1999	U15143PB1990PTC010464	ARIHANT OILS AND FATS PVT LTD
2000	U17117HP1990PTC010465	HIMACHAL SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
2001	U32305PB1990PTC010472	NAVI AND NAVI ELECTRONICS PVT LTD
2002	U74300CH1990PTC010474	ROVERS ADVERTISING PVT LTD
2003	U17117PB1990PTC010478	G.P. WOOLLEN MILLS PVT LTD
2004	U25113PB1990PTC010484	LAKSHMI TYRES MANUFACTURING PVT LTD
2005	U17177PB1990PTC010488	GANPATI SPINNING AND GENERAL MILLS PVT LTD
2006	U01222PB1990PTC010503	K G M POULTRY FARMS PVT LTD
2007	U35999PB1990PTC010504	LUXUR AUTOMOBILES PVT LTD
2008	U17115PB1990PTC010505	AARTI FINE FABRICS PVT LTD
2009	U55101HP1990PTC010507	SWAN RESORTS PVT LTD
2010	U28991HP1990PTC010513	GALAXY STEELS PVT LTD
2011	U51432CH1990PTC010519	KEELSON TRADE PVT LTD
2012	U27310PB1990PTC010524	HARBANS ENGINEERING WORKS PVT LTD
2013	U24299CH1990PTC010531	SHIVALIK PARAFINE PVT LTD
2014	U27310PB1990PTC010533	T C FORGINGS PVT LTD
2015	U28999HP1990PTC010534	TOP WIRES PVT LTD

2016	U55101HP1990PTC010539	SILVER OAKS HEALTH AND TOURIST RESORT PVT LTD
2017	U27310PB1990PTC010540	RAVI CASTINGS PVT LTD
2018	U19201PB1990PTC010541	DASMESH FOOTWEAR PVT LTD
2019	U15495HP1990PTC010545	INDIRA SPICES PVT LTD
2020	U55101HP1990PTC010547	SAI VARDHAN MOTELS PVT LTD
2021	U17117PB1990PTC010549	ANKIT WOOLLEN MILLS PVT LTD
2022	U70101CH1990PTC010557	NIRMAL PROJECTS AND ESTATES PVT LTD
2023	U21023CH1990PTC010561	DEEPMINI CARDBOARD PVT LTD
2024	U30009CH1990PTC010564	ACE ELECTRONICS SYSTEMS PVT LTD
2025	U15143PB1990PTC010586	G SONS SOLVEX PVT LTD
2026	U24232HP1990PTC010587	SAICHEM FORMULATIONS PVT LTD
2027	U51395CH1990PTC010591	TIPS MARKETING PVT LTD
2028	U28111HP1990PTC010593	PUSHAP DOOR FRAMES PVT LTD
2029	U27310HP1990PTC010600	MAHAVIR CASTINGS PVT LTD
2030	U24235PB1990PTC010601	DYNAMIC VETERINARY PVT LTD
2031	U99999PB1990PTC010606	SPEEDWAYS TYRE AND TREAD PVT LTD
2032	U26921PB1990PTC010611	PUNJAB BRICKS MANUFACTURING CO PVT LTD
2033	U17115HP1990PTC010616	KUNAL SPINNERS PVT LTD
2034	U21012PB1990PTC010619	CHETAK PAPER MILLS PVT LTD
2035	U60231CH1990PTC010625	ONENITE EXPRESS PVT LTD
2036	U33208PB1990PTC010626	G R COMPUGRAPHICS PVT LTD
2037	U31200PB1990PTC010627	IND ASIA SWITCHGEAR PVT LTD
2038	U28939PB1990PTC010632	MALWA HARDWARE PRODUCTS PVT LTD
2039	U64203CH1990PTC010636	CONCEPT TELE BUSINESS PVT LTD
2040	U25209CH1990PTC010638	DHILLON POLYMERS PVT LTD
2041	U29305PB1990PTC010643	TARAN INNOVATIVE APPLIANCES PVT LTD
2042	U24299HP1990PTC010644	ABHI CHEMICALS PVT LTD
2043	U28991HP1990PTC010653	GENUINE SCREWS PVT LTD
2044	U28991HP1990PTC010654	EVERSHINE FASTENERS PVT LTD
2045	U28991HP1990PTC010655	HIM LAND FASTENERS PVT LTD
2046	U60221PB1990PTC010659	BADHAAN TRANSPORT COMPANY PVT LTD
2047	U51909PB1990PTC010661	SARB OVERSEAS COMPANY PVT LTD
2048	U45201PB1990PTC010662	S G BUILDERS PVT LTD
2049	U26932PB1990PTC010671	GIRIRAJ CERAMICS PVT LTD
2050	U25209CH1990PTC010672	NEW TREND CHEMPLAST PVT LTD
2051	U80302PB1990PTC010675	SURI INSTITUTE OF COMPUTER TRAINING PVT LTD
2052	U25209CH1990PTC010677	ANITA PLASTICS PVT LTD
2053	U99999PB1990PTC010678	DELUXE BUS PVT LTD
2054	U25209PB1990PTC010682	PANDIT PLAST PVT LTD
2055	U85110PB1990PTC010684	SIGMA COLOUR FLOW SCANNING PVT LTD
2056	U21011CH1990PTC010685	PAG PULP FIBRES PVT LTD
2057	U29191PB1990PTC010687	VIAAY REFRIGERATIONS PVT LTD

2058	U51909PB1990PTC010689	GRACE EXPORTS PVT LTD
2059	U55101PB1990PTC010690	KAINAAT HOTELIERS PVT LTD
2060	U70101CH1990PTC010698	PACIFIC ESTATES PVT LTD
2061	U60221PB1990PTC010701	EXPRESS HIGHWAYS PVT LTD
2062	U25209PB1990PTC010704	KARTAR PLASTICS PVT LTD
2063	U24232CH1990PTC010705	LAKSHMI MEDICINE PVT LTD
2064	U85110CH1990PTC010715	NORTHERN INDIA SCANNING RESEARCH CENTRE PVT LTD
2065	U50101PB1990PTC010722	MANEET MOTERS PVT LTD
2066	U15311PB1990PTC010724	TEJ ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
2067	U27202PB1990PTC010731	BEDI BRASSE TECHNIC PVT LTD
2068	U25199PB1990PTC010732	MAHAVIR RUBBERS PVT LTD
2069	U55204CH1990PTC010736	DINER S CATERING SERVICES PVT LTD
2070	U51909PB1990PTC010747	GAMA TRADERS PVT LTD
2071	U55101HP1990PTC010749	BARAG HEIGHTS HOTELS PVT LTD
2072	U55101HP1990PTC010750	DALEVIEW HOTELS PVT LTD
2073	U31909PB1990PTC010768	HENNA ELECTRICALS INDIA PVT LTD
2074	U27109CH1990PTC010772	HIMMAT PIPES PVT LTD
2075	U29219PB1990PTC010774	VIKRAM DIESEL ENGINES PVT LTD
2076	U55101PB1990PTC010775	VENUS PLAZA RESORTS PVT LTD
2077	U17115PB1990PTC010778	BEDI TEXTILES PVT LTD
2078	U99999PB1990PTC010785	BHUPINDER NURSING HOME PVT LTD
2079	U55101HP1990PTC010786	DAFFEDILS RESERTS PVT LTD
2080	U34300CH1990PTC010787	BRAR AUTOS PVT LTD
2081	U55101CH1990PLC010792	KETI PARKS AND HOTELS LTD
2082	U33119PB1990PTC010796	VULCAN LOESS PVT LTD
2083	U99999CH1990PTC010797	UNIASHI EXPORTERS PVT LTD
2084	U27106PB1990PLC010807	DIAMOND ALLOYS P LTD
2085	U51909CH1990PTC010810	ORBIT ENTERPRISES PVT LTD
2086	U21098HP1990PTC010821	DOCTOR CARBONS PVT LTD
2087	U31200PB1990PTC010822	NIRMAN TRANSMISSION PVT LTD
2088	U24232PB1990PTC010830	A H LABORATORIES P LTD
2089	U24219PB1990PLC010831	SUNRAY PESTICIDES P LTD
2090	U55101HP1990PTC010841	GAGAN RESORTS PVT LTD
2091	U24246CH1990PLC010844	SPARX COSMETICS LTD
2092	U28999CH1990PTC010846	TEG INDUSTRIAL FABRICATORS PVT LTD
2093	U26959CH1990PTC010848	PUNJAB CEMENTS PVT LTD
2094	U29219HP1990PTC010853	HAMIR AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY PVT LTD
2095	U51909PB1990PTC010858	JAGDAMBAY IRON TRADERS P LTD
2096	U27109PB1990PTC010866	MANGLAM METAL PRODUCTS PVT LTD
2097	U92490CH1990PTC010876	MEDINI ENTERTAINMENTS PVT LTD
2098	U15331PB1990PTC010888	RANDHAWA FEEDS PVT LTD
2099	U34103CH1990PTC010891	TS CARWAYS INDIA PVT LTD

2100	U51909PB1990PTC010893	MARVEX ENTERPRISES PVT LTD
2101	U51909PB1990PTC010894	MAHASHVETA TRADERS PVT LTD
2102	U17115PB1990PTC010895	REMICO TEXTILES PVT LTD
2103	U51909PB1990PTC010896	PRAGBHAT EXPORTERS PVT LTD
2104	U28999PB1990PTC010898	PEE ENN WIRES PVT LTD
2105	U27106PB1990ULT010911	RITU ALLOYS PVT LTD
2106	U55101PB1990PTC010919	EAGLE HOTELS PVT LTD
2107	U15141PB1990PTC010920	GREENLAND OIL AND VANASPATI MILLS PVT LTD
2108	U35921PB1990PTC010921	HARJIT CYCLE PVT LTD
2109	U29309CH1990PTC010931	K C APPLIANCES PVT LTD
2110	U25114PB1990PTC010932	PUNJAB COLD RETREDS PVT LTD
2111	U27105PB1990PTC010942	SURYA STRIPS PVT LTD
2112	U60231PB1990PTC010944	ALL INDIA GOODS SERVICES PVT LTD
2113	U64210PB1991PTC010950	PEE ESS COURIERS PVT LTD
2114	U25209CH1991PTC010958	GLAZE CHEMPLAST PVT LTD
2115	U51909PB1991PTC010960	DECENT IMPORTS AND EXPORTS PVT LTD
2116	U17117CH1991PTC010963	MAHESH SPINNING MILLS PVT LTD
2117	U55101PB1991PTC010966	NEHA PALACE PVT LTD
2118	U17291PB1991PTC010968	GOLDEN COMPUTERISED EMBROIDERY PVT LTD
2119	U19201PB1991PTC010972	LIONS FOOTWEARS PVT LTD
2120	U30006CH1991PTC010975	EXCELSIOR COMPUTERS PVT LTD
2121	U51109CH1991PTC010979	DOOR STEPS FOODS AND IMPLEMENTS SERVICES PVT LTD
2122	U55101HP1991PTC010982	GURSHIVA RESORTS PVT LTD
2123	U64204PB1991PTC010985	MEAR COMMUNICATIONS PVT LTD
2124	U26921PB1991PTC010992	KARAN CLAYWARE PVT LTD
2125	U74994CH1991PTC010995	DYNASTY LANDSCAPES PVT LTD
2126	U99999PB1991PTC010996	HARS TEXTILES PVT LTD
2127	U74999PB1991PLC010997	SHRIRAM SOORYA ASSOCIATES LTD
2128	U29222PB1991PTC011006	VIKAS TOOLS PVT LTD
2129	U55101HP1991PTC011010	SATELLITE RESORTS PVT LTD
2130	U51909CH1991PTC011017	CHANDIGARH COMPUTERS PVT LTD
2131	U15142CH1991PTC011021	ROWINO OIL MILLS PVT LTD
2132	U17118PB1991PTC011022	APSARA FABRICS PVT LTD
2133	U51494CH1991PTC011031	ESHAAN EXPORTS PVT LTD
2134	U28939PB1991PTC011033	KAHLON ENGINEERING WORKS PVT LTD
2135	U63040PB1991PTC011035	PANCHSHEEL TOURS AND TRAVELS PVT LTD
2136	U64120HP1991PTC011037	VIKRANT ULTRAFast COURIER PVT LTD
2137	U29309CH1991PTC011058	GEE KAYS DIGITRON ELECTRONICS INDIA PVT LTD
2138	U74999CH1991PTC011065	SHIWALIK HORTICULTURE AND LANDSCAPE CONSULTANS PVT LTD
2139	U18101PB1991PTC011067	HANDSOME KNITWEARS PVT LTD
2140	U17116HP1991PLC011070	MODI HIM ACRYLICS LTD
2141	U17115PB1991PTC011077	SEKINDER YARNS PVT LTD

2142	U45201CH1991PTC011080	CONTINENTAL BUILDERS PVT LTD
2143	U45201HP1991PTC011081	HYADES TECHNICAL SERVICE AND CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2144	U45201CH1991PTC011083	DOON CONSTRUCTIONS PVT LTD
2145	U15142PB1991PTC011090	MAHA SHVETA CHEMICALS PVT LTD
2146	U21021PB1991PTC011095	A G S PULPS PVT LTD
2147	U51216PB1991PTC011101	PUNJAB HARTMANN SKINS PVT LTD
2148	U23201CH1991PLC011108	S N S INDUSTRIAL GASES LTD
2149	U45202PB1991PTC011112	PUNJAB BOARDS PVT LTD
2150	U63040CH1991PTC011113	HARPAUL TOURS AND TRAVELS PVT LTD
2151	U31109CH1991PTC011115	LUXMI BATTERIES PVT LTD
2152	U21012CH1991PTC011118	J S DUPLEX BOARD PVT LTD
2153	U28121HP1991PTC011119	UNI TECHNO CYLINDERS PRIVATE LIMITED
2154	U17115PB1991PTC011122	MANU WOOLLEN AND TEXTILE MILLS PVT LTD
2155	U51311CH1991PTC011123	INNOVATIVE EXPORTS PVT LTD
2156	U32109CH1991PLC011124	MICROKLIN INDIA LIMITED
2157	U51395CH1991PTC011130	BEVERLY DIMENSIONS PVT LTD
2158	U31909CH1991PLC011133	COMFORT ELECTROS LTD
2159	U27106CH1991PTC011139	RICKY METALS PVT LTD
2160	U55101PB1991PTC011140	MAURYA HOTEL AND ESTATES PVT LTD
2161	U74920CH1991PTC011143	EXSERVICEMEN SAFETYMAN SERVICES PVT LTD
2162	U64203CH1991PTC011146	CHANDIGARH PROCTER COMMUNICATIONS PVT LTD
2163	U64203CH1991PTC011147	REGENCY COMMUNICATIONS PVT LTD
2164	U15520PB1991PTC011150	SMARAT WINE PVT LTD
2165	U19201PB1991PTC011154	NUWAVES FOOTWEARS PVT LTD
2166	U15311PB1991PTC011159	KHALSA FLOUR AND GENERAL MILLS PVT LTD
2167	U27106HP1991PTC011162	I D WIRES AND STRIPS PVT LTD
2168	U92199PB1991PTC011168	SANJEEV CINEMA PVT LTD
2169	U25207PB1991PTC011169	DIAMOND WARE PVT LTD
2170	U26941PB1991PLC011170	SOIN CEMENTS LTD
2171	U26921PB1991PTC011172	MALWA BRICKS PVT LTD
2172	U19116PB1991PTC011186	AJIT POLYMERS PVT LTD
2173	U92411CH1991PTC011201	OLYMPIC TRIMLINE PVT LTD
2174	U24231CH1991PTC011204	JONATHAN MEDICARE PVT LTD
2175	U29191CH1991PTC011206	PASRICHA ENTERPRISES PVT LTD
2176	U21012CH1991PTC011207	KAVERI ENTERPRISES PVT LTD
2177	U27106CH1991PTC011217	RAJDEEP ALLOYS PVT LTD
2178	U26941HP1991PTC011237	VICTORY CEMENTS PVT LTD
2179	U45203CH1991PTC011239	HIMSHIKHA ENCLAVES PVT LTD
2180	U11142HP1991PLC011243	LOBHSONS AND HILSONS, HYGENICS LTD
2181	U45201PB1991PLC011246	SYNDICATE HOUSING DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT LTD
2182	U24203PB1991PTC011248	J N FILAMENT PVT LTD
2183	U01222PB1991PTC011249	CHERRY POULTRY PVT LTD

2184	U45201HP1991PTC011264	SHAWETA BUILDERS PVT LTD
2185	U45201PB1991PTC011267	KARAN ASSOCIATES PVT LTD
2186	U11271CH1991PTC011271	EVEREST OVERSEAS PVT LTD
2187	U26911CH1991PTC011272	MAHARAJA ARTS AND CERAMICS PVT LTD
2188	U24219CH1991PTC011273	MIKADO HOME CARE PVT LTD
2189	U52399PB1991PTC011278	EXCELLENT SHOPPING AIDS PVT LTD
2190	U15312HP1991PTC011280	PAONTA RICE AND FLOUR MILLS PVT LTD
2191	U15142PB1991PTC011281	DEEP OIL MILLS PVT LTD
2192	U17115PB1991PTC011284	QMPREET SPINNING AND WEAVING MILLS PVT LTD
2193	U24231PB1991PTC011285	GURU PHARMACEUTICALS PVT LTD
2194	U51311PB1991PTC011295	BAINS ENTERPRISES PVT LTD
2195	U55101CH1991PTC011303	GYPSY RESORTS PVT LTD
2196	U45202PB1958PTC011305	KIDARNATH KISHAN CHAND PVT LTD
2197	U01222PB1991PTC011311	BHAVNA POULTRIES PVT LTD
2198	U28393HP1991PTC011314	SUDHA FASTNERS PVT LTD
2199	U31101PB1991PTC011318	DEEP AEROSOLS PVT LTD
2200	U24246PB1991PTC011319	JAYNA ENGINEERING WORKS PVT LTD
2201	U30006PB1991PTC011322	TARANG UNICOMM ELECTRONICS PVT LTD
2202	U15549HP1991PTC011323	BIMLA TIRATH BREWERIES PVT LTD
2203	U18101PB1991PTC011326	RENUKA WOOLLENS PVT LTD
2204	U63040CH1991PTC011329	AERIAL TRAVELS PVT LTD
2205	U29211CH1991PTC011330	CHOPRA TRACTORS PVT LTD
2206	U29246PB1991PTC011333	GOVIND INDUSTRIES PVT LTD
2207	U45201PB1991PLC011342	TRIVENI HOUSING AND AGRO DEVELOPMENT LTD
2208	U18101CH1991PTC011345	V R GARMENTS PVT LTD
2209	U21012PB1991PTC011353	ASHU PAPER MILLS PVT LTD
2210	U24203CH1991PTC011360	VIA MARKETING PVT LTD
2211	U45202PB1991PTC011365	H K TECTONICE INDIA PVT LTD
2212	U24233PB1991PTC011366	CHALLENGER MEDICINE MFG COMPANY PVT LTD
2213	U31200PB1991PTC011371	GEMINI SWITCHGEARS PVT LTD
2214	U85110CH1991PLC011382	AMBE MAA HOSPITALS LTD
2215	U21019PB1991PTC011383	SAPPY COMPU STATIONERS PVT LTD
2216	U15135HP1991PTC011384	SHIMLA HILLS AGRO FOOD PROCESSING COMPANY PVT LTD
2217	U24231CH1991PTC011385	A B KOSCHEM FORMULATIONS PVT LTD
2218	U25209PB1991PTC011395	KAPCON PLASTICS AND ENGINEERS PVT LTD
2219	U24299PB1991PLC011397	ZIRCON AGROSIL LTD
2220	U31300PB1991PTC011398	CREATION WRES PVT LTD
2221	U26941CH1991PLC011402	NORTH INDIA CONCRETES LTD
2222	U55101PB1991PTC011410	H B HOTELS PVT LTD
2223	U17111PB1991PTC011412	GANESH WOOLEN MILLS PVT LTD
2224	U28939CH1991PTC011421	VARUN ENTERPRISES PVT LTD
2225	U29214PB1991PTC011422	GOINDWAQL AUTOCRAFT ASSOCIATES PVT LTD.

2226	U74300PB1991PTC011428	A D ASSOCIATES PVT LTD
2227	U28939PB1991PTC011429	RENE EXPORTS PVT LTD
2228	U27109CH1991PTC011430	KANDI ALLOYS PVT LTD
2229	U74999CH1991PTC011436	ANURAG BUSINESS SERVICES PVT LTD
2230	U32109CH1991PTC011441	R.S.PRECISION EQUIPMENTS PVT LTD
2231	U28939CH1991PTC011442	SUPER TECH STAPLERS PVT LTD
2232	U25199CH1991PTC011448	MOHSIT POLYMERS PVT LTD
2233	U25111PB1991PTC011458	MAJOR RUBBER PRIVATE LIMITED
2234	U28939CH1991PTC011461	ARIHANT STRUCTURES PRIVATE LIMITED
2235	U27107PB1991PTC011482	RAJINDER FURNACE PRIVATE LIMITED
2236	U45202PB1991PTC011484	MANIKARAN BUILDERS PRIVATE LIMITED
2237	U50401CH1991PLC011489	POOJA MOTORS LIMITED
2238	U31300PB1991PTC011493	GALLANT WIRES PVT LTD
2239	U17111PB1991PTC011494	GURDEEP TEXTILES PRIVATE LIMITED
2240	U25209CH1991PTC011495	BHAGWATI PIPES PRIVATE LIMITED
2241	U01222CH1991PTC011498	EASY FOODS PRIVATE LIMITED
2242	U51311PB1991PTC011501	SAUROMS TEXTRADERS PRIVATE LIMITED
2243	U15311HP1991PTC011502	N C ROLLER FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
2244	U29120PB1991PTC011504	VEE ESS VALVES PRIVATE LIMITED
2245	U45201PB1991PTC011509	SUNROSE HOUSE BUILDING COMPANY PRIVATE LIMITED
2246	U11510CH1991PTC011512	KRISHMAH TRADERS PRIVATE LIMITED
2247	U27106PB1991PTC011513	GILL STEELS PVT LTD
2248	U35921PB1991PTC011515	NIRMAL RIMS PVT LTD
2249	U27106PB1991PTC011517	ANGRISH PIPES PRIVATE LIMITED
2250	U15312PB1991PTC011520	NASA RICE AND GENERAL MILLS PVT LTD
2251	U45201PB1991PTC011521	CHAWLA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
2252	U60231PB1991PTC011525	NORTHERN LINES TRANSPORT PVT LTD
2253	U23932PB1991PTC011527	GOODMAN AUTO PRIVATE LIMITED
2254	U24119CH1991PTC011528	NAKODAR ALCO-CHEMICALS LIMITED
2255	U57909PB1991PTC011535	S P SUPPLIERS PRIVATE LIMITED
2256	U17115CH1991PTC011539	YUVRAJ SPINNERS PRIVATE LIMITED
2257	U27109PB1991PTC011541	M B METALS PRIVATE LIMITED
2258	U27310CH1991PTC011543	HUNNY FORGINGS PRIVATE LIMITED
2259	U51909CH1991PTC011547	PUPNEJA TRADERS PRIVATE LIMITED
2260	U45202CH1991PLC011549	MANGCHROME ALLAYS INDIA LTD
2261	U51109PB1991PTC011557	NIPPON IMPEX PRIVATE LIMITED
2262	U45202PB1991PTC011558	OSTRICH TRADING AND INVESTMENTS PRIVATE LIMITED
2263	U27107HP1991PTC011559	SUDHA STEEL ROLLING MILLS PVT LIMITED
2264	U32109HP1991PTC011562	A.B.ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2265	U28939CH1991PLC011564	HELICAL SPRINGS LIMITED
2266	U51109CH1991PTC011565	BGS TECHNO PRIVATE LIMITED
2267	U15203PB1991PTC011566	HIMANSHU AGRO SALES PRIVATE LIMITED

2268	U15203PB1991PTC011567	PURNIMA SALES PRIVATE LIMITED
2269	U51311CH1991PTC011568	A B MARKETING PRIVATE LIMITED
2270	U51224CH1991PTC011569	ARSH TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
2271	U55101CH1991PTC011570	TEHAL SINGH FOODS PRIVATE LIMITED
2272	U74300PB1991PLC011576	PREMIUM PAPERS LIMITED
2273	U29219CH1991PTC011585	H M S ENGINEERS PRIVATE LIMITED
2274	U27320PB1991PTC011588	MAC METALS PRIVATE LIMITED
2275	U24231HP1991PTC011595	S S REMEDIES PRIVATE LIMITED
2276	U74200CH1991PTC011603	JRN MERCANTILE AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
2277	U24249PB1991PTC011604	ANANT PERFUMERS PRIVATE LIMITED
2278	U17115CH1991PTC011605	JAINSON S SPINNING AND WEAVING MILL PVT LTD
2279	U45202PB1991PTC011610	JAS MECHANICA PVT LTD
2280	U24231HP1991PTC011611	DEXT PHARMACEUTICALS PVT LTD
2281	U45201PB1991PLC011616	M S S HOUSING DEVELOPMENT INDIA LTD
2282	U29191PB1991PTC011628	RISHI APPLIANCES PRIVATE LIMITED
2283	U60210PB1991PTC011631	PUNJAB TOUR AND TRAVEL PRIVATE LIMITED
2284	U55101HP1991PTC011632	FARM RESORTS PRIVATE LIMITED
2285	U20299PB1991PTC011638	JEEWAN ENTERPRISES PVT LTD
2286	U21017HP1991PTC011642	CHANDI COMPUTER PAPERS PVT LTD
2287	U28931PB1991PTC011643	PATIALA ALLOYS AND FORGINGS PRIVATE LIMITED
2288	U51909CH1991PTC011645	AGROMINE EXPORTS PRIVATE LIMITED
2289	U26941PB1991PTC011646	M.B.CEMENTS PRIVATE LIMITED
2290	U19202CH1991PTC011647	MALWA FOOTWEAR PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2291	U70101CH1991PTC011652	ALPS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
2292	U17309PB1991PTC011656	PITAMBER KNITWEAR PVT LTD
2293	U99999PB1991PLC011663	UNITED FORESTRY AND FLATS LIMITED
2294	U25111CH1991PTC011679	REGENT TYRES PVT LTD
2295	U55921PB1991PTC011680	O P CYCLES PVT LTD
2296	U55101HP1991PTC011684	PUSHPAK TOURIST RESORT PVT LTD
2297	U27109PB1991PLC011690	AKAL STEELS LTD
2298	U55101CH1991PTC011691	R S D RESORTS PVT LTD
2299	U74140PB1991PTC011693	FAREFAX BUSINESS INFORMATION AND CONSULTANTS PVT LTD
2300	U24221PB1991PTC011698	RANA PAINTS PVT. LTD.
2301	U92312PB1991PTC011701	M V I CASSETTES PVT LTD
2302	U21013PB1991PTC011702	DASTAR PRESS PVT LTD
2303	U45309CH1991PTC011703	MOGRA MARKETING PVT LTD
2304	U24219CH1991PTC011704	ASHWAN AGRO CHEMICALS PVT LTD
2305	U55101HP1991PLC011710	HIMALAYA CLUB LIMITED
2306	U24243CH1991PTC011713	CHANDIGARH DETERGENTS PVT LTD
2307	U45201HP1991PTC011719	SHIMLA PROMOTERS AND BUILDERS PVT LTD
2308	U15203PB1991PTC011721	NAGPAL CULTIVATORS PVT LTD
2309	U24111PB1991PTC011725	TEE GEE CHEMICALS PVT LTD

2310	U74140CH1991PTC011726	AMA ASSOCIATES PVT LTD
2311	U27101PB1991PTC011740	GOINDWAL METAL PROCESSORS PVT LTD
2312	U52393CH1991PTC011746	JUPITER GEMS PVT LTD
2313	U51393PB1991PTC011747	GLORIOUS INDUSTRIAL TUBES PVT LTD
2314	U24239PB1991PTC011749	BASPUR CHEMICALS FLUID PVT LTD
2315	U52334HP1991PTC011756	TECHNICA ELECTRONICS PVT LTD
2316	U51109PB1991PLC011759	INDO GREEK LABORATORIES INDIA LTD
2317	U15311PB1991PTC011761	SANDEEP ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
2318	U64120HP1991PTC011763	HIMACHAL COURIERS PVT LTD
2319	U99999HP1991PTC011764	SUNRAYS COURIERS PVT LTD
2320	U25191CH1991PTC011766	APPU POLY PRODUCTS PVT LTD
2321	U34300PB1991PTC011789	MANN AUTO PARTS PVT LTD
2322	U59395CH1991PTC011794	DHALIWAL MARKETING ASSOCIATES PVT LTD
2323	U29119PB1991PTC011796	F M PUMPS PVT LTD
2324	U63040PB1991PTC011800	SATWANT ROADWAYS PVT. LTD.
2325	U74950PB1991PTC011801	TEXLA OFFSET AND PACKAGINGS PVT LTD
2326	U28939PB1991PTC011802	M S HARDWARES PVT LTD
2327	U72000PB1991PTC011804	CREATIVE ANALYSIS AND CONCEPTS PVT LTD
2328	U29298CH1991PTC011819	DALIP LAMINATORS PVT LTD
2329	U25111PB1991PTC011828	UTTAM TYRES PVT LTD
2330	U15142CH1991PTC011829	SHEETAL OILS AND FATS PVT LTD
2331	U25199PB1991PTC011832	MEHARDEEP RECLAIM RUBBERS PVT LTD
2332	U60221CH1991PTC011836	COSMOS MICRO SYSTEMS PVT LTD
2333	U25199PB1991PTC011840	PHONIX RUBCO PVT LTD
2334	U51909HP1991PTC011842	CRUX MARKETING PVT LTD
2335	U15203CH1991PLC011846	ALLTHEA FOODS LTD
2336	U19112PB1991PTC011849	DYNAMIC TANNERIES PVT LTD
2337	U28939PB1991PTC011851	MALWA FABRS PVT LTD
2338	U15203PB1991PTC011852	JAMMY MILK FOOD PVT LTD
2339	U55101CH1991PTC011853	PUNJAB ORGANICS PVT LTD
2340	U21014PB1991PLC011858	SADASHIV PRINT PACK WORKS LTD
2341	U15203CH1991PTC011860	RADHEY SHYAM DAIRY PRODUCTS PVT LTD
2342	U27101PB1991PTC011864	VIDYA RE-ROLLING MILLS PVT LTD
2343	U24119HP1991PTC011866	Z E METALS PVT LTD
2344	U26942HP1992PTC011871	ATUL CEMENT PVT. LTD.
2345	U17111PB1992PTC011875	SAHIB SPINNERS PVT LTD
2346	U74300CH1992PTC011876	SIDHARATH MEDIA PUBLICATIONS PVT. LTD.
2347	U31300CH1992PTC011887	OBSERVER COMPOUNDS PVT LTD
2348	U27105PB1992PTC011888	C.R. STRIPS AND TUBES PVT LTD
2349	U51109PB1992PTC011889	NATURAL LAMINATES PVT LTD
2350	U15491CH1992PTC011898	ROYAL LEAVES PVT LTD
2351	U45202CH1992PTC011905	VALLABH NARROW FABRICS PVT LTD

2352	U17115PB1992PTC011909	ASHA COTTON MILLS PVT LTD
2353	U23203HP1992PTC011911	F L BOTTLING PLANT PVT LTD
2354	U99999CH1992PTC011912	GOBIND PIPES PVT. LTD.
2355	U91120PB1992PTC011922	S.G.S. HYDRAULICS INDIA PVT LTD
2356	U17115PB1992PTC011923	SRI HEMKUNT SPINNING MILLS PVT LTD
2357	U55101CH1992PTC011928	PUSHPLOK HOTELS PVT LTD
2358	U60231CH1992PTC011929	ADVANCE BULK CARRIERS PVT. LTD.
2359	U29309CH1992PTC011930	EASE APPLIANCES PVT LTD
2360	U99999PB1992PTC011935	B S AHUJA ESTATES PVT LTD
2361	U51909CH1992PTC011943	BIR SALES PVT LTD
2362	U24222PB1992PTC011946	AARTI COLOURS PVT LTD
2363	U51909PB1992PTC011949	SACHARSONS MERCHANTILE PVT. LTD.
2364	U26101PB1992PTC011952	AERO TOUGHENED GLASS PVT. LTD.
2365	U50200PB1992PTC011960	KULDEEP CAR SCANNING PVT LTD
2366	U15311PB1992PTC011963	SAGAR ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
2367	U25209PB1992PTC011966	SHIVALIK PLASTICS PVT LTD
2368	U51909PB1992PLC011971	R M OVERSEAS LTD
2369	U31909HP1992PTC011976	POONAMHIM ELECTRICALS PVT LTD
2370	U27106CH1992PTC011979	SEVEN STAR WIRES PVT. LTD.
2371	U25209CH1992PTC011980	ALAMGIR PLASTICS PVT LTD
2372	U91120CH1992PTC011982	N K INDUSTRIAL ADVISERS PVT LTD
2373	U19112PB1992PTC011983	SANDHU LEATHERS PVT LTD
2374	U55101HP1992PTC011987	SOVEREIGN RESORTS AND BUILDERS PVT LTD
2375	U70101CH1992PTC011989	PURI BUILDERS LIMITED
2376	U17111PB1992PTC011990	JODHKA TEXTILE MILLS PVT LTD
2377	U85110CH1992PTC011992	CHANDIGARH DENTAL PVT LTD
2378	U51109CH1992PTC011993	G.B. IMPEX PVT. LTD.
2379	U15209PB1992PTC011997	SIDANA FOODS SPECIALIST PVT LTD
2380	U45201CH1992PTC011998	SELECTION CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2381	U51109PB1992PTC012000	RAJ WHEELS PVT LTD
2382	U31909PB1992PTC012002	CENTURY ELECTRODES PVT LTD
2383	U55101PB1992PTC012005	TEAM UP IMPEX PVT LTD
2384	U24222HP1992PTC012006	NAMIEX COLOURS PVT LTD
2385	U74940CH1992PTC012038	D K BUSINESS SERVICES PVT LTD
2386	U51909PB1992PTC012045	SHANKAR LAL SHARDA TRADING COMPANY PVT LTD
2387	U51311PB1992PTC012046	NARAYAN COTTON TRADERS PVT LTD
2388	U51909PB1992PTC012047	SHARDA AND SONS TRADERS PVT LTD
2389	U45201CH1992PLC012051	SAMAJ HOUSING DEVELOPMENT (INDIA) LTD
2390	U51109CH1992PTC012054	COMET MARKETING PVT LTD
2391	U51909PB1992PTC012061	SKYWAY IMPEX PVT LTD
2392	U51109PB1992PTC012065	DASUYA EXPORTS PVT LTD
2393	U51909CH1992PTC012068	CHOHAN DISTRIBUTORS PVT LTD

2394	U19113PB1992PTC012070	JUPITER TANNERIES PVT LTD
2395	U25110CH1992PTC012074	MIR RUBBERS PVT LTD
2396	U45201CH1992PTC012078	SIERRA BUILDERS PVT LTD
2397	U60210HP1992PTC012080	WH ADVENTURE TRAVEL PVT LTD
2398	U36939CH1992PTC012083	ACE SPORTS PVT LTD
2399	U27106CH1992PTC012088	JAIAMBE STEELS PVT LTD
2400	U55101PB1992PTC012092	PARVATESHWAR HOTELS AND RESORTS PVT LTD
2401	U63040CH1992PTC012094	MOIN TRAVELS PVT LTD
2402	U27106HP1992PTC012096	HIMACHAL IRON AND STEEL PVT LTD
2403	U28994PB1992PTC012114	BIR SANITARY WARES PVT LTD
2404	U24119PB1992PTC012118	A B DYE-CHEM PVT LTD
2405	U24111PB1992PTC012121	SAMSONS GASES PVT LTD
2406	U51909PB1992PTC012124	SIDHUWAL SALES PVT LTD
2407	U60210PB1992PTC012131	GREYHOUND ROADLINES PVT LTD
2408	U63040PB1992PTC012132	BAHIA TRAVELS PVT LTD
2409	U19201HP1992PTC012134	SANJAY RAKESH FOOTWEAR PVT LTD
2410	U24119CH1992PTC012135	VISHAL CHEM-TECH PVT LTD
2411	U35921PB1992PTC012146	NATRAJ RIMS PVT LTD
2412	U27310PB1992PTC012147	ANAND CASTINGS PVT LTD
2413	U55101HP1992PTC012150	CHAMUNDA HOTELS AND RESTAURANTS PVT LTD
2414	U51909CH1992PTC012156	MACKS EXPORTS LTD
2415	U52201CH1992PTC012158	TEHAL SINGH DELICIOUS PVT LTD
2416	U74995PB1992PTC012167	ADAM RECRUITING SERVICES PVT LTD
2417	U22219PB1992PTC012170	MOHINDRA OFFSET PRINTERS PVT LTD
2418	U18101PB1992PTC012173	KARAN KNITWEARS PVT LTD
2419	U24119PB1992PTC012174	NEETS CHEMICALS AND ALLIED WORKS PVT LTD
2420	U52201PB1992PTC012176	EMM ELL FOODS PVT LTD
2421	U25191CH1992PTC012178	SATLUJ POLY PRODUCTS PVT LTD
2422	U19119PB1992PTC012192	BHAICA LEATHERWARE PVT LTD
2423	U27104PB1992PTC012196	KISCON STEEL INDUSTRIES PVT LTD
2424	U51909CH1992PTC012200	HIMALYAN EXTRACTS PVT LTD
2425	U51909CH1992PTC012206	SONU ENTERPRISES PVT LTD
2426	U40109CH1992PLC012210	EARTHEN ENERGIES LTD
2427	U25111PB1992PLC012217	THAPAR TYRES LTD
2428	U24119PB1992PLC012223	THAPAR ORGANICS LTD
2429	U17219PB1992PTC012224	KHALSA TEXTILES PVT LTD
2430	U51226PB1992PLC012225	THAPAR TEA LTD
2431	U26942PB1992PLC012226	THAPAR CEMENTS LTD
2432	U24119CH1992PLC012227	GEE CHEMICALS LTD
2433	U25111PB1992PTC012232	LAKHANI TYRES PVT LTD
2434	U25191HP1992PTC012236	SINGLA POLYMERS PVT LTD
2435	U15319PB1992PTC012247	SUNDER SOLVEX PVT LTD

2436	U15201PB1992PLC012249	SUNDER MILK AND ALLIED PRODUCTS LTD
2437	U15143CH1992PLC012265	A M OIL AND FATS LTD
2438	U51909PB1992PTC012275	CREATIK MARKETING AND CONSULTANTS PVT LTD
2439	U74950PB1992PTC012280	KAY AAR PACKERS PVT LTD
2440	U51909CH1992PTC012287	M R S IMPEX PROJECTS PVT LTD
2441	U45201CH1992PTC012294	SHAINA MASTER BUILDERS PVT LTD
2442	U15412CH1992PTC012300	STERLING BAKERIES PVT LTD
2443	U36104PB1992PTC012306	DURABLE COIR PVT LTD
2444	U51909CH1992PTC012310	IBP OVERSEAS PVT. LTD.
2445	U74999CH1992PTC012311	POONAM ENTERPRISES PVT LTD
2446	U52190PB1992PTC012312	KIDARSONS MARKETING COMPANY PVT LTD
2447	U24119PB1992PTC012320	FINEX CHEMS AND GASSES PVT LTD
2448	U27203PB1992PTC012324	SHIV SHAKTI ALUMINIUM PVT LTD
2449	U15542PB1992PTC012329	SULTAN KOOL DRINKS PVT LTD
2450	U60231PB1992PTC012330	SANDHU CARRIERS PVT LTD
2451	U21012PB1992PTC012331	B J S PAPER MILLS PVT LTD
2452	U27104PB1992PLC012347	PUNJAB STRIPS LIMITED
2453	U55101PB1992PTC012349	AMACS HOTELS PVT LTD
2454	U17212CH1992PTC012350	A S GARMENTS PVT LTD
2455	U32301PB1992PTC012353	AA Y PEE ELECTRONICS PVT LTD
2456	U34300HP1992PTC012357	TRIVENI AUTO SUSPENSIONS PVT LTD
2457	U70101HP1992PTC012358	CPS ESTATES PVT LTD
2458	U31102CH1992PTC012360	SUPER TECHNO TRANSFORMERS PVT LTD
2459	U18101HP1992PTC012361	HEAVEN HOSIERY PVT LTD
2460	U27106CH1992PTC012362	MALIK ENTERPRISES PVT LTD
2461	U32301PB1992PTC012365	K.K.NEO-VISION PVT LTD
2462	U74999CH1992PTC012376	CELLULOSIC ENGINEERS AND CONSULTANTS PVT LTD
2463	U72200CH1992PTC012377	SOFTMART COMPUTECH PVT LTD
2464	U15143CH1992PTC012379	SWASTIK FATS PVT LTD
2465	U51909CH1992PTC012384	CHATRATH AND COMPANY IMPEX PVT LTD
2466	U85110CH1992PTC012387	TABE TREATMENT CLINICS PVT LTD
2467	U74140CH1992PLC012397	ASHISH PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES LTD
2468	U51909CH1992PTC012398	SURBHI TRADE ENTERPRISES PVT LTD
2469	U24233HP1992PTC012405	INDUS HERBAL REMEDIES PVT LTD
2470	U17111CH1992PTC012412	AMAR THREADS PVT LTD
2471	U51909PB1992PTC012417	SHANNON SALES PVT LTD
2472	U21029PB1992PTC012418	PUNJAB PAPER BOX PVT LTD
2473	U29265CH1992PTC012427	PARTAP SEWING MACHINES PVT LTD
2474	U15310PB1992PTC012435	VARINDER ROLLER FLOUR MILLS PVT LTD
2475	U15140PB1992PTC012437	HIGHWAYS AGROFOODS AND MILK PROCESSORS PVT LTD
2476	U45209CH1992PTC012448	SANTT CHEMI PROJECTS PVT LTD
2477	U15310CH1992PTC012452	ESS BEE AGRO ENTERPRISES PVT LTD

2478	U29191CH1992PTC012453	AERO COMPRESSORS PVT LTD
2479	U52322PB1992PTC012455	TRIPLEX FIBRES PVT LTD
2480	U52322PB1992PTC012456	EMM EMM FIBRES PVT LTD
2481	U74940PB1992PTC012459	MALHOTRA COLOUR LAB. PVT LTD
2482	U19201PB1992PTC012460	YARK LEATHER PVT LTD
2483	U51420PB1992PTC012474	NISTHA COLD FORGE PVT LTD
2484	U51909CH1992PTC012477	MITHUL EXPORTS PVT LTD
2485	U55101HP1992PLC012480	HILLMAN HOTELS AND RESORTS LTD.
2486	U45203CH1992PTC012482	JAP ASSOCIATES ENGINEERS AND CONTRACTORS PVT LTD
2487	U85310PB1992PTC012484	OSAHAN HOSPITAL AND MEDICAL EDUCATION CENTRE PVT LTD
2488	U63090PB1992PLC012490	BARON AEROTECH LIMITED
2489	U18200HP1992PTC012493	AKSHAY WOOLLENS PVT LTD
2490	U50400CH1992PTC012494	PAR EXCELLENCE MOTOR WORKS PVT LTD
2491	U52322PB1992PTC012495	REGENCY IMPEX PVT LTD
2492	U18200PB1992PTC012496	RISHAB KNITWEARS PVT LTD
2493	U27104PB1992PTC012500	ARORA ISPAT ENTERPRISES PVT LTD
2494	U26941HP1992PTC012502	SANGRAM CEMENTS PVT LTD
2495	U28113CH1992PTC012503	AMBIKA SYSTEMS PVT LTD
2496	U27104PB1992PTC012513	R V METAL WORKS PVT LTD
2497	U31103CH1992PTC012518	MITANIA ELECTRICAL APPLIANCES PVT LTD
2498	U24291PB1992PTC012521	BEE KAY LABORATORIES PVT LTD
2499	U19201CH1992PTC012526	KAY PEE RUBBERS PVT LTD
2500	U23109CH1992PTC012527	AKAL SAHAY BRICK WORKS PVT LTD
2501	U26941CH1992PTC012540	POWAR CEMENTS PVT LTD
2502	U34102PB1992PTC012543	LASKO ENGINEERS PVT LTD
2503	U41000CH1992PTC012546	KANDI GEOLOGICAL WORKS PVT LTD
2504	U51505CH1992PTC012547	MARIGOLD APPLIANCES PVT LTD
2505	U22121PB1992PTC012549	VEER BHARTI NEWS MEDIA PVT. LTD.
2506	U40101CH1992PTC012565	QUALITY SILICON STAMPINGS PVT LTD
2507	U52342CH1992PTC012580	HALLYCON PAINTS PVT LTD
2508	U27100PB1992PTC012585	M K S FORGINGS PVT LTD
2509	U52322PB1992PTC012600	BLUE WINGS EXPORTS PVT LTD
2510	U55101HP1992PTC012603	ARUN RESORTS PVT LTD
2511	U64120HP1992PTC012614	MOON LIGHT COURIER PVT LTD
2512	U27109CH1992PTC012615	M H METALS PVT LTD
2513	U74210CH1992PTC012625	NEW SAMRAT FURNISHERS AND DECORATORS PVT LTD
2514	U51397CH1992PLC012628	NECTAR (INDIA) LIMITED
2515	U15143PB1992PTC012629	RAMPURA SOLVEX PVT LTD
2516	U21011PB1992PLC012638	MALKIAT PAPERS LTD
2517	U29191CH1992PTC012659	CLAYTON EQUIPMENTS PVT LTD
2518	U25119PB1992PTC012669	HI-GRIP RUBBER PVT LTD
2519	U25200CH1992PTC012675	MOHIT POLYPACKS PVT LTD

2520	U52322CH1992PTC012676	SEKHON EXPORTS PVT LTD
2521	U45203CH1992PTC012677	A.K.GUPTA CONTRACORS PRIVATE LIMITED
2522	U29255PB1992PTC012681	CHOUDHARY WELDING ELECTRODES PRIVATE LIMITED
2523	U72502PB1992PTC012683	SUN DATAMATRIX SERVICES PRIVATE LIMITED
2524	U24219PB1992PTC012688	NORTH SOUTH ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2525	U51397HP1992PTC012692	PARAS COSMETICS AND DRUGS PRIVATE LIMITED
2526	U70101PB1992PTC012702	BHRATA LEASING ESTATES AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
2527	U27201PB1992PLC012709	TRIMURTI MACHINES LIMITED
2528	U95192CH1992PTC012712	ATLANTIC REMEDIES PRIVATE LIMITED
2529	U24111PB1992PTC012713	NANGAL CHEMICALS PRIVATE LIMITED
2530	U61100PB1992PTC012728	BATH TRANSPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
2531	U29246PB1992PTC012740	MEMORI PRINTECH WORKS PRIVATE LIMITED
2532	U64120CH1992PTC012741	LINK WAY COURIERS PRIVATE LIMITED
2533	U24232PB1992PTC012749	A.G.ORGANICS PRIVATE LIMITED
2534	U27310PB1992PTC012751	SANDAL STEELS PRIVATE LIMITED
2535	U74999CH1992PTC012757	MESSO EXPORTS PRIVATE LIMITED
2536	U31300HP1992PTC012766	MANDAV TRANSFORMERS UDYOG PRIVATE LIMITED
2537	U27109PB1992PTC012773	EVERSHINE CONCAST PRIVATE LIMITED
2538	U17115PB1992PTC012779	TAYAL TEXTILES PRIVATE LIMITED
2539	U24129CH1992PTC012780	MALWA ORGANICS PVT LIMITED
2540	U55100HP1992PTC012781	EMM ELL RESORTS PVT LIMITED
2541	U45203CH1992PTC012784	CREATIVE CONTRACTORS AND ENGINEERS PVT LTD
2542	U50102PB1992PTC012792	BRAR HIGHWAYS MOTORS PVT LIMITED
2543	U31109CH1992PTC012801	ANGAD ACCUMULATORS PVT LIMITED
2544	U25111PB1992PTC012812	BEDI TYRE CENTRE PVT LIMITED
2545	U60210PB1992PTC012814	EK ROOP TRANSPORT PVT LTD
2546	U21011PB1992PLC012824	SUKHMANI CAPTS LIMITED
2547	U21011PB1992PLC012825	SUKHMANI PAPERS LIMITED
2548	U17111PB1992PTC012826	LUDHIANA SYNTHETICS PVT LIMITED
2549	U52322PB1992PTC012834	ZEECON IMEX PRIVATE LIMITED
2550	U21012PB1992PTC012854	PUNJAB PULP PRIVATE LIMITED
2551	U29250PB1992PTC012858	DHILLON MACHINES PVT LIMITED
2552	U24222PB1992PLC012874	PUNJAB INSECTICIDES LIMITED
2553	U25199PB1992PTC012879	OMAX RUBBER PVT LIMITED
2554	U15311PB1992PTC012883	JALANDHAR ROLLER FLOUR MILLS PVT LIMITED
2555	U15543CH1992PTC012884	TINGOS FOODS PVT LIMITED
2556	U51909PB1993PTC012887	GANGOTRI COUNTS PVT LIMITED
2557	U36939PB1993PTC012889	FIVE STAR SPORTS IMPEX PVT LIMITED
2558	U27106PB1993PLC012893	GURU ALLOYS LIMITED
2559	U24231CH1993PTC012894	SPARKLE SANITARIAN INDIA PVT LIMITED
2560	U60210PB1993PTC012896	SOWADI TRANSPORT COMPANY PVT LIMITED
2561	U35921PB1993PTC012899	VIKAS CYCLE PARTS PVT LIMITED

2562	U24222CH1993PLC012901	SONIKA PAINTS LIMITED
2563	U18101PB1993PTC012904	BENSIM GARMENTS PVT. LIMITED
2564	U26921CH1993PTC012909	CLAYTECH CERAMICS PVT LIMITED
2565	U19201CH1993PTC012911	DECENT SHOES PVT LIMITED
2566	U35921PB1993PTC012915	G.P.SUTLEJ CYCLES PVT LIMITED
2567	U50103PB1993PTC012916	RONNY AUTOMOTIVES PVT LIMITED
2568	U29219PB1993PTC012921	N.J.AGRICULTURE IMPLEMENTS PVT LIMITED
2569	U60210PB1993PTC012934	SHAHKOT TRANSPORT COMPANY PVT LIMITED
2570	U24231PB1993PTC012940	AESKELA REMADIE PVT LIMITED
2571	U63040CH1993PTC012945	FRONTIER TRAVELS PRIVATE LIMITED
2572	U17117PB1993PTC012952	MEGHA WOOLLEN MILLS PVT LIMITED
2573	U70101PB1993PTC012955	AMRIT HOUSING PVT LIMITED
2574	U51909CH1993PTC012959	CHIEF EXPORTS PVT LIMITED
2575	U17117PB1993PTC012966	R.K.WHEELS PRIVATE LIMITED
2576	U55101HP1993PTC012972	DALEVIEW RESORTS PVT LIMITED
2577	U29104PB1993PTC012974	MOGA CASTINGS PVT LIMITED
2578	U35999PB1993PTC012982	DHAULADHAR FABRICATORS PVT LIMITED
2579	U17219PB1993PLC012983	OSWAL COTSYN LIMITED
2580	U17219PB1993PTC012990	BATHINDA SPINNING MILLS PVT LIMITED
2581	U27104CH1993PTC012992	A AND A STEELS PVT LIMITED
2582	U26942CH1993PTC012993	NAVYA CEMENT PVT LIMITED
2583	U32109PB1993PTC012994	BELTEX COMMUNICATIONS PVT LIMITED
2584	U51909PB1993PTC012997	PREMIER FLOORINGS PVT LIMITED
2585	U51909CH1993PLC013001	ASHWAN DISTRIBUTORS LIMITED
2586	U24231PB1993PLC013013	JAPSON REMEDIES LIMITED
2587	U24231PB1993PTC013014	LEXUS BIOTECH PVT LIMITED
2588	U32109PB1993PTC013015	KISAN ELECTRODES PVT LIMITED
2589	U27310PB1993PTC013016	SUKHDARSHAN FORGING PVT LIMITED
2590	U55201HP1993PTC013019	TUDOROSE FOODS AND BEVERAGES INDIA PVT LIMITED
2591	U51909PB1993PTC013026	JAGDAMBAY TRADING COMPANY PVT LIMITED
2592	U15141CH1993PLC013028	OLYMPIC AGROILS LTD
2593	U17122PB1993PTC013034	RANAS DESIGNER SAREES PVT LIMITED
2594	U55101HP1993PTC013035	ARJUN MOTELS AND RESORTS PVT LIMITED
2595	U17219PB1993PTC013042	SHETEX TEXTILES PVT LIMITED
2596	U45201CH1993PTC013043	NESTS BUILDERS PVT LIMITED
2597	U19119CH1993PLC013048	SHELTER BAY LEATHERS LIMITED
2598	U51909PB1993PTC013058	VIRK EXPORT AND MANPOWER MANAGEMENT SERVICES PVT LIMITED
2599	U27320PB1993PTC013059	HANS ALLOY WORKS PVT LIMITED
2600	U27310PB1993PTC013060	DEEP FORGE INDIA PVT LIMITED
2601	U22211PB1993PTC013068	VAQT PRINTERS PVT LIMITED
2602	U17123PB1993PTC013084	G K WOOLLEN MILLS PVT LIMITED

2603	U15201PB1993PTC013085	O B MILK FOOD PVT LIMITED
2604	U25191PB1993PTC013087	NOTA PLASTOFAB PVT LIMITED
2605	U45201CH1993PTC013088	OVERLINE CONSTRUCTIONS PVT.LTD.
2606	U80903PB1993PTC013110	SARDAR NACHHATER SINGH GILL EDUCATIONAL AND SPORTS CLUB P
2607	U22211PB1993PTC013116	PUNJABI MEDIA PVT LTD
2608	U51909CH1993PTC013122	LALLY IMPEX PVT LTD
2609	U60210PB1993PTC013124	MALKIT TRANSPORT COMPANY PVT LTD
2610	U19129PB1993PTC013126	MASTER LEATHERS PVT LTD
2611	U22219CH1993PTC013131	TANIA PRINTERS PVT LTD
2612	U45201CH1993PTC013145	BHAGWANTI BUILDERS PVT LTD
2613	U51909PB1993PTC013174	ALKA OVERSEAS PVT LTD
2614	U32909HP1993PTC013188	ELECTRKOHLI INDIA PVT LTD
2615	U74950CH1993PTC013208	SHIVAM PRINTPACK PVT LTD
2616	U15311PB1993PTC013220	CHAWLA FLOUR MILLS PVT LTD
2617	U26921PB1993PTC013228	J T STEEL TUBES PVT LTD
2618	U27310PB1993PTC013233	FORWARD FORGERS PVT LTD
2619	U15319PB1993PTC013246	MAHARANI DAL AND GENERAL MILLS PVT LTD
2620	U51909PB1993PTC013247	CHAITNYA EXPORTS PVT LTD
2621	U25199CH1993PLC013248	RANSON RUBBERS LTD
2622	U51909PB1993PTC013253	TOWERHIL IMPEX SERVICES PVT LTD
2623	U15520PB1993PLC013254	MAHAJAN DISTILLERY LTD
2624	U70101PB1993PTC013255	SANGHA REAL ESTATE PVT LTD
2625	U32109CH1993PTC013259	UNITED ELECTRO EQUIPMENTS PVT LTD
2626	U91120PB1993PTC013262	V M COMPUTECK FINANCIAL SERVICES PVT LTD
2627	U72200CH1993PTC013265	SIMBA COMPUTERS PVT LTD
2628	U55101HP1993PTC013268	PARAKEET MOTELS PVT. LTD.
2629	U91120PB1993PTC013283	BROADWAY CONSULTANCY SERVICES PVT LTD
2630	U27109PB1993PTC013287	EXCELL INDUCTIONS PVT LTD
2631	U85110PB1993PTC013289	TUNG NURSING HOMES PVT LTD
2632	U22110PB1993PTC013300	BOOKMAN AND COMPANY PVT LTD
2633	U55101PB1993PTC013302	GOLDEN STAR HOTEL PVT LTD
2634	U74300PB1993PTC013309	RAVEENA ADVERTISING AND GENERAL CONSULTANTS PVT LTD
2635	U72200CH1993PTC013311	SUPREME SOFTWARES PVT LTD
2636	U17219PB1993PTC013317	JASWANT TEXTILES PVT LTD
2637	U92111PB1993PTC013321	M B FILMS PVT LTD
2638	U26101CH1993PTC013330	ITTEN GLASS PLANT CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2639	U24119CH1993PTC013331	CHINAR ORGANICS PVT LTD
2640	U15319CH1993PTC013332	BABU BASANT FEEDS PVT LTD
2641	U92113CH1993PTC013344	JASTREX RECORDING SYSTEMS PVT LTD
2642	U25191PB1993PTC013346	HANS PLASTIC PRODUCTS PVT LTD
2643	U26942PB1993PTC013351	GOYAL CEMENT PVT LTD
2644	U45201PB1993PTC013352	SATYANAND BUILDERS AND DEVELOPERS PVT LTD

2645	U91910HP1993PLC013356	KRISHNA DHAM TRUST LTD
2646	U25209PB1993PTC013357	JAI SHREE PLASTO CHEM PVT LTD
2647	U52201PB1993PTC013358	AA Y EMM FOODS PVT LTD
2648	U51909CH1993PTC013362	SHREY ENTERPRISES PVT LTD
2649	U55101HP1993PTC013364	SYLVAN RESORTS PVT LTD
2650	U17219PB1993PTC013365	BLISS TEXTILES PVT LTD
2651	U21098CH1993PTC013368	VENUS STATIONERY PRODUCTS PVT LTD
2652	U27104CH1993PTC013370	GEE TEE STEELS PVT LTD
2653	U17119PB1993PTC013372	G K GUNNIES PVT LTD
2654	U45201CH1993PTC013373	DALJIT CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2655	U45202CH1993PTC013379	SURYA PRESSURE COOKER PVT LTD
2656	U24231CH1993PTC013382	APPENZEL REMEDIES AND ENTERPRISES PVT LTD
2657	U91120CH1993PTC013391	NEHRA CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.
2658	U24231PB1993PTC013414	SAR PHARMACEUTICALS PVT LTD
2659	U24111PB1993PTC013432	KUMAR GASES PVT LTD
2660	U72200PB1993PTC013444	PATIALA COMPUTERS PVT LTD
2661	U31909PB1993PTC013450	J B INSULATORS PVT LTD
2662	U45201PB1993PTC013453	GOINWAL CONSTRUCTIONS PVT LTD
2663	U51909PB1993PTC013457	KAMJAS EXPORTS PVT LTD
2664	U63040PB1993PTC013460	VAYU TRAVELS PVT LTD
2665	U60210CH1993PTC013461	V S CARRIERS PVT LTD
2666	U24111PB1993PTC013463	RAJ GASES PVT LTD
2667	U17219PB1993PTC013478	ELASSTO SPINNERS PVT LTD
2668	U17121PB1993PTC013481	SHIVA SYNTEX PVT LTD
2669	U17210CH1993PLC013482	KAMAL YARNS LTD
2670	U55101HP1993PTC013491	LAKE VIEW AMUSEMENTS PVT LTD
2671	U63090PB1993PTC013497	HOSHIARPUR AZAD BUS SERVICE PVT LTD
2672	U34300PB1993PTC013503	LUDHIANA AUTO CAST PVT LTD
2673	U51311PB1993PTC013506	ORIENTAL TRADELINKS PRIVATE LIMITED
2674	U63040PB1993PTC013531	NIJJAR TRAVELS PVT. LTD
2675	U51397CH1993PTC013541	NORTHERN AGRI INPUTS COMPANY PVT LTD
2676	U32109CH1993PTC013548	FLAME AGENCIES BATTERY DIVISION PVT LTD
2677	U17297PB1993PTC013549	A J YARN MILLS PVT LTD
2678	U35923PB1993PTC013584	BEE BEE FREEWHEELS PVT LTD
2679	U51909PB1993PTC013586	PERHAR SALES PVT LTD
2680	U12529PB1993PTC013590	D C PLASTICS PVT LTD
2681	U92490PB1993PTC013596	NEETU COLOUR LAB PVT LTD
2682	U23203PB1993PTC013603	UNIQUE GAS ASSOCIATES PVT LTD
2683	U18201PB1993PTC013623	DOABA DYEING AND FINISHING MILLS PVT LTD
2684	U14106PB1993PTC013626	J G CEMENT PVT LTD

2685	U55101HP1993PTC013651	AARVEE RESORTS PVT LTD
2686	U51909PB1993PTC013654	SPEX EXPORTS PVT LTD
2687	U21012PB1993PTC013668	PUNJAB PRESS PRIVATE LIMITED
2688	U51909CH1993PTC013676	TIRUPATI EXPORTS PVT LTD
2689	U70101PB1993PTC013677	ROHNI APPARTMENT PVT LTD
2690	U27310PB1993PTC013683	SIFTY STEELS PVT LTD
2691	U51909CH1993PTC013687	RAHUL OVERSEAS PVT LTD
2692	U34300PB1993PTC013697	SHRI HARISAR AUTOS PVT LTD
2693	U51494PB1993PTC013699	PREMIER YARNS PVT LTD
2694	U29265PB1993PLC013709	RITA MACHINES LTD
2695	U21022PB1993PTC013713	MERRY THERMOPACK (INDIA) PVT LTD
2696	U31501PB1993PTC013726	HEM RAJ SHARMA AGENCIES PVT LTD
2697	U27299PB1993PTC013727	BASSAN AUTO TENSION PVT LTD
2698	U21012PB1993PTC013738	INDER PAPERS PVT LTD
2699	U18101PB1993PTC013743	G T C OVERSEAS PVT LTD
2700	U31300PB1993PTC013746	G KUMAR WIRES PVT LTD
2701	U28910PB1993PTC013751	MULTI FORGE PVT LTD
2702	U16007PB1993PTC013760	HIM PUN KATHA PRODUCTS PVT LTD
2703	U26943CH1993PTC013776	NORTH INDIA MINERALS PVT LTD
2704	U20239PB1993PTC013790	FAIRDEAL WOODEN INDIA PVT LTD
2705	U52322PB1993PTC013792	ANOOP EXPORTS PVT LTD
2706	U51109PB1993PLC013793	AILAWADI TRADELINKS AND INVESTMENTS LTD
2707	U25209PB1993PTC013795	B S MOULDINGS PVT LTD
2708	U24222CH1993PLC013810	CHOICE PAINTS LIMITED
2709	U51494PB1993PTC013819	FLYING TEXTILES AND SPINNING PVT LTD
2710	U27109PB1993PTC013823	C C METALS PVT LTD
2711	U55101CH1993PTC013834	JANNAT HOTELS PVT LTD
2712	U45202CH1993PTC013835	SRM BUILDERS PVT LTD
2713	U45202PB1993PTC013839	X L CHEMICALS PVT LTD
2714	U64202CH1993PTC013840	ICS NETWORK PRIVATE LTD
2715	U45200CH1993PTC013841	CHANDIGARH TECHNO CONSULTANTS PVT LTD
2716	U45202PB1993PTC013842	DEE VEE CONSTRUCTION COMPANY PVT LTD
2717	U55101HP1993PTC013859	KANDYALI RESORTS PVT LTD
2718	U21012PB1993PTC013864	IMPRESS PRINTO FAST PVT LTD
2719	U15203PB1993PTC013869	SURYA MILK SPECIALITIES PVT LTD
2720	U51102PB1993PTC013876	AMARDEEP OILS PVT LTD
2721	U24219PB1993PTC013882	R.K. CROPICALS PVT LTD
2722	U24111PB1993PTC013885	AMRITSAR INDUSTRIAL GASES PVT LTD
2723	U17111PB1993PTC013889	PAUL KNITWEARS PVT. LTD.
2724	U15142PB1993PTC013894	G V PAUL AGRO MILLS PVT LTD
2725	U17111PB1993PTC013897	ROYAL YARN MILLS PVT LTD
2726	U24111PB1993PTC013898	BHAMBRI GASES PVT LTD

2727	U92490PB1993PTC013907	MATKA AGENCIES PVT LTD
2728	U29265PB1993PTC013908	BRYAN EXPORTS PVT LTD
2729	U26955PB1993PTC013912	BEAS BRICKS AND CONSTRUCTONS PVT LTD
2730	U51102CH1993PTC013927	DAVI EXPORT HOUSE PVT. LTD
2731	U85190PB1993PTC013939	MEHTAB SCANNING CENTRE PVT LTD
2732	U18101PB1993PTC013946	NAMURA APPARELS PVT LTD
2733	U15544CH1993PTC013947	KRISHNA ICES PVT LTD
2734	U25209PB1993PTC013952	MAMTA POLYMERS PVT LTD
2735	U45201CH1993PTC013953	Y P S CONSTRUCTIONS PVT LTD
2736	U22110CH1993PTC013955	ANAND PRINT HOUSE PVT LTD
2737	U01222CH1993PTC013957	VITRO FOODS FRAGRANCE PVT LTD
2738	U24231CH1993PTC013977	DANSON PHARMACEUTICALS PVT LTD
2739	U26941PB1993PLC013978	AJANTA CEMENT LIMITED
2740	U55101CH1993PTC013981	VASHIST RESORTS PVT LTD
2741	U18101CH1993PTC013984	EARTH FASHIONS PVT. LTD.
2742	U24233PB1993PLC013990	ANCIENT HERBS LTD
2743	U63040HP1993PTC013995	AGGARWAL TRAVELS PVT LTD
2744	U45309CH1993PTC014001	PUNLAND AMUSEMENTS PVT LTD
2745	U17110PB1993PTC014003	OSCAR KNITWEARS PVT LTD
2746	U17111PB1993PTC014005	D AND T TEXTILES PVT LTD
2747	U51909PB1993PTC014012	AGAM EXPORTS PVT LTD
2748	U18101CH1993PTC014022	SUKRITI EXPORTS PVT LTD
2749	U55110CH1993PTC014026	CAPITALS HEALTH CARE SYSTEMS PVT LTD
2750	U01222PB1993PTC014027	REAL WEALTH FEEDS PVT LTD
2751	U51909CH1993PTC014029	NORTHERN KOLJOB PVT LTD
2752	U35921CH1993PTC014041	QUEENS CYCLE PVT LTD
2753	U51109CH1993PTC014047	SANSUM IMPEX PVT LTD
2754	U15201PB1993PTC014061	HANS MILK PRODUCTS PVT LTD
2755	U15497PB1994PTC014080	SUDESH PROTEINS PVT LTD
2756	U64120PB1994PLC014083	DREAM COURIERS LTD
2757	U74300PB1994PTC014084	JANGRA ADVETISING PVT LTD
2758	U50401PB1994PTC014094	FALCON AUTOS PVT LTD
2759	U29221PB1994PTC014102	MOUNTON FABRICATORS AND ENGINEERS PVT LTD
2760	U18101CH1994PLC014105	SKI-HI APPARELS LTD
2761	U51909CH1994PTC014117	SATNAM SALES PVT LTD
2762	U17117PB1994PTC014131	NU WOOL INDIA PVT LTD
2763	U28939PB1994PTC014146	AXICON ENGINEERS PVT LTD
2764	U14101RJ1991PTC005818	HIGHLAND ORGANICS PRIVATE LIMITED
2765	U67120PB1995PTC0015766	MAYA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2766	U65993RJ1994PTC009146	MEHAK FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
2767	U15209PB1998PLC021371	SEAGATE FOODS PRIVATE LIMITED
2768	U15331PB1995PTC015738	DOABA CATTLE FEEDS PRIVATE LIMITED

2769	U15209PB1995PTC015698	DEAR BORN MILK PRODUCTS PRIVATE LIMITED
2770	U45202PB1996PTC017507	RUHTAB HOUSING PRIVATE LIMITED
2771	U15495PB1975PLC003584	BEE BEE FREEWHEELS PRIVATE LIMITED
2772	U18101PB1995PLC016632	SAIMAN EXPORTS LIMITED
2773	U64201CH1995PTC016265	ABISHEK TELECOM PRIVATE LIMITED
2774	U15412HP1981PTC004451	ROYAL BISCUITS PRIVATE LIMITED
2775	U67120PB1995PLC015810	BASIL SECURITIES LIMITED
2776	U24117HP1995PTC015818	HIGHLAND ORGANICS PRIVATE LIMITED
2777	U72200HP1993PTC013471	ARDAS COMPUTERS PRIVATE LIMITED
2778	U51494PB1995PTC015913	DUSANJ TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
2779	U51909CH1995PTC015752	SHREEJI EXIM PRIVATE LIMITED
2780	U27310PB1995PTC016321	MAGNA METAL CAST PRIVATE LIMITED
2781	U19129PB1989PTC009651	CAPRI HIM LEATHERS PRIVATE LIMITED
2782	U45200CH1996PTC017830	BHADRISH BUILDERS PRIVATE LIMITED
2783	U17950CH1996PLC018122	AVI PACKAGING INDIA LIMITED
2784	U19201HP1996PLC017993	SMITA LEATHERS LIMITED
2785	U65999CH1987PLC007260	ORIENTAL FINANCIAL DEVELOPMENT PLANS LIMITED
2786	U25209CH1994PTC014810	AMS BLOW PLASTS PRIVATE LIMITED
2787	U72100PB1996PLC018684	SURE TECH COMPUTERS LIMITED
2788	U17117CH1986PTC006939	MOHALI CARPETS LIMITED
2789	L51229CH1987PLC007353	V.J. COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
2790	U29120CH1995PLC015750	L.A. EXPORTS & RANA IMPORTS LIMITED
2791	U24239CH1996PTC018098	AMAZON CHEMIZONE PRIVATE LIMITED
2792	U60231PB1996PTC018681	GOBIND PARCELS PRIVATE LIMITED
2793	U92114PB1987PLC007271	JAGS SHARPEX PHOTO FILM LIMITED
2794	U18101PB1959PTC002288	KNIT SILVICULTURE PRIVATE LIMITED
2795	U27105PB1982PTC005054	JATINDRA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
2796	U65923DL1984PTC017467	AGE PHARMACEUTICALS LIMITED
2797	L67120PB1996PLC017506	G.V. SECURITIES LIMITED
2798	U99999CH1994PLC015009	BOMBAY PETROTECH LIMITED
2799	U51909PB1995PLC016822	PARAMHANS PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following Companies :

Jalandhar, the 2007

No. 144/2007—

Which is hereby given pursuant to sub-section 5 of section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of following companies has this day been struck off the Register of Registrar of Companies and are dissolved:-

1.	3605	Vidya ma enterprises Pvt Limited
2.	4056	Navin Wire Products Pvt Limited
3.	36740	Next Generation IT Solutions Pvt Limited
4.	3622	Goodwill Cosmetics Pvt Limited
5.	16420	Gupta Knit Expo Pvt Limited
6.	14796	Kanav Consultants Pvt Limited
7.	20924	Century Diamonds Limited
8.	2958	Concast Plastics Pvt Limited
9.	2059	Fazilka Oils Pvt Limited
10.	11391	Nova Distrubutors Pvt Limited
11.	11472	Emm Dee Agro Foods Pvt Limited
12.	17548	Louvera Garments Pvt Limited
13.	25862	Baba Balak-Nath Motors Pvt Limited
14.	11861	Pelican Promotors Pvt Limited
15.	11662	Moga Rice And General Mills (India) Pvt Limited
16.	9808	Madhopur Packaging Pvt Limited
17.	4449	Pharma Gel Pvt Limited
18.	11844	Cliff Pharmaceuticals Pvt Limited
19.	5604	Unitex Processors Pvt Limited
20.	24097	Glimmer Drugs And Pharmaceuticals Pvt Limited
21.	22085	Unique Visions Pvt Limited
22.	7656	Sukhchain Gases Pvt Limited
23.	25884	Gulab Dyeing Limited
24.	16069	Goodwill Motel Limited
25.	22251	Himalaya Aqua Pvt Limited
26.	8029	Sundesh Foods Pvt Limited
27.	5787	Steel Publication Pvt Limited
28.	4424	Shiv Shakti Alloys Limited
29.	11467	Sheetal Oil Mills Pvt Limited
30.	8662	Chetan Castings Pvt Limited
31.	14250	DG Foods Pvt Limited
32.	12884	Tingos Foods Pvt Limited
33.	7684	Tosh Nurswing Home Pvt Limited
34.	10836	Thapat Iron & Steel Co. Limited
35.	2644	Yadavindra Industries (Drinks & Agencies) Pvt Limited

36.	13265	Simba Computers Pvt Limited
37.	11764	Sunrays Couriers Pvt Limited
38.	12314	Cleanzo Chem Pvt Limited
39.	21932	Chandigarh Cargo Pvt Limited
40.	26707	Best Hand Caterer Pvt Limited
41.	8304	Deluxe Garments Pvt Limited
42.	26681	Zimider Hotels & Restaurants Pvt Limited
43.	3461	Parkash Tea Pvt Limited
44.	18444	Lakhan Paul Tools Pvt Limited
45.	25119	Cantus Electronics & Appliances Pvt Limited
46.	24861	Kevin Matrix Software Pvt Limited
47.	12895	Mateshwari Constructions Pvt Limited
48.	25013	Chintpurni Transport Co Pvt Limited
49.	23634	Aar Ess Envirmental Consultants Pvt Limited
50.	24818	JHR Engineers Pvt Limited
51.	25139	Pyramid Consumer Network Pvt Limited
52.	19169	Shiv Shambu Builders And Developers Pvt Limited
53.	18172	Major Tools Limited
54.	22314	Century Knitfab Limited
55.	25290	Pyramid Weletech Pvt Limited
56.	18173	Major Machines Limited
57.	18328	Northern News And Publishers Pvt Limited
58.	19648	Drinke General Trading Co Pvt Limited
59.	9810	HN Singh Drilling Company Pvt Limited
60.	9953	Supreme Stonewars Pvt Limited
61.	27347	View Institute of Heathcare Management Pvt Limited
62.	15862	Dashmesh Telecom Services Limited
63.	17587	Dane Foods India Limited
64.	4914	Crown Finishers Private Limited
65.	26707	Best Hands Caterer Pvt Limited
66.	8074	Rubina Silk Industries Pvt Limited
67.	18073	Grover Laser Vision centre Pvt Limited
68.	27022	Josh Wetmart Pvt Limited
69.	9545	Jahangir Spinners Pvt Limited
70.	19546	Raman Milk Specialites Pvt Limited
71.	12928	Ejay Data Matix Limited
72.	8317	York Footwear Pvt Limited
73.	14505	Raja Contractors Pvt Limited
74.	4723	Raksha Road Transport Pvt Limited
75.	21153	RVS Enterprises Pvt Limited
76.	19170	Subh Home Developers Pvt Limited
77.	22961	Sheriff Organics Pvt Limited
78.	2696	Switch Craft Pvt Limited
79.	6801	Sukhchain Foods Pvt Limited
80.	22027	Srijan Informatic Services Pvt Limited
81.	23687	S Kay Impex Pvt Limited
82.	12920	Sky High Resorts Limited
83.	8716	Steamaid Forgings Pvt Limited
84.	12926	Samsons Steels Limited
85.	9256	Sardar Oil Mills Pvt Limited
86.	27916	Star Parivar Network Marketing Pvt Limited
87.	22494	Sooraj Hosiery Factory Pvt Limited
88.	24272	Hotel. J. Singh Plaza Pvt Limited

89.	21573	Ace Tradelinks (India) Limited
90.	4075	Haryana Solvents Pvt Limited
91.	23578	Gurdaspur Area Development Limited
92.	8089	Continental Gear Pvt Limited
93.	9745	Channo Steel Strips Pvt Limited
94.	26142	K.S.Diamonds Pvt Limited
95.	23502	S.P.Fab Knit Pvt Limited
96.	12982	Dhauladhar Fabricators Pvt Limited
97.	14504	Deluxe Enterises Pvt Limited
98.	12184	Thapar Rajasthan Cement Limited
99.	12195	Thapar Paper Mills Limited
100.	21064	Pawan Gold And Gems Limited
101.	26060	Navik Embedded Systems Pvt Limited
102.	12978	Nonie Magnetic Meida Pvt Limited
103.	23445	NEO Technology Pvt Limited
104.	11273	Mikado Home Care Pvt Limited
105.	3950	Mittal Patterns Pvt Limited
106.	15601	Girnar Concast Limited
107.	22506	Kyle Overseas Pvt Limited
108.	8226	Indian Skin Company Pvt Limited
109.	9466	Ejay Chiken Speciality Limited
110.	17303	Excel School Of Management Studies Pvt Limited
111.	12567	Mander Forgings Pvt Limited
112.	26552	Basnor Technologies Pvt Limited
113.	28017	R Kohli Composite Sports Pvt Limited
114.	28044	Oracle Overseas Educational Consultancy Services Pvt Limited ,
115.	28067	Kamboe Data Services Pvt Limited
116.	19625	P.B.Electronics Pvt Limited
117.	12125	Vee Aar Commercial Pvt Limited

Kolkata – dated : 12-02-2007

No.ROC/WB/IPC/560(SM)/07

Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof, the name of the following companies, unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said company will be dissolved.

Sl. No.	ST Code and Reg. No.	Name of Company	1	2	3
1	2	3			
1.	21-47519	M/s. Banoja Hotels Pvt. Ltd.	31.	21-58724	M/s. Bebam Financial Services Pvt. Ltd.
2.	21-51018	M/s. Bans Lata Finance & Savings Company Pvt. Ltd.	32.	21-69040	M/s. Bed Rock Goods Pvt. Ltd.
3.	21-42055	M/s. Bansilal Leisure Parks Ltd.	33.	21-49329	M/s. Bediadanga Properties Pvt. Ltd.
4.	21-51675	M/s. Banson Food Products (India) Pvt. Ltd.	34.	21-46663	M/s. Bee Pee Pharmachem Pvt. Ltd.
5.	21-26009	M/s. Banthia MFG, Industries Pvt. Ltd.	35.	21-80253	M/s. Beepage Pvt. Ltd.
6.	21-58066	M/s. Banyan Electronics Pvt. Ltd.	36.	21-53096	M/s. Bei-Ichi Computronix Pvt. Ltd.
7.	21-50992	M/s. Banyan Land Development & Construction Pvt. Ltd.	37.	21-32891	M/s. Beliaghata Ice Plant Pvt. Ltd.
8.	21-71234	M/s. Barch Engineers Pvt. Ltd.	38.	21-32259	M/s. Beliaghata Plywood Mfg. Co. Pvt. Ltd.
9.	21-47911	M/s. Bargabhima Savings & Credit Company Pvt. Ltd.	39.	21-18875	M/s. Beliaghata Timber Works (Pvt.) Ltd.
10.	21-67474	M/s. Barkol Commercial Pvt. Ltd.	40.	21-67904	M/s. Bellona Labels Pvt. Ltd.
11.	21-64903	M/s. Barmer Properties & Finance Pvt. Ltd.	41.	21-58789	M/s. Bells Trading Pvt. Ltd.
12.	21-30184	M/s. Baroda Chit and Savings Pvt. Ltd.	42.	21-15052	M/s. Belrui Dishergarh Colliery Co. Pvt. Ltd.
13.	21-51193	M/s. Baroda HS Properties Pvt. Ltd.	43.	21-24659	M/s. Belur Industrial Development Corpn. Pvt. Ltd.
14.	21-44929	M/s. Barrackpur Food Supplies Pvt. Ltd.	44.	21-50368	M/s. Benedict Food Processors Pvt. Ltd.
15.	21-34328	M/s. Barron Development Enterprise Pvt. Ltd.	45.	21-40266	M/s. Bengal Agro Products & Plantation Pvt. Ltd.
16.	21-7838	Baruipur Rai Chaudhuri Estate Pvt. Ltd.	46.	21-83291	M/s. Bengal Coco Products Pvt. Ltd.
17.	21-88457	M/s. Basu Ayurvedic Product Pvt. Ltd.	47.	21-25497	M/s. Bengal Electronics Corpn. Pvt. Ltd.
18.	21-89014	M/s. Basuch Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	48.	21-21556	M/s. Bengal Engg. & Automobiles Pvt. Ltd.
19.	21-48134	M/s. Basukinath Feed Industries Pvt. Ltd.	49.	21-12027	M/s. Bengal Industrial & Scientific Works Pvt. Ltd.
20.	21-4970	M/s. Batabari Investments Ltd.	50.	21-75726	M/s. Bengal Liquid Petrol Gas India Pvt. Ltd.
21.	21-67163	M/s. Baviscon Marketing Pvt. Ltd.	51.	21-34918	M/s. Bengal Mahua Industries Pvt. Ltd.
22.	21-66781	M/s. Baviscon Merchants Pvt. Ltd.	52.	21-30632	M/s. Bengal Match Co. Pvt. Ltd.
23.	21-54147	M/s. B. B. S. Medi Scanners Pvt. Ltd.	53.	21-89153	M/s. Bengal Medical Centre Pvt. Ltd.
24.	21-58157	M/s. B. C. S. Chemax Pvt. Ltd.	54.	21-21503	M/s. Bengal Petroleum Products Pvt. Ltd.
25.	21-57494	M/s. Beacon Developer Pvt. Ltd.	55.	21-30714	M/s. Bengal Pineapples Pvt. Ltd.
26.	21-70426	M/s. Bearbull Marketing Pvt. Ltd.	56.	21-31811	M/s. Bengal Rosin & Turpentine Pvt. Ltd.
27.	21-66782	M/s. Bearbull Suppliers Pvt. Ltd.	57.	21-26830	M/s. Bengal Safe & Steel Works Pvt. Ltd.
28.	21-23769	M/s. Bearing Specialists Pvt. Ltd.	58.	21-2660	M/s. Bengal Steam Laundry Co. Pvt. Ltd.
29.	21-69668	M/s. Beatify Dealcom Pvt. Ltd.			
30.	21-69673	M/s. Beatify Vincom Pvt. Ltd.			

1	2	3	1	2	3
59.	21-2314	M/s. Bengal Steel & Tube Co. Pvt. Ltd.	90.	21-59497	M/s. Bhansali Builders & Developers Pvt. Ltd.
60.	21-28397	M/s. Bengal Synthetic Moulders Pvt. Ltd.	91.	21-59867	M/s. Bhansali Chadda Housing & Estates Pvt. Ltd.
61.	21-88496	M/s. Bengal Tobacco Company Pvt. Ltd.	92.	21-63087	M/s. Bharadwaja Technocraft Pvt. Ltd.
62.	21-49489	M/s. Bengal Veneers Pvt. Ltd.	93.	21-16695	M/s. Bharat General Agencies Pvt. Ltd.
63.	21-88685	M/s. Benin Distributors Pvt. Ltd.	94.	21-23879	M/s. Bharat Lakshmi Hosiery Industries Pvt. Ltd.
64.	21-49780	M/s. Benison Remedies Pvt. Ltd.	95.	21-18441	M/s. Bharat Orient Corpn. Pvt. Ltd.
65.	21-50745	M/s. Bensur Engineering Company Pvt. Ltd.	96.	21-12032	M/s. Bharat Paint Colour & Varnish Works Pvt. Ltd.
66.	21-78749	M/s. Benton Traders Pvt. Ltd.	97.	21-7941	M/s. Bharati Printing & Publishing Co. Pvt. Ltd.
67.	21-64159	M/s. Bentroll Merchants Pvt. Ltd.	98.	21-12962	M/s. Bharati Sahitya Bhavan Pvt. Ltd.
68.	21-45276	M/s. Benugopal Steel Industries Pvt. Ltd.	99.	21-15032	M/s. Bharati Trust Pvt. Ltd.
69.	21-49577	M/s. Beriwal Bandhu Commercial Pvt. Ltd.	100.	21-75686	M/s. Bhaskar Engineers and Consultants Pvt. Ltd.
70.	21-53056	M/s. Beriwalla Industries Pvt. Ltd.	101.	21-39543	M/s. Bhaskar Trading Co. Pvt. Ltd.
71.	21-36903	M/s. Bescon (India) Pvt. Ltd.	102.	21-43304	M/s. Bhattacharjee & Company (1987) Pvt. Ltd.
72.	21-48394	M/s. Best Cargo Carriers Pvt. Ltd.	103.	21-39070	M/s. Bhattacharyee and Barary Pvt. Ltd.
73.	21-69230	M/s. Bestrite Vinimay Pvt. Ltd.	104.	21-21422	M/s. Bhaumik & Co. Pvt. Ltd.
74.	21-59079	M/s. Better Choice Exim Pvt. Ltd.	105.	21-33114	M/s. Bhavana Properties Pvt. Ltd.
75.	21-87052	M/s. B.G.S. Exports Pvt. Ltd.	106.	21-47729	M/s. Bhavbhuti Trading Company Pvt. Ltd.
76.	21-61604	M/s. Bhadrakali Enterprises Pvt. Ltd.	107.	21-66164	M/s. Bhawani Pigments Pvt. Ltd.
77.	21-47942	M/s. Bhagabati Commodities Pvt. Ltd.	108.	21-78016	M/s. BHEL Marketing Pvt. Ltd.
78.	21-43700	M/s. Bhagat Packaging Industries Pvt. Ltd.	109.	21-51781	M/s. Bhiwaniwala Steels Pvt. Ltd.
79.	21-15290	M/s. Bhagat Properties Pvt. Ltd.	110.	21-17142	M/s. Bholanath Dutt (Paper Merchants) Pvt. Ltd.
80.	21-57982	M/s. Bhagirath Stock & Finance Pvt. Ltd.	111.	21-57981	M/s. Bhomeiya Trading Pvt. Ltd.
81.	21-26068	M/s. Bhagirathi Food & Fibres Pvt. Ltd.	112.	21-25490	M/s. Bhopuria Sales Pvt. Ltd.
82.	21-43803	M/s. Bhagirathi Mining Tools Pvt. Ltd.	113.	21-77472	M/s. Bhoruka Commodities Pvt. Ltd.
83.	21-23905	M/s. Bhagwandas Estates Pvt. Ltd.	114.	21-36638	M/s. Bhotika Iron & Steels Pvt. Ltd.
84.	21-75265	M/s. Bhagwati Agro & Development Pvt. Ltd.	115.	21-26649	M/s. Bhup Jain Metals Pvt. Ltd.
85.	21-47996	M/s. Bhairudan Bansilal Pvt. Ltd.	116.	21-47875	M/s. Bhupendra Nath Te Estate Pvt. Ltd.
86.	21-46518	M/s. Bhairv Durga Business Pvt. Ltd.	117.	21-50659	M/s. Bhupendra Trading Company Pvt. Ltd.
87.	21-67674	M/s. Bhakara Mercantiles Pvt. Ltd.	118.	21-49772	M/s. Bhurwania Contractors Pvt. Ltd.
88.	21-45985	M/s. Bhaktha Sapat Pvt. Ltd.	119.	21-80204	M/s. Bhawanilal Commodities Pvt. Ltd.
89.	21-77794	M/s. Bhambhani & Builders			

1	2	3	1	2	3
120.	21-14119	M/s. Bihar Mercantile Union Ltd.	154.	21-20661	M/s. Biswas Motor Service Pvt. Ltd.
121.	21-23778	M/s. Bihar Industries Pvt. Ltd.	155.	21-26685	M/s. Biswasree Chitramandir Pvt. Ltd.
122.	21-65489	M/s. Bijoya Mercantiles Pvt. Ltd.	156.	21-76705	M/s. Bitra Oils Pvt. Ltd.
123.	21-63306	M/s. Bikesh Steel Pvt. Ltd.	157.	21-16831	M/s. Biva's Pvt. Ltd.
124.	21-59765	M/s. Bilatibari Food & Agro Products Pvt. Ltd.	158.	21-67966	M/s. Biyani Securities Pvt. Ltd.
125.	21-67768	M/s. Bilcount Tracon Pvt. Ltd.	159.	21-68352	M/s. BKB Commercial Pvt. Ltd.
126.	21-67758	M/s. Bildrite Suppliers Pvt. Ltd.	160.	21-16576	M/s. Blackwood Hodges (India) Pvt. Ltd.
127.	21-59548	M/s. Bill Body Commodities Pvt. Ltd.	161.	21-58114	M/s. Blessing Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
128.	21-19655	M/s. Bimala Enterprises (India) Pvt. Ltd.	162.	21-57825	M/s. Blitz Finvest & Enterprises Pvt. Ltd.
129.	21-51411	M/s. Bimala Ice Plant Pvt. Ltd.	163.	21-69524	M/s. Bloom Fabtrade Pvt. Ltd.
130.	21-61389	M/s. Bimalendu Guha Town Makers and Promoters Pvt. Ltd.	164.	21-75492	M/s. Bloomer Sales Pvt. Ltd.
131.	21-87539	M/s. Bimla Knitwear Pvt. Ltd.	165.	21-51862	M/s. Blowcon India Pvt. Ltd.
132.	21-62500	M/s. Bina 'K' Chemicals Pvt. Ltd.	166.	21-85531	M/s. BLS Cement Company Pvt. Ltd.
133.	21-26066	M/s. Bina Mills Pvt. Ltd.	167.	21-64620	M/s. Blue Bridge Dealer Pvt. Ltd.
134.	21-71834	M/s. Binani Texfin Pvt. Ltd.	168.	21-52089	M/s. Blue Max Smokeless Coal Pvt. Ltd.
135.	21-70127	M/s. Binapani Marketing Pvt. Ltd.	169.	21-63304	M/s. Blue Sea Mulpurpose Marketing & Media Pvt. Ltd.
136.	21-86786	M/s. Binary Telecom Pvt. Ltd.	170.	21-34968	M/s. Blue Sea Products Pvt. Ltd.
137.	21-79537	M/s. Binay Fusion Systems Pvt. Ltd.	171.	21-89862	M/s. Blue Sky Treks & Travels (India) Pvt. Ltd.
138.	21-41895	M/s. Bindal Resources Pvt. Ltd.	172.	21-84341	M/s. Blue Star Motels Pvt. Ltd.
139.	21-58112	M/s. Bindal Securities Pvt. Ltd.	173.	21-79833	M/s. Blue View Enterprises Pvt. Ltd.
140.	21-47023	M/s. Bindhyam Impex Trading Pvt. Ltd.	174.	21-46730	M/s. Blue Bird Transporters Pvt. Ltd.
141.	21-40540	M/s. Bio-Chem Solvent Extraction Oil Industries Pvt. Ltd.	175.	21-58613	M/s. Blueridge Exports Pvt. Ltd.
142.	21-46017	M/s. Bir Packagings Pvt. Ltd.	176.	21-66610	M/s. Blue Star Suppliers Pvt. Ltd.
143.	21-57069	M/s. Birajee Holdings Pvt. Ltd.	177.	21-58606	M/s. BMS Granite Pvt. Ltd.
144.	21-48468	M/s. Birbhum Chemicals Pvt. Ltd.	178.	21-63998	M/s. BMS Handels Havs Pvt. Ltd.
145.	21-88349	M/s. Birbhum Distillery Pvt. Ltd.	179.	21-65603	M/s. Boardway Tracom Pvt. Ltd.
146.	21-26270	M/s. Birbhum Mining Pvt. Ltd.	180.	21-18347	M/s. Bobb Framjee Pvt. Ltd.
147.	21-26837	M/s. Birkmyre (Agents) Pvt. Ltd.	181.	21-58910	M/s. Bodyshop Health Care Pvt. Ltd.
148.	21-47247	M/s. Biscon Services Pvt. Ltd.	182.	21-14310	M/s. Boirgania Engineering Works Pvt. Ltd.
149.	21-40885	M/s. Bishan Constructions Pvt. Ltd.	183.	21-37276	M/s. Bolangir Steel & Rolling Mills Pvt. Ltd.
150.	21-43194	M/s. Biswabandita Finance Pvt. Ltd.	184.	21-48195	M/s. Bolsan Consultancy Services Pvt. Ltd.
151.	21-50446	M/s. Biswabandita Housing & Land Development Pvt. Ltd.	185.	21-15462	M/s. Bombay Pictures Distributors Pvt. Ltd.
152.	21-63781	M/s. Biswarup Polypack Pvt. Ltd.			
153.	21-88373	M/s. Biswas Construction Pvt. Ltd.			

1	2	3
186.	21-40202	M/s. Bonanza Exports (India) Pvt. Ltd.
187.	21-66710	M/s. Bonaza Barter Pvt. Ltd.
188.	21-88631	M/s. Boney Confectionery (India) Pvt. Ltd.
189.	21-73444	M/s. Bongaon Sub-Divisional Pisciculture Pvt. Ltd.
190.	21-58611	M/s. Bonn Holdings Pvt. Ltd.
191.	21-6111	M/s. Bonnaire & Co. Pvt. Ltd.
192.	21-24404	M/s. Book Club Pvt. Ltd.
193.	21-52487	M/s. Boost Trade & Holdings Pvt. Ltd.
194.	21-89284	M/s. Bornfree Garments Pvt. Ltd.
195.	21-63510	M/s. Bose Drug House Pvt. Ltd.
196.	21-42566	M/s. Botanic Savings & Investment Co. Pvt. Ltd.
197.	21-87714	M/s. Bowbazar Holdings Pvt. Ltd.
198.	21-36309	M/s. Brabourne Textiles (India) Pvt. Ltd.
199.	21-79579	M/s. Brahamputra Fabricators Pvt. Ltd.
200.	21-16689	M/s. Brahmyee Motor Service Pvt. Ltd.
201.	21-52927	M/s. Braun Field Chemicals Pvt. Ltd.
202.	21-48086	M/s. Bright Colour & Combination Pvt. Ltd.
203.	21-44822	M/s. Bright Constructions Pvt. Ltd.
204.	21-40707	M/s. Bright Image Properties & Investments Pvt. Ltd.
205.	21-39753	M/s. Bright Paper & Board Mills Pvt. Ltd.
206.	21-48721	M/s. Bright Transport Company Pvt. Ltd.
207.	21-35724	M/s. Bright World Pvt. Ltd.
208.	21-35267	M/s. Brij Automotives Pvt. Ltd.
209.	21-83098	M/s. Brijdham Commercial Pvt. Ltd.
210.	21-61023	M/s. Brijwasi Vyapar Pvt. Ltd.
211.	21-78285	M/s. Brilliant Merchants Pvt. Ltd.
212.	21-64341	M/s. Brilliant Vinimay Pvt. Ltd.
213.	21-66624	M/s. Brindavan Niryat Pvt. Ltd.
214.	21-45024	M/s. Brindawan Housing Pvt. Ltd.
215.	21-59166	M/s. Brindhya Moyee Technology Pvt. Ltd.
216.	21-58270	M/s. Bristol Trexim Pvt. Ltd.

1	2	3
217.	21-88199	M/s. Broad Street Properties Pvt. Ltd.
218.	21-87866	M/s. Brothers Drug Pvt. Ltd.
219.	21-84412	M/s. Brylon Industrial Twines Pvt. Ltd.
220.	21-76304	M/s. BTS Food Products Pvt. Ltd.
221.	21-49653	M/s. Budge Budge Sales Pvt. Ltd.
222.	21-43517	M/s. Budh Marg Estates Pvt. Ltd.
223.	21-88614	M/s. Buds & Flower Exports Pvt. Ltd.
224.	21-40989	M/s. Build-Con Engineers Pvt. Ltd.
225.	21-21031	M/s. Builders & Furnishers Pvt. Ltd.
226.	21-74078	M/s. Bulbulitala Rice Mill Pvt. Ltd.
227.	21-65930	M/s. Burdwan Communication Pvt. Ltd.
228.	21-70659	M/s. Burlington Commerce Pvt. Ltd.
229.	21-78848	M/s. Burlington Tracon Pvt. Ltd.
230.	21-24372	M/s. Burmah Metal Works Pvt. Ltd.
231.	21-17797	M/s. Burnet Davies & Co. Pvt. Ltd.
232.	21-26224	M/s. Business & Computing Machines Pvt. Ltd.
233.	21-31121	M/s. Business Like Consultants & Engineers Pvt. Ltd.
234.	21-59052	M/s. Butterfly Savings & Investment Pvt. Ltd.
235.	21-63655	M/s. Butterfly Vinimay Pvt. Ltd.
236.	21-52725	M/s. Buxton Savings & Investment (India) Ltd.
237.	21-44968	M/s. Bypass Estates Pvt. Ltd.
238.	21-48078	M/s. CBK Packaging Industries Pvt. Ltd.
239.	21-33507	M/s. CIP Properties & Investment Pvt. Ltd.
240.	21-32527	M/s. CM Consultants Pvt. Ltd.
241.	21-85771	M/s. CMD Ink Pvt. Ltd.
242.	21-23150	M/s. CS Trading Co. Pvt. Ltd.
243.	21-57119	M/s. C.B.N. Consultants Pvt. Ltd.
244.	21-39617	M/s. C.E.W. Gears Pvt. Ltd.
245.	21-43890	M/s. C.L. Mercantiles Pvt. Ltd.
246.	21-74738	M/s. C. L. Enclave Pvt. Ltd.
247.	21-46338	M/s. C.M. Agency Pvt. Ltd.
248.	21-39722	M/s. C.M.C. Pharmaceutical Pvt. Ltd.
249.	21-53457	M/s. C.P. Viniyog & Trading Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
250.	21-47869	M/s. C.T. Electronics Pvt. Ltd.	283.	21-48504	M/s. Calexim Pvt. Ltd.
251.	21-33375	M/s. Cactus Engineerings Pvt. Ltd.	284.	21-28296	M/s. Calfab Mech Engineers Pvt. Ltd.
252.	21-49644	M/s. Cadet Advertising & Marketing Pvt. Ltd.	285.	21-58745	M/s. Calico India Commerce Pvt. Ltd.
253.	21-39697	M/s. Cadila Transport Pvt. Ltd.	286.	21-61503	M/s. Calisto Commotrade Pvt. Ltd.
254.	21-52409	M/s. Cal Aquachem Pvt. Ltd.	287.	21-34791	M/s. Calley Machine Tools Pvt. Ltd.
255.	21-57423	M/s. Cal-Tech Mechanical Engineering Company Pvt. Ltd.	288.	21-84823	M/s. Caly Agro Pvt. Ltd.
256.	21-1926	M/s. Caladonian Printing Co. Pvt. Ltd.	289.	21-44278	M/s. Camac Investments Pvt. Ltd.
257.	21-32088	M/s. Calcar Products Pvt. Ltd.	290.	21-57617	M/s. Camac Safety Products Pvt. Ltd.
258.	21-78518	M/s. Calcon Marketing Pvt. Ltd.	291.	21-37587	M/s. Cambay Marketing Pvt. Ltd.
259.	21-24249	M/s. Calcutta Block House Pvt. Ltd.	292.	21-49365	M/s. Camco Developments Pvt. Ltd.
260.	21-58353	M/s. Calcutta Centrolube Pvt. Ltd.	293.	21-43720	M/s. Camellia Himghar Pvt. Ltd.
261.	21-79414	M/s. Calcutta Comex Pvt. Ltd.	294.	21-77327	M/s. Camlin Commercial Pvt. Ltd.
262.	21-18508	M/s. Calcutta Constructors Pvt. Ltd.	295.	21-62304	M/s. Camperdown Vinimay Pvt. Ltd.
263.	21-35029	M/s. Calcutta Containers Pvt. Ltd.	296.	21-59116	M/s. Candid Finance & Investment Company Pvt. Ltd.
264.	21-31909	M/s. Calcutta Cranes Pvt. Ltd.	297.	21-36660	M/s. Candid Manufacturing & Trading Pvt. Ltd.
265.	21-46289	M/s. Calcutta Educational Enterprises Pvt. Ltd.	298.	21-57977	M/s. Canistar Trading Pvt. Ltd.
266.	21-55552	M/s. Calcutta Fan (Sales) Pvt. Ltd.	299.	21-74834	M/s. Canlay Engineering Pvt. Ltd.
267.	21-51298	M/s. Calcutta Fan Marketing Pvt. Ltd.	300.	21-48557	M/s. Canning Unemployed Traders Pvt. Ltd.
268.	21-48773	M/s. Calcutta Fiscal Services Ltd.	301.	21-44720	M/s. Capella Engineers Pvt. Ltd.
269.	21-48107	M/s. Calcutta Foil Industries Pvt. Ltd.	302.	21-63281	M/s. Capital Options Pvt. Ltd.
270.	21-7134	M/s. Calcutta Friends Society Pvt. Ltd.	303.	21-66764	M/s. Caplin Commodeal Pvt. Ltd.
271.	21-66608	M/s. Calcutta Goods & Services Pvt. Ltd.	304.	21-70409	M/s. Caplin Impex Pvt. Ltd.
272.	21-16357	M/s. Calcutta Leather House Pvt. Ltd.	305.	21-58635	M/s. Capma Advertising Pvt. Ltd.
273.	21-49454	M/s. Calcutta Medi-Image Pvt. Ltd.	306.	21-44717	M/s. Captive Diesel Sales & Services Pvt. Ltd.
274.	21-26731	M/s. Calcutta Model Works Pvt. Ltd.	307.	21-18957	M/s. Car Care Pvt. Ltd.
275.	21-59318	M/s. Calcutta Mover Services Pvt. Ltd.	308.	21-30663	M/s. Caravan Savings & Finance Pvt. Ltd.
276.	21-14697	M/s. Calcutta Optical Co. Pvt. Ltd.	309.	21-1537	M/s. Carbo Ceramics Ltd.
277.	21-84396	M/s. Calcutta Polyurethanes Pvt. Ltd.	310.	21-14947	M/s. Card Board Box of Calcutta Pvt. Ltd.
278.	21-23405	M/s. Calcutta Port Service Pvt. Ltd.	311.	21-41341	M/s. Cardamom Investments Pvt. Ltd.
279.	21-20393	M/s. Calcutta Proofing & Paulin Mfg. Co. Pvt. Ltd.	312.	21-68257	M/s. Care Point Ltd.
280.	21-20187	M/s. Calcutta Storage Battery Co. Pvt. Ltd.	313.	21-65488	M/s. Caretech Fintrade Pvt. Ltd.
281.	21-37536	M/s. Calcutta Tanneries Pvt. Ltd.	314.	21-63568	M/s. Carewell Viniyog Pvt. Ltd.
282.	21-44112	M/s. Calcutta Trade and Packaging Industries Pvt. Ltd.	315.	21-48667	M/s. Carlo Computers Pvt. Ltd.
			316.	21-78712	M/s. Carlton Vinimay Pvt. Ltd.

1	2	3	1	2	3
317.	21-67870	M/s. Carnex Vincom Pvt. Ltd.	350.	21-33557	M/s. Chalti Duniya Prakashani Pvt. Ltd.
318.	21-78756	M/s. Carniwal Marketing Pvt. Ltd.	351.	21-49535	M/s. Chaman Developers Pvt. Ltd.
319.	21-85438	M/s. Carona Export Pvt. Ltd.	352.	21-61892	M/s. Champion Tie-Up Services Pvt. Ltd.
320.	21-37593	M/s. Casting & Allied Industries Pvt. Ltd.	353.	21-42688	M/s. Champo Carpets Pvt. Ltd.
321.	21-46412	M/s. Castle Plaza Pvt. Ltd.	354.	21-39207	M/s. Chanakya Marketing Pvt. Ltd.
322.	21-57771	M/s. Castron Agency Pvt. Ltd.	355.	21-89023	M/s. Chandam Entertainers Pvt. Ltd.
323.	21-46343	M/s. Cat Consultants & Engineers Pvt. Ltd.	356.	21-89034	M/s. Chandi Fuel Coke Pvt. Ltd.
324.	21-35295	M/s. Cathay Exports Pvt. Ltd.	357.	21-45920	M/s. Chandika Construction and Transport Company Pvt. Ltd.
325.	21-45748	M/s. CBD Computer Cornea Pvt. Ltd.	358.	21-23354	M/s. Chandika Stores Pvt. Ltd.
326.	21-54123	M/s. CDS Agro Allied Products Pvt. Ltd.	359.	21-59339	M/s. Chandra Prabhu Impex Pvt. Ltd.
327.	21-86526	M/s. CDS Commerce Pvt. Ltd.	360.	21-67886	M/s. Chandra Rubber & Chemicals Pvt. Ltd.
328.	21-62202	M/s. Celebraty Sales Pvt. Ltd.	361.	21-46328	M/s. Chanyl Impex Pvt. Ltd.
329.	21-77473	M/s. Cellulose Mercantile Pvt. Ltd.	362.	21-79226	M/s. Chariot Marketing Pvt. Ltd.
330.	21-89005	M/s. Celtic Commercial Pvt. Ltd.	363.	21-61589	M/s. Charisma Distributors Pvt. Ltd.
331.	21-26285	M/s. Cemeton Pvt. Ltd.	364.	21-49132	M/s. Charles Courier & Commercial Services Pvt. Ltd.
332.	21-87571	M/s. Cemico Waterproof Pvt. Ltd.	365.	21-61240	M/s. Chart Point Consolidation Pvt. Ltd.
333.	21-45613	M/s. Cenozoic Diagnostic Centre Pvt. Ltd.	366.	21-19924	M/s. Charu Chaitra Pvt. Ltd.
334.	21-5329	M/s. Centre Indo Jeenagora Coal Co. Pvt. Ltd.	367.	21-43572	M/s. Charu Exports Pvt. Ltd.
335.	21-88455	M/s. Centre Indo Type & Automobile Pvt. Ltd.	368.	21-24051	M/s. Charu Printing House Pvt. Ltd.
336.	21-67110	M/s. Centurion Commodities Pvt. Ltd.	369.	21-38261	M/s. Chatterjee Brothers (Hotel Industries) Pvt. Ltd.
337.	21-79010	M/s. Century Devlocon Pvt. Ltd.	370.	21-56965	M/s. Chatterjee Paul (Metal) Company Pvt. Ltd.
338.	21-77673	M/s. Century Projects Pvt. Ltd.	371.	21-3603	M/s. Chatterjee Canguly & Co. Ltd.
339.	21-79688	M/s. Century Suppliers Pvt. Ltd.	372.	21-59882	M/s. Chaturbhuj Exim Pvt. Ltd.
340.	21-44239	M/s. Cepl Electronics Pvt. Ltd.	373.	21-48298	M/s. Chawai Valley Tea Company Pvt. Ltd.
341.	21-27457	M/s. Ceramo Techno Pvt. Ltd.	374.	21-64345	M/s. Chayya Barter Pvt. Ltd.
342.	21-32866	M/s. Chabi Trading Co. Pvt. Ltd.	375.	21-14969	M/s. Chemical Engg. & Construction Co. Pvt. Ltd.
343.	21-67203	M/s. Chabria Builders Pvt. Ltd.	376.	21-57978	M/s. Chemie Trading Pvt. Ltd.
344.	21-88798	M/s. Chadha Designs Pvt. Ltd.	377.	21-58037	M/s. Cherry Exim. Pvt. Ltd.
345.	21-31484	M/s. Chaitak Reshams (India) Pvt. Ltd.	378.	21-47364	M/s. Cherry Resorts Pvt. Ltd.
346.	21-87879	M/s. Chaitee Tea Company Pvt. Ltd.	379.	21-46167	M/s. Chester Field Finance Pvt. Ltd.
347.	21-50616	M/s. Chakman Maritime Pvt. Ltd.	380.	21-61026	M/s. Chetak Exim Pvt. Ltd.
348.	21-25885	M/s. Chakravorty & Ghosh (Construction) Pvt. Ltd.			
349.	21-16822	M/s. Chalachal Pvt. Ltd.			

1	2	3	1	2	3
381.	21-68020	M/s. Chetak Suppliers Pvt. Ltd.	414.	21-88893	M/s. Clarke Pharmaceutical Laboratories Pvt. Ltd.
382.	21-36355	M/s. Chhotangpur Construction Co. Pvt. Ltd.	415.	21-57838	M/s. Classic Computata Pvt. Ltd.
383.	21-87385	M/s. Chides Commercial Pvt. Ltd.	416.	21-75747	M/s. Classic Vinimay Pvt. Ltd.
384.	21-70014	M/s. Chik Consultancy Pvt. Ltd.	417.	21-53808	M/s. Classique Resorts & Appartments Pvt. Ltd.
385.	21-70013	M/s. Chik Merchandise Pvt. Ltd.	418.	21-89016	M/s. Clef Audio Video Productions Pvt. Ltd.
386.	21-19001	M/s. Child & Co. Pvt. Ltd.	419.	21-62776	M/s. Climax Suppliers Pvt. Ltd.
387.	21-25301	M/s. Chill (India) Pvt. Ltd.	420.	21-24956	M/s. Clinical Industries Pvt. Ltd.
388.	21-21964	M/s. Chimica Pharmaceutical Industries Pvt. Ltd.	421.	21-69449	M/s. Cluster Tie-up Pvt. Ltd.
389.	21-53093	M/s. Chira Impex Pvt. Ltd.	422.	21-12555	M/s. Coal Products Pvt. Ltd.
390.	21-41920	M/s. Chirag Business Services Pvt. Ltd.	423.	21-67183	M/s. Cocetra Commodities Pvt. Ltd.
391.	21-43648	M/s. Chirara Business Pvt. Ltd.	424.	21-67184	M/s. Cocetra Goods Pvt. Ltd.
392.	21-16715	M/s. Chittrasree Pvt. Ltd.	425.	21-59475	M/s. Cocxy Data Base Pvt. Ltd.
393.	21-83392	M/s. Choice Commodities Pvt. Ltd.	426.	21-68492	M/s. Coinsave Mercantiles Pvt. Ltd.
394.	21-54266	M/s. Chowdhury Hi-Tech Computer Systems Pvt. Ltd.	427.	21-50696	M/s. Cojac Consultants Pvt. Ltd.
395.	21-86970	M/s. Chowdhury Roadways Pvt. Ltd.	428.	21-20683	M/s. Coke Oven construction Co. Pvt. Ltd.
396.	21-10055	M/s. Churulia Sadhu's Estate Pvt. Ltd.	429.	21-66057	M/s. Coldtime Vyapar Pvt. Ltd.
397.	21-61915	M/s. Ciconia Equity Services Pvt. Ltd.	430.	21-30262	M/s. Collaborate Chit & Finance Co. Pvt. Ltd.
398.	21-71774	M/s. Cindy Sales Pvt. Ltd.	431.	21-64344	M/s. Colony Distributers Pvt. Ltd.
399.	21-51881	M/s. Cipa Drugs Pvt. Ltd.	432.	21-88531	M/s. Combat Pollution Pvt. Ltd.
400.	21-78472	M/s. Citizen Commerce Pvt. Ltd.	433.	21-44990	M/s. Comet Construction Pvt. Ltd.
401.	21-59545	M/s. Citra Commodities Pvt. Ltd.	434.	21-88693	M/s. Command Capital Services Co. Pvt. Ltd.
402.	21-66496	M/s. Citric Merchandise Pvt. Ltd.	435.	21-88701	M/s. Command Drugs & Pharmaceuticals Pvt. Ltd.
403.	21-15812	M/s. City Exhibitors Pvt. Ltd.	436.	21-88699	M/s. Command Infrastructure Pvt. Ltd.
404.	21-22866	M/s. City Glass House Pvt. Ltd.	437.	21-88697	M/s. Command Oil & Chemicals Pvt. Ltd.
405.	21-38751	M/s. City Lake Pharmaceuticals Pvt. Ltd.	438.	21-88696	M/s. Command Rubber Pvt. Ltd.
406.	21-18178	M/s. City Store Supply Co. Pvt. Ltd.	439.	21-88700	M/s. Command Transport & Investment Pvt. Ltd.
407.	21-87442	M/s. City Xperts Pvt. Ltd.	440.	21-54434	M/s. Commercial Exports Pvt. Ltd.
408.	21-57450	M/s. Citylink Builder & Developers Pvt. Ltd.	441.	21-23583	M/s. Commercial Reproduction Pvt. Ltd.
409.	21-77834	M/s. Cizer Commercial Company Pvt. Ltd.	442.	21-18476	M/s. Commercial Trust Pvt. Ltd.
410.	21-51629	M/s. Claitalf Consultants Pvt. Ltd.	443.	21-18832	M/s. Commonwealth Spinning & Knitting Mills Pvt. Ltd.
411.	21-64347	M/s. Clam Commodities Pvt. Ltd.			
412.	21-86898	M/s. Clarion Industrial Park Pvt. Ltd.			
413.	21-17310	M/s. Clarita Pvt. Ltd.			

1	2	3
444.	21-16248	M/s. Commonwealth Trading Corpn. Pvt. Ltd.
445.	21-46051	M/s. Compact Administrative Services Pvt. Ltd.
446.	21-76050	M/s. Compass Credit & Capital Pvt. Ltd.
447.	21-59477	M/s. Compect Vyapaar Pvt. Ltd.
448.	21-67807	M/s. Compio Tracon Pvt. Ltd.
449.	21-26469	M/s. Complex Iron & Steel Foundry Pvt. Ltd.
450.	21-27601	M/s. Complimentary Leather Pvt. Ltd.
451.	21-88602	M/s. Compuset Print Services Pvt. Ltd.
452.	21-45127	M/s. Computer Study and Allied Services Pvt. Ltd.
453.	21-84873	M/s. Conage Surface Treatments Pvt. Ltd.
454.	21-48015	M/s. Concept Communication (Calcutta) Pvt. Ltd.
455.	21-23961	M/s. Concern Pvt. Ltd.
456.	21-61668	M/s. Concorde Aviation India Pvt. Ltd.
457.	21-73908	M/s. Concorde Commerce Pvt. Ltd.
458.	21-61667	M/s. Concorde Exim India Pvt. Ltd.
459.	21-69279	M/s. Concouse Vinimay Pvt. Ltd.
460.	21-1790	M/s. Conmech Sales Pvt. Ltd.
461.	21-81233	M/s. Conquerd Technology Pvt. Ltd.
462.	21-32547	M/s. Conserv (India) Pvt. Ltd.
463.	21-50006	M/s. Consolidated Fibres Pvt. Ltd.
464.	21-89256	M/s. Consortium Solution Pvt. Ltd.

1	2	3
465.	21-86482	M/s. Consumer Tradewinds Pvt. Ltd.
466.	21-45510	M/s. Contai Finance & Hire Purchase Pvt. Ltd.
467.	21-43322	M/s. Contemporary Management Services Pvt. Ltd.
468.	21-18424	M/s. Continental Bottle Co. Pvt. Ltd.
469.	21-88005	M/s. Continuous Trades Pvt. Ltd.
470.	21-68372	M/s. Contra-Get Vinimay Pvt. Ltd.
471.	21-34167	M/s. Control Engineering Pvt. Ltd.
472.	21-64343	M/s. Convertex Dealers Pvt. Ltd.
473.	21-67454	M/s. Cool Brain Vinmoy Pvt. Ltd.
474.	21-58350	M/s. Cool Tex Commodities Pvt. Ltd.

UJJAWAL ROY
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
(1) M/s. Maruthi Chits and Finance Co. Pvt. Ltd. and
(2) M/s. Sampoorana Educational Curriculum Pvt. Ltd.

Pondicherry-605011, the 27th February 2007

No. 1903 & 1449/560(3)/2007—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of the following companies unless cause is shown to the contrary will be struck off from the register and the said companies will be dissolved.

1. M/s. Maruti Chits and Finance Co. Pvt. Ltd.
2. M/s. Sampoorana Educational Curriculum Pvt. Ltd.

M. KANNAN
Registrar of Companies
Pondicherry